



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2016 (आषाढ़ 25, 1938)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2016 (ASADHA 25, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2016

नियम

सं.बी/59111/सीडीएसई(II)-2016/आरटीजी./सीडीएसई/5649/डी(एजी)—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु 23 अक्टूबर, 2016 को एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी :

कोर्स का नाम तथा रिक्तियों की संभावित संख्या

- | | |
|--|-----|
| (1) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, जुलाई, 2017 में प्रारंभ होने वाला 143 वां कोर्स [एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 19 रिक्तियां सम्मिलित हैं।] | 150 |
| (2) भारतीय नौसेना अकादमी, इज़ीमाला, जुलाई, 2017 में प्रारंभ होने वाला कार्यपालक कोर्स (सामान्य सेवा) [एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों (नौसेना स्कंध) के लिए 6 आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं।] | 45 |
| (3) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद, जुलाई, 2017 में प्रारंभ होने वाले उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात् नं. 202/16/एफ/पीसी | 32 |

- | | |
|---|-----|
| (4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 106वां एसएससी कोर्स (पुरुषों के लिए) (अक्टूबर, 2017 में आरंभ) | 175 |
| (5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 20वां एसएससी महिला (गैर तकनीकी) कोर्स (अक्टूबर, 2017 में आरंभ) | 11 |

टिप्पणी : (i) आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

टिप्पणी : (ii) उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेवा मुख्यालय द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें : (I)(क) उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन प्रपत्र से संबंधित कॉलम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह सेवाओं को अपने वरीयता क्रम में किस-किस पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं, उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयता के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. के लिए पात्र हैं, उन्हें केवल ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही पात्र हैं। उन्हें ओ.टी.ए. के लिए ही अपनी वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार, एएफ को ही अपना प्रथम विकल्प दर्शाएं क्योंकि किसी एक वायु सेना चयन बोर्ड (एएफएसबी) में उनका कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एण्टीट्यूड बैटरी टेस्ट तथा केन्द्रीय संस्थापना/उड़ान चिकित्सा संस्थान में वायु सेना चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वायु सेना अकादमी को द्वितीय/तृतीय आदि विकल्प दर्शाए जाने की स्थिति में उसे अमान्य समझा जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें: (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने अपनी वरीयता लिखी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

(ङ.) किसी भी उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गयी वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात् इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गयी है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सकता है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं, चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है :

- (i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है और
- (ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया

हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे जिसके लिए वे व्यक्ति वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

- (iii) वायु सेना को अपने प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एण्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में विफल रहते हैं उन्हें एसएससी (ओटीए) प्रदान करने हेतु विचारार्थ शेष उम्मीदवारों को श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार एसएससी (ओटीए) हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे ओटीए के लिए भी अपना विकल्प दें।

टिप्पणी - (I) : एनसीसी [सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग) नौसेना स्कंध] के 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है, अतः इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/ नौसेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/ नौसेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती सीडीएसई एंटी, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एंटी, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक - III, आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायुसेना मुख्यालय, जे ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को 13 मई, 2017 तक पहुंच जाएं।

आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध में दो शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर डिवीजन और वायु सेना/नौसेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी - (II) : भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) के 'सी' प्रमाण-पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा, (ग) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट - I, II और III में विस्तार से समझाए गए हैं।

2. परीक्षा केन्द्र: परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐज़ल	इंफाल	पोर्ट ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बैंगलूरु	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग

चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापट्टनम
दिसपुर	नागपुर	

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों के आबंटन 'पहले आवेदन करो, पहले आबंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदन को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गए केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार या तो

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या
4. तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन करके आया हो।

परंतु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:-

(1) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 02 जुलाई, 1993 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1998 के बाद का न हो।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 02 जुलाई, 1993 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1998 के बाद न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए :

आयु: केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जो 01 जुलाई, 2017 से 20 से 24 वर्ष के हैं अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1993 से पहले और 01 जुलाई, 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए (डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष तक शिथिलनीय है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई, 1991 से पहले और 01 जुलाई, 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए।

नोट: 25 वर्ष की आयु से कम के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 वर्ष की आयु से अधिक वाले विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी कोर्स): केवल ऐसे पुरुष उम्मीदवार, (विवाहित/अविवाहित) ही पात्र हैं, जिनका जन्म 02 जुलाई, 1992 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1998 के बाद का न हो।

(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स): अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। इनका जन्म 02 जुलाई, 1992 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1998 के बाद न हुआ हो।

नोट : तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए कोर्सों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष नहीं माने जाएंगे और तदनुसार वे इन कोर्सों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

'अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी - 1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी - 3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि यदि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(1) भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी में स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अनंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष/सेमेस्टर डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय तक उम्मीदवार के पास अंतिम सेमेस्टर/वर्ष जिनके लिए परिणाम घोषित किए गए हैं, हेतु कोई मौजूदा बैकलॉग नहीं होना चाहिए और उन्हें एस एस बी के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो सेना मुख्यालय/आरटीजी, सीडीएसई एंटी, पश्चिमी ब्लॉक - III आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(1) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु 01 जुलाई, 2017 को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु 01 जून, 2017 को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु 13 मई, 2017 को या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 अगस्त, 2017 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार, जिन्होंने डिग्री परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है वे तभी पात्र हो सकते हैं जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गयी यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बुनियादी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किए जाने, परिणाम की घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमशीन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उड़ान सीखने में असफलता के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायुसेना की नौ परिवहन शाखा में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा उल्लिखित गुणात्मक जरूरतों के अध्यधीन होगा।

(स्नातक 60 प्रतिशत अंकों सहित)

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा-(II), 2016 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को रु. 200/- (केवल दो सौ रुपये) फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्यदिवस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। “नकद भुगतान प्रणाली” का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 11.08.2016 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् 12.08.2016 को 23.59 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवारों को www.upsconline.nic.in लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार ये नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I तथापि पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियत या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए होंगे, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद, जिसके दिसम्बर, 2016 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियाँ सहित तैयार रखें।

- (1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।
- (2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिक/हायर सैकेंड्री स्कूल प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या

- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
 - (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
 - (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
 - (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
 - (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
 - (xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल/फोन/पेजर/ब्लूटूथ या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
 - (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
 - (xiii) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना, तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उनके साथ ही उसे :
 - (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा
 - (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:
 - (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए।
 - (2) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
 - (ग) अगर वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :
- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
 - (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त, 2016 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात् लिंक निरूप्योच्च होगा।

7. आयोग/सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

- (i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आरआईडी तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।
- (ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की असंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

- (iii) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।
- (v) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आयोग/ सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान :

(1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को सेना मुख्यालय, एजी ब्रांच, रिक्रूटिंग सीडीएसई, एंट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक - 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पीओ-3 (ए), वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

केन्द्रों का आबंटन एसएसबी साक्षात्कार की तारीख योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबद्ध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in देखें अथवा सभी कार्यदिवसों में 14:00 बजे से 17:00 बजे के बीच दूरभाष सं. (011)-26173215 और फैक्स सं. 011-26196205 पर भर्ती निदेशालय से संपर्क करें और वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए पीओ-3(ए)/वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 तथा नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखना चाहिए।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए समन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना बुलावा पत्र नौसेना की वेबसाइट www.nausena-bharti.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या officer-navy.nic.in पर ई मेल भेजें।

विशेष ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु फरवरी, 2017 के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु मई, 2017 के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सेना मुख्यालय, भर्ती सीडीएसई एंट्री (एसएससी महिला एंट्री, एसएससी गैर-तकनीकी), वेस्ट ब्लॉक - III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष संख्या 26176028 पर एसएससी गैर तकनीकी पुरुष के लिए और दूरभाष सं. 26175473 पर महिला एंट्री के लिए संपर्क करना चाहिए। नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देना वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- (III) में उल्लिखित है। (फरवरी, 2017 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)

(vii) मूल प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण : सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कारों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के बाद शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अपने मूल प्रमाण पत्र (प्रत्येक की दो सत्यापित प्रतियां सहित) सेवा चयन बोर्ड/केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे। उन उम्मीदवारों को जो डिग्री परीक्षा में बैठ रहे हैं, अपने प्रमाण पत्र 13 मई, 2017 (केवल एसएससी के मामले में 01 अगस्त, 2017) तक प्रस्तुत करने होंगे। तत्संबंधी अनुदेश सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर दिए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बाद लौटा दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा फोटो प्रतियां किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

8. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी पाठ्यक्रम) जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है। चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

(i) जन्मतिथि के समर्थन में मेट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।

(ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमिस्टर्स के अंक पत्रों सहित बैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षाओं में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के वह हकदार नहीं होंगे। वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को

परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि से रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना तथा नौसेना उड़ान (एवियेशन) के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है। अतः, उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त किया ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा। भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा आदतन चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं।

वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार:-

एफ (पी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के तीन माध्यम हैं, अर्थात् सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई)/एनसीसी/एयरमेन। वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का, वायु सेना हेतु वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार केवल एक बार होगा। एनसीसी अथवा एयरमेन के रूप में कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में विफल रहने वाले समान उम्मीदवारों को सेना/नौसेना/ओटीए हेतु ओएलक्यू परीक्षण के लिए पुनः तभी बुलाया जाएगा यदि उन्होंने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया हो। आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, भले ही वे एसएससी पाठ्यक्रम के लिए भी सफल हुए हों अथवा नहीं, फरवरी-मार्च, 2017 तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और केवल एसएससी पाठ्यक्रम के लिए सफल होने वाले उम्मीदवारों को अप्रैल से जून, 2017 तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

9. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए निरर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को या महिला उम्मीदवारों को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होते हैं इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में भले ही सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा। अल्पकालीन सेवा कमीशन के पाठ्यक्रम को कोई पुरुष उम्मीदवार :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिए अनुबंध कर लिया हो जिसका पहले से कोई जीवित पति है या

(ख) जिसने पहले से जीवित पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य से शादी की हो या शादी के लिए अनुबंध कर लिया हो।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश/अल्पकालीन सेवा कमीशन की प्राप्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी के दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार, अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन में छूट दे सकती है।

11. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापिस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एस के मोहंती
उप सचिव (ए जी-II)

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।
4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।
5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।
6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।
7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : घनपूर्ण, संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं - जोड़, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमल भिन्न।

एकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणनखंड/गुणनखंडन प्रमेय/महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघ समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों

के युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब $0^\circ \leq X \leq 90^\circ$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि $X 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ और 90° सरल त्रिकोणमितीय सारण्यों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोण।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति: निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिक संयक।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल, जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं। (क्षेत्र वही) घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व पठाय तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज आयत, चित्र शलाका चार्ट, पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं - चरण-I तथा चरण-II। चरण-II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण-I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

- (क) चरण-I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप में कार्य निष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं, नाम: साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारीसम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - II

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता संबंधी मानक और तत्संबंधी दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं। बहुत से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

नोट : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी।

1. सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। महिला उम्मीदवारों का पुरुष/महिला चिकित्सकों/विशेषज्ञों/स्त्री रोग विशेषज्ञों से गठित एक चिकित्सक बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। एक महिला चिकित्सक बोर्ड की सदस्या होगी। अकादमी या प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिए जाते हैं। तथापि, जो उम्मीदवार अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किए जाएंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा और अपील मेडिकल बोर्ड को अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया भी उम्मीदवार को सूचित की जाएगी।

अनुपयुक्त/अयोग्य उम्मीदवार अपील मेडिकल बोर्ड के (ए.एम.बी.) को आवेदन कर सकते हैं, जिसे सेवा मेडिकल बोर्ड (एस.एम.बी.) के 42 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाना है तथा वे अपील मेडिकल बोर्ड के एक दिन पूरा होने के भीतर ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

एएमबी द्वारा अयोग्य घोषित किए उम्मीदवारों को ए.एम.बी. की जांच परिणाम को चुनौती देने की प्रक्रिया के संबंध में एएमबी अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा कि पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड (आर.एम.बी.) का आयोजन, मामले के गुणावगुण के आधार पर डी.जी.ए.एफ.एम.एस. के विवेक से स्वीकृत किया जाएगा तथा पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का आयोजन अधिकार का विषय नहीं है। यदि अभ्यर्थी आर.एम.बी. में प्रार्थना करना चाहता है तो उसे

ए.डी.जी.आर.टी.जी. (सीडीएसई) आर्मी हैड-क्वा., वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 और डीएमएस (एमबी)/डी.जी.एम.एस. (वायु), वायु सेना मुख्यालय, आर.के. पुरम, यदि उम्मीदवार वायु सेना का हो, को संबोधित करना चाहिए तथा इसकी एक प्रति ए.एम.बी. अध्यक्ष को हस्तांतरित करनी चाहिए। डी.जी.ए.एफ.एम.एस. का ऑफिस, तिथि एवं स्थान (केवल दिल्ली एवं पुणे), जहां अभ्यर्थी आर.एम.बी. के लिए प्रस्तुत होगा, को सूचित करेगा।

उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है।

- (क) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।
- (ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए।
- (ग) पुरुषों के लिए कद कम से कम 157.5 सेंमी. (नौसेना के लिए 157 सेंमी तथा वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी.) का हो। महिलाओं के लिए कद कम से कम 152 सेंमी हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। यह छूट नौसेना और वायु सेना के मामले में लागू नहीं होगी। थल सेना और नौसेना के लिए कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक (पुरुष)

सेंटीमीटरों में कद (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
152	44*	46	47
155	46	48@	49

157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	79

* नौसेना के लिए 45

@ नौसेना के लिए 47

उपर्युक्त सारणी में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौसेना के लिए) वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किंतु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले देह्यष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

कद और वजन के मानक (महिलाएं)

सेंटीमीटरों में कद (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	20 वर्ष	25 वर्ष	30 वर्ष
148	39	41	43
150	40	42	43.5
153	42	43.5	45
155	43	44	46
158	45	46	48
160	46	47	49
163	47	49	51
165	49	51	53
168	50	52	54

वायु सेना के उम्मीदवारों के स्वीकार्य वजन नीचे दिए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत होगा।

पुरुषों के विभिन्न आयुवर्ग और कद के लिए किलोग्राम में आदर्श वजन सामान्य व्यक्तियों के लिए वसा प्रतिशत (< 20)

वायु सेना के लिए

कद	आयु रेंज							
मि.मी.में	15-17	18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	>48
1520	46	47	50	54	54	54	55	54
1530	47	47	51	55	55	54	56	54
1540	47	48	51	56	55	55	57	55
1550	48	49	52	56	56	56	57	56
1560	48	49	53	57	57	56	58	56
1570	49	50	54	58	58	57	58	57
1580	49	50	54	58	58	58	59	58
1590	50	51	55	59	59	59	60	58
1600	51	52	56	59	60	59	60	59
1610	51	52	56	60	60	60	61	60
1620	52	53	57	61	61	61	62	60
1630	52	54	58	61	62	61	62	61
1640	53	54	59	62	63	62	63	62
1650	53	55	59	63	63	63	64	62
1660	54	56	60	63	64	64	64	63
1670	54	56	61	64	65	64	65	64
1680	55	57	61	65	65	65	65	65
1690	55	57	62	65	66	66	66	65
1700	56	58	63	66	67	67	67	66
1710	56	59	64	66	68	67	67	67
1720	57	59	64	67	68	66	68	67
1730	58	60	65	68	69	69	69	68
1740	58	61	66	68	70	69	69	69
1750	59	61	66	69	71	70	70	69
1760	59	62	67	70	71	71	71	70
1770	60	62	68	70	72	72	71	71
1780	60	63	69	71	73	72	72	71
1790	61	64	69	72	73	73	73	72
1800	61	64	70	72	74	74	73	73
1810	62	65	71	73	75	75	74	73

1820	62	66	72	74	76	75	74	74
1830	63	66	72	74	76	76	75	75
1840	64	67	73	75	77	77	76	75
1850	64	68	74	75	78	77	76	76
1860	65	68	74	76	78	78	77	77
1870	65	69	75	77	79	79	78	77
1880	66	69	76	77	80	80	78	78
1890	66	70	77	78	81	80	79	79
1900	67	71	77	79	81	81	80	79
1910	67	71	78	79	82	82	80	80
1920	68	72	79	80	83	82	81	81
1930	68	73	79	81	83	83	81	82
एस डी	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9	6.8	5.8	7.26

- (घ) आपके अपने हित में आपको यह सलाह दी जाती है कि सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने से पहले आप कान की मैल, आंखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक जांच करवा लें।
- (ङ.) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगातार किया जाएगा कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।
- (च) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।
- (छ) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए।
- (ज) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सेंमी की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण, नासिका और कंठ की पिछली या अबकी बीमारी का कोई प्रमाण न हो।
- (झ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो और उम्मीदवार एड्स मुक्त हो।
- (ञ) उदर पेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (ट) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अयोग्य होगा। यदि हर्निया की शल्य चिकित्सा हो गयी हो तो वर्तमान परीक्षा से कम से कम छह महीने पहले हुई हो जिसका जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका हो।
- (ठ) हाइड्रोसिल, बेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।
- (ड) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।
- (ढ) चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना है तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
- (ण) पुरुष उम्मीदवारों के लिए, दीर्घ दृष्टि (सही की गई दृष्टि) बेहतर दृष्टि 6/6 और खराब दृष्टि 6/18 न्यूनतम स्वीकार्य दृश्य तीक्ष्णता हैं। (चश्मे के बिना वायु सेना के लिए केवल) दृष्टिवैषम्य सहित निकट दृष्टिदोष -3.5 डी से अधिक नहीं और प्रकट दीर्घ दृष्टि +3.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए दीर्घ दृष्टि

(सही की गई दृष्टि) बेहतर दृष्टि 6/6 और खराब दृष्टि 6/18 न्यूनतम स्वीकार्य दृश्य तीक्ष्णता हैं। दृष्टिवैषम्य सहित निकट दृष्टिकोण -5.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए। दृष्टिवैषम्य सहित प्रकट दीर्घ दृष्टि +3.5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंख के किसी प्रकार के रोग का पता लगाने के लिए नेत्रदर्शक (आफ्थैल्मोस्कोप) के माध्यम से नेत्रों की आंतरिक जांच की जाएगी। उम्मीदवार की दृष्टि अचछी होनी चाहिए। सेना के लिए रंग दृष्टि मानक सीपी-II होगा। उम्मीदवार को लाल और हरे रंग की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए।

(त) नौसेना के लिए दृष्टि मानक :

(क)	बिना चश्मे के असंशोधित	6/12
(ख)	चश्मे के साथ संशोधित	6/6
(ग)	निकट दृष्टि की सीमा	-1.5
(घ)	दूरदृष्टि की सीमा	+1.5
(ङ.)	दूरबीन दृष्टि	III
(च)	वर्ण बोध की सीमा	I

(थ) महिला उम्मीदवारों के एसएसबी में चयन के पश्चात् या प्रशिक्षण के दौरान, यदि किसी भी स्तर पर गर्भावस्था पाई जाती है तो उन्हें कमीशन की मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा तथा ओटीए में सम्मिलित होने की तारीख से सेना चिकित्सालय प्राधिकारियों द्वारा गर्भावस्था की पुष्टि होने पर वर्जन की तारीख तक किए गए खर्च की वसूली की जाएगी।

रेडियल केरोटोमी तथा लेसर सर्जरी : जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरोटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा, उन्हें स्थायी तौर पर तीनों सेवाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

पीआरके/लेसिक का पता लगाने के लिए सेवा मेडिकल बोर्ड में ए-स्कैन बायोमीटर द्वारा सभी उम्मीदवारों की अक्षीय लंबाई मापी जाएगी।

जिन उम्मीदवारों ने अपवर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसर सर्जरी करवाई हुई है यदि वे निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हैं तो ही सेना में कमीशन के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

- (i) यदि आयु 20 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) प्रक्रिया के पश्चात छह महीने की अवधि के लिए स्थायी अपवर्तन सहित मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए की गई सरल स्थिर लेसिक (एलएसआईके)/एक्सआईमर (पीआरके) लेसर प्रक्रिया।
- (iii) एक स्वस्थ रेटिना।
- (iv) मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए किसी भी मेरिडियन में ± 1.50 अधिकतम अवशेष अपवर्तन सहित अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की सही दृष्टि होनी चाहिए।
- (v) अनुमत सीमा के अंदर अक्षीय लंबाई।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के दौरान यह घोषणा करने को कहा जाएगा कि उसने उपर्युक्त लेसर प्रक्रिया करवाई है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके रेटिना/कोर्निया का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। यद्यपि सेवा मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तथापि जो उम्मीदवार उपर्युक्तानुसार स्वीकृत सीमाओं में पाए जाते हैं, उन्हें अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसके कोर्निया तथा रेटिना का संपूर्ण मूल्यांकन तथा नेत्र विज्ञान में वरिष्ठ सलाहकार द्वारा रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।

(द) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिंदु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिंदु होते हैं। उम्मीदवार को तीव्र पायरिया रोग नहीं होना चाहिए।

(ध) छाती का एक्स-रे परीक्षा में ग्रेव प्रशुका की उपस्थिति हेतु ग्रेव मेरुदंड के निचले भाग की परीक्षा भी शामिल होगी। सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझने पर मेरुदंड के अन्य भागों की एक्स-रे परीक्षा की जाएगी।

(न) कोहनी की उठान का कोण पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 15° एवं 18° से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. केवल वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त के साथ निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होंगे।

(क) वायु सेना के लिए स्वीकार्य मानव देह संबंधी माप निम्न प्रकार है :

कद : 162.5 सेंमी.

टांग की लंबाई : कम से कम 99 सेंमी. और अधिक से अधिक 120 सेंमी.

अरु की लंबाई : अधिक से अधिक 64 सेंमी.

बैठकर ऊंचाई : कम से कम 81.5 सेंमी. और अधिक से अधिक 96 सेंमी.

(ख) छाती का एक्स-रे जरूरी है।

(ग) वायुसेना हेतु दृष्टि मानक

ऐनक पहनने के अभ्यस्त हो चुके उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरदृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी में 6/9, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक शोधित कलर विजन सीपी-1.

हाइपरमेट्रोपिया + 2.0 डीएसपीएच

मेनिफेस्ट मायोपिया - शून्य

रेटिनोस्कोपिक मायोपिया - किसी भी अनुमत मेरिडियन में -0.5

दृष्टिवैषम्य (एस्टिग्मेटिज्म) : +0.75 डीसीवाईएल (+2.0 डी अधिकतम के अंतर्गत)

मेडोक्स रॉड टेस्ट

(i) 6 मीटर पर - एक्सो - 6 प्रिज्म डी

एसो - 6 प्रिज्म डी

हाइपर - 1 प्रिज्म डी

हाइपो - 1 प्रिज्म डी

(ii) 33 सेंमी. पर - एक्सो - 16 प्रिज्म डी

एसो - 6 प्रिज्म डी

हाइपर - 1 प्रिज्म डी

हाइपो - 1 प्रिज्म डी

हस्तधारित त्रिविमदर्शी - बीएसवी के सभी ग्रेड

अभिसरण - 10 सेंमी. तक

दूर एवं निकट हेतु कवर टेस्ट - पार्श्व अपसरण/अभिसरण शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा पूर्ण वायु सेवा में किसी प्रकार की झूटी के लिए अपवर्तन त्रुटियों के सुधार हेतु वायु सेना की किसी भी झूटी के लिए रेडियल केराटोमी (आरके) तथा फोटो रिफ्रेक्टिव केराटोमी (पीआरके) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आईओएल इंप्लांट सहित अथवा उसके बिना कैटेरेक्ट सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

द्विनेत्री दृष्टि - अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए।

(उत्तम विस्तार और गहराई सहित फ्यूजन और स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक सर्जरी हो चुकी हो, उन्हें भारतीय वायु सेना की फ्लाईंग शाखा में स्थायी कमीशन हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है।

(घ) मानक

- (i) वाक परीक्षण : प्रत्येक कान से 610 सेंमी से कानाफूसी सुनाई दे।
- (ii) श्रव्यतामितिक : 250 एचजैड तथा 8000 एचजैड के बीच की आवर्तियों में व्यश्चित कमी 20 डीबी से अधिक न हो।

(ड.) रूटीन ईसीजी सामान्य सीमा में हो।

3) एक्स-रे जांच के उपरान्त निम्नलिखित स्थितियों का पाया जाना थल सेना और नौ सेना में प्रवेश के लिए अपात्रता होगा :

- (क) मेरूदंड का कणिकागुल्मीय रोग।
- (ख) आर्थराइटिस/स्पोण्डिलेसिस।
- (ग) कॉब पद्धति से मापा गया 10° डिग्री से अधिक स्कोलिओसिस
- (घ) मंद से अपेक्षाकृत अधिक कायफोसिस/लार्डोसिस।
- (ड.) स्पोण्डिलोसिथैसिस/स्पोण्डिलेसिस।
- (च) हर्निएटिड न्यूकलिय पलपोसिस।
- (छ) कशेरूका का सम्पीडन अस्थिभंग।
- (ज) सेक्रेलाइजेशन रोग।
- (झ) प्रदर्शनीय तंत्रिकीय या परिसंचरणीय अभाव के साथ ग्रेव पर्शुका।
- (ञ) पद से अधिक स्तर पर स्क्लिमोर्ल नोड की उपस्थिति।
- (ट) शीर्ष धरानुकपाल (एंटलांटो-आकसीपोटल) तथा एंटलांटो अक्षीय असंगतियां।
- (ठ) अपूर्ण सेक्रेलाइजेशन एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय।
- (ड) एसवी-1 तथा एलवी-5 से इतर स्वाईनाबाईफिडा।
- (ढ) विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य असामान्यता।

वायु सेना हेतु मेरूदंड की स्थिति

मेरू या सेक्रो इलियक संधि संबंधी रोग या चोट का पूर्व चिकित्सा वृत्त होने के कारण उन वास्तविक लक्षणों के साथ या बिना, जिनके कारण उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली सफल तरीके से न व्यतीत कर रहा हो, भारतीय वायुसेना में कमीशन हेतु निरस्तीकरण का मामला है। पूर्व में मेरू अस्थिभंग/भ्रंश कशेरूकी डिस्क तथा इन स्थितियों में हुई शल्य चिकित्सा भी निरस्तीकरण का आधार होगा। चिकित्सा परीक्षा के समय निम्नलिखित स्थितियों का पता लगने पर वायु सेना सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा।

- (क) मेरूदंड का कणिका गुल्मीय रोग
- (ख) संधिशोध संरूप/कशेरूकासंधिग्रह
 - (i) रूमेटॉइड सन्धिशोध तथा संबद्ध विकार
 - (ii) संधि सायुज्यक कशेरूकासंधिशोध
 - (iii) अस्थिसंधि विकृति, कशेरूकासंधिग्रह तथा व्यपजनन संधि रोग
 - (iv) गैर संधि आमवात (यथा घूर्ण कफ की विकृति, टेनिस कूर्पर, प्रत्यावर्ती कटिवेदना)
 - (v) एसएलई, त्वक्पेशी शोध, बहुपेशीशोध, वाहिकाशोध सहित विविध विकार
- (ग) कशेरूकाग्रसर्पण/स्पांडिलोलाइसिस/कशेरूकासंधिग्रह
- (घ) कशेरूका का सम्पीडन अस्थिभंग
- (ड.) शुअरमैन्स रोग (कौमार कुब्जता)

- (च) ग्रीवा मेरु की नैदानिक प्रतिबंधित गति से संबंध ग्रीवा अग्रकुब्जता की क्षति
- (छ) स्पष्ट तंत्रिका विज्ञानी या परिसंचरण हास सहित एकपार्श्वी/द्विपार्श्वी गैव पर्शुका
- (ज) कोब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता
- (झ) डीजेनरेटिव डिस्क रोग
- (ञ) एक से अधिक स्तर पर शमोर्ल नोड्स का पाया जाना
- (ट) शीर्षधर-पश्चकपाल और शीर्षधर-अक्षक असंगतियां
- (ठ) ग्रीवा, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरूका तथा/अथवा अपूर्ण अवरूद्ध (फ्यूज्ड) कशेरूका तथा ग्रीवा या अभिपृष्ठ मेरुदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्णतया अवरूद्ध कशेरूका
- (ड) सभी स्तरों पर एकपार्श्वी त्रिकास्थिभवन या कटि कशेरूकाभवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वी अपूर्ण त्रिकास्थिभवन या कटि कशेरूकाभवन
- (ढ) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य अपसामान्यता
4. नौसेनिक विमानन शाखा के उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक निकट दृष्टि की सीमा -0.75 डी और दीर्घ दृष्टि की सीमा +1.5 डी को छोड़कर वही होंगे जो वायु सेना के उड़ान हेतु उम्मीदवार हैं
5. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किए जाने के दौरान यदि अक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनर्हक ठहराए जाने की स्थिति में वह अक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा (सेवाओं) के लिए भी अयोग्य ठहरा सकती है।
6. शारीरिक अवस्था : संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधोउल्लिखित दिनचर्या का पालन करके स्वयं को अच्छी शारीरिक अवस्था में रखें:
- (क) धावन/दौड़ : 15 मिनट में 2 से 4 किमी
- (ख) रस्सी कूद
- (ग) पुश अप एवं सिट अप : प्रत्येक न्यूनतम 20
- (घ) चिन अप : न्यूनतम 08
- (ङ.) रस्सी पर चढ़ना/आरोहण : 3 से 4 मीटर

परिशिष्ट - III

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं।

थल सेना अधिकारी व नौसेना और वायु सेना के समकक्ष रैंक के लिए वेतनमान :

(i) वेतन

(क) रैंक	पे बैंड (रूपए)
लेफ्टिनेंट से मेजर	15,600-39,100/- रु. (पे बैंड-3)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	37,400-67,000/- रु. (पे बैंड-4)
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी मान	67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि@ 3%) - 79,000
एचएजी मान*	75,500/- (वार्षिक वेतन वृद्धि@ 3%) - 80,000/-
(*लेफ्टिनेंट जनरल के कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी।)	
वीसीओएस/सेना कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	80,000/- (नियत)
सीओएस	90,000/- (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :-

लेफ्टिनेंट	5,400/-
कैप्टन	6,100/-
मेजर	6,600/-
लेफ्टिनेंट कर्नल	8,000/-
कर्नल	8,700/-
ब्रिगेडियर	8,900/-
मेजर जनरल	10,000/-

एवीएस समिति की अनुशंसाओं पर सेना के अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन के कारण पदोन्नति की अवधि कम कर दी गई है तथा समय वेतनमान पदोन्नति कर्नल (समकक्ष) के पद तक बढ़ा दी गई है तथा लेफ्टि. कर्नल (टीएस) (समकक्ष) ग्रेड वेतन रु. 8700/- प्रतिमाह के हकदार हैं।

(ग) लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6000/- रु. प्रतिमाह की एक नियत धनराशि भी देय है।

(घ) कैडेट प्रशिक्षण हेतु वृत्तिका

कैडेट पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 21000/- रुपए प्रतिमाह (15600/- रुपए पे बैंड के वेतन के रूप में तथा 5400/- रु. का ग्रेड पे) की नियम वृत्तिका पाने के हकदार होंगे।

(ii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर 6000/- रु., 9000/- रु., 15000/- रु. या 20000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है।

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय हैं:

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक, श्रेणी, 500/- रु. प्रतिमाह
- (ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I, 400/- रु. प्रतिमाह
- (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II, 280/- रु. प्रतिमाह
- (iv) मास्टर ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक, 400/- रु. प्रतिमाह
- (v) ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक, 280/- रु. प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है :

(क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर	रु. 10,500/-
(ख) मेजर से कर्नल	रु. 14,000/-
(ग) कैप्टन और समकक्ष	रु. 11,000/-
(घ) लेफ्टिनेंट और समकक्ष	रु. 9,000/-

अन्य भत्ते :

(क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) रु. 400/- प्रतिमाह के दर से किट रखरखाव भत्ता।

- (ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6780/- रु. से 8400/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4200/- रु., 5200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1600/- रु. से 2000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।
- (घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1060/- रु. प्रतिमाह से 11,200/- रु. प्रतिमाह तकनीकी रैंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते की पात्र होंगे, जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।
- (ङ.) सभी रैंक के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त 14000/- रु. प्रतिमाह की दर से सियाचिन भत्ता देय होगा। तथापि यह भत्ता अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के साथ देय नहीं है।
- (च) परिधान भत्ता: एक बार किट के लिए 14,000/- रु. की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्ष के लिए 3,000/- रु.
- (छ) सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता है।
- (ज) परिवहन भत्ता: अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन 3200/- रु. + उस पर महंगाई भत्ता प्रति माह तथा अन्य स्थानों पर 1600/- रु. + उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
- (झ) बच्चों की शिक्षा भत्ता।
- (ञ) विशिष्ट रूप से रक्षा बलों को देय भत्तों की दरों में और 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है क्योंकि महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत हो गया है।
- (ट) सिक्किम राज्य सरकार ने सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल उम्मीदवारों हेतु 1.5 लाख रु. (डेढ़ लाख रुपए मात्र) की नकद प्रोत्साहन राशि अनुमोदित की है ।
- (क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :
1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :
 - (क) इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।
 - (ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र और किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।
 2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन “जेनटलमैन कैडेट” के रूप में दर्ज किए जायेंगे। “जेनटलमैन कैडेट” पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए “भारतीय सैन्य अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।”
 3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, तथापि यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद बर्दाशत करेंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाशत करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और नौ सेना या वायु सेना में स्थापित सदृश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-

पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) से अधिक नहीं है। यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

(क)	प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च	1000.00 रु.
(ख)	वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	2750.00 रु.
	योग	3750.00 रु.

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

200.00 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने के जेब खर्च 1000.00 रुपए

5. भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :

- (1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपए प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।
- (2) कर्नल कैडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपए प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होती वह :

- (क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।
- (ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी। कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी।

किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार

होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल लिए जाएंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को अपनी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

10. प्रशिक्षण

भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को 'जेन्टलमैन कैडेट' का नाम दिया जाता है। उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंपेंटी के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेन्टलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

11. बीमा

भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन/महिला कैडेटों का 01 अक्टूबर, 2015 से 60 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए किसी प्रकार का विकलांगता लाभ देय नहीं है लेकिन 50,000/- रु. का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले जेंटलमैन/महिला कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह के लिए पात्र नहीं होंगे। वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन/महिला कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 5,000/- रु. की दर से अग्रिम भुगतान करना होगा और नियमित सैनिक अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य सेना सामूहिक बीमा योजना के सदस्य बन जाएंगे।

12. सेवा की शर्तें :

(1) तैनाती :

थलसेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(2) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा:

लेफ्टिनेंट

(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)

कैप्टन

2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

मेजर

6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

लेफ्टिनेंट कर्नल

13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

कर्नल (टीएस)

26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

चयन द्वारा

कर्नल	15 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, इड़ीमाला, केरल में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, स्नातक कैडेट विशेष प्रवेश योजना (जीएसईएस) कोर्स के अंतर्गत कैडेट के रूप में की जाएगी। कैडेटों का चयन, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) में उनके अर्हक होने के उपरांत एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा। मेधावी उम्मीदवार जो चिकित्सकीय रूप में उपयुक्त हैं, को योग्यता सूची के क्रम में, 45 रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया जाएगा। इन 45 रिक्तियों में से छह रिक्तियों, एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत नौसेना एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर में से उम्मीदवारों का चयन एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित को छोड़कर वही होंगी, जो जी एस ई एस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

(क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन में न्यूनतम दो शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके पास प्रमाण पत्र 'सी' (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र 'सी' परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, कोर्स प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा।

(ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का सीनियर डिवीजन छोड़ने के बारह महीनों के उपरांत आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे।

(घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कमान अधिकारी, इन आवेदन पत्रों को संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेंगे। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेंगे। ये आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे। (ड.) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा।

(च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अध्यधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 35000/- रु. की राशि उनके द्वारा दी

जाएगी और बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी जिसे वे आने पर भारतीय स्टेट बैंक, इंडीमाला शाखा में खुलवाएंगे। क्योंकि यह बड़ी राशि है, यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं का देय डिमांड ड्राफ्ट लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

विविध व्यय

- | | | | |
|------|---|--|-------------------|
| (क) | जेब खर्च/व्यक्ति व्यय | 5000/- रु. @ 1000 रु. प्रतिमाह की दर से | |
| (ख) | धुलाई, सिविलियन बियरर सिनेमा, बाल कटाई और अन्य विविध सेवाएं | 4,250/- रु. @ 850 रु. प्रतिमाह की दर से | |
| (ग) | अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रैक/सूट और बस्ता की स्टिचिंग/खरीद पर व्यय | 20,000/- रु. | |
| (घ) | अवधि के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अवकाश इयूटी स्टेशन/होम स्टेशन पर जाने के लिए यात्रा व्यय | 2,000/- रु. | |
| (ड.) | बीमा : नौसेना अकादमी में 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रतिवेतन के समय, उम्मीदवार को 8 लाख रुपए के बीमा आवरण हेतु 780/- रुपए की राशि के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो कि वापस नहीं होगा। प्रत्येक पदावनति अवधि के लिए रुपए 780/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। | | |
| (iv) | प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार, परिवीक्षाधीन रहेंगे। | | |
| | क) | आईएनए, इंडीमाला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम | 44 सप्ताह |
| | ख) | प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण | 06 माह |
| | ग) | सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण | 06 माह |
| | घ) | सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम) | 32 सप्ताह |
| | ड.) | संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट | न्यूनतम 06-09 माह |
| (v) | नियुक्ति तथा अन्य हितलाभ लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, कैडेटों, को सब-लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश हितलाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसी समस्त अनुलब्धियां तथा विशेष सुविधाएं उसी प्रकार की होंगी, जो दो अन्य सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं। | | |
| (vi) | भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, तब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उसके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500.00 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे | | |

सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह मानव संसाधन एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) पाठ्यक्रम में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/एयरमैन। एक से अधिक माध्यम से वायु सेना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वायु सेना के साथ-साथ अन्य सशस्त्र सेनाओं के लिए वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार लिया जाएगा। एनसीसी अथवा एयरमैन के तौर पर कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) और/अथवा पायलट एप्टीट्यूड बैटरी "परीक्षण में विफल रहने वाले समान उम्मीदवारों को सेना/नौसेना/ओटीए के लिए ओएलक्यू परीक्षण के लिए तभी पुनः बुलाया जाएगा जब यह पाया जाता है कि उन्होंने सीडीएस परीक्षा के माध्यम से भी आवेदन किया है।"

2. प्रशिक्षण पर भेजना :

वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डाइरेक्ट एंट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. प्रशिक्षण: वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा दरें (परिशोधन के अधीन हैं) : वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए 1,00,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जायेंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20% रह जाती है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट रु. 21,000/- प्रतिमाह (रु. 15600/-) पे बेंड में और रु. 5400/- ग्रेड पे की नियत वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा। सरकार द्वारा फ्लाइट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिए जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000 रुपए होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25000 रुपए होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा एक सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइट कैडेट द्वारा 76/- रुपए के मासिक अप्रतिदेय अंशदान के भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

- (1) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें।

वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 140/- रुपए (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रुपए या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं है। वित्तीय सहायता के पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार के अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिए जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रेषित कर देगा।

- (2) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(क)	140 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रुपए
(ख)	वस्त्र और उपस्कर मदों के लिए	1500 रुपए
	योग	2340 रुपए

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है।

140 रुपए प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए जेब भत्ता 840 रुपए।

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइटिंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। भारतीय वायु सेना में दो प्रकार की पदोन्नति होती है अर्थात् कार्यकारी रैंक प्रदान करके और स्थायी रैंक प्रदान करके। प्रत्येक उच्च रैंक के लिए अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित हैं। रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर तथा विंग कमांडर के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पाइलट) शाखा की क्रमशः 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। विंग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत गठित पदोन्नति बोर्डों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन

आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन एक बार में अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात प्रत्येक दूसरे वर्ष बिना किसी दूरी पर प्रतिबंध के गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान इयूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपर्युक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी। जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कैलेंडर वर्ष में 6 एक तरफा यात्रा फार्म डी पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के

किराए का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म डी पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. पेंशन लाभ :

सेवानिवृत्ति पेंशन : सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की कम से कम अवधि 20 वर्ष है। (लाभ के बिना) सेवानिवृत्ति पेंशन अधिकारी द्वारा उसकी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त (वेतन, रैंक वेतन और प्रेक्टिस निषेध भत्ता, यदि कोई हो) की गई उन परिलब्धियों को औसत के 50 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित की जाएगी, जो पेंशन के मामले में संगणनीय है, या 50 प्रतिशत अंतिम वेतन भुगतान जो भी अधिक लाभकारी हो। सेवानिवृत्ति पेंशन किसी भी परिस्थिति में 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

7. सेवानिवृत्ति उपदान :

सेवानिवृत्ति उपदान : सेवानिवृत्ति के लिए अर्हक सेवा की कम से कम अवधि (लाभ के बिना) 10 वर्ष है, सेवानिवृत्ति उपदान अर्हक सेवा की प्रत्येक छह महीने की अवधि पूरी करने पर आधे महीने की परिलब्धियों की एक समान दर के हिसाब से स्वीकार्य होगी। इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में अधिकारी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन, रैंक वेतन, महंगाई भत्ता और प्रेक्टिस बंदी भत्ता (यदि कोई हो), प्रगतिरोध/वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता (सेवानिवृत्ति/अशक्तता/मृत्यु की तिथि पर देय) शामिल होगा।

8. मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान :

पेंशन या उपदान के अतिरिक्त, प्रत्येक छः महीने के अवधि की अर्हक सेवा के लिए तथा 5 वर्ष का लाभ परिलब्धियों के चौथाई के बराबर मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान देय है, जो कि परिलब्धियों का $16\frac{1}{2}$ गुणा होगा और 10.00 लाख रुपए से अधिक न होगा।

9. सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और निवृत्ति उपदान इस प्रकार से होंगे:

- (क) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का वेतन
- (ख) पहले वर्ष की सेवा के बाद किंतु पांच वर्ष की सेवा से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो छः महीने का वेतन।
- (ग) पांच वर्ष की सेवा के बाद किंतु 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन।
- (घ) यदि मृत्यु बीस वर्ष या उसके बाद होती है तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन, जो कि कम से कम 12 माह के वेतन एवं अधिक से अधिक 33 माह के वेतन के बराबर होगा, परंतु किसी मामले पर भी मृत्यु और नियुक्ति उपदान कि राशि 10.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

विकलांगता पेंशन और विशेष परिवार पेंशन जिसमें बच्चों और आश्रितों (माता-पिता, बहन तथा भाई) को पेंशन देना भी शामिल है, निर्धारित नियमों के अनुसार भी देय है।

10. अन्य सुविधाएं :

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं।

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्ने में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्ने में भर्ती हो :

- (क) उसे उस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

- (ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।
2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 11 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। उन उम्मीदवारों को 'सेना अधिनियम' के अंतर्गत जेंटलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जेंटलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।
 3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा, जिसके कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200/- प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है। किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैर-सपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है। बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. प्रतिमास से कम हो। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चैन्ने को भेज देगा।
 4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धनराशि जमा करनी होगी।

(क) 1000/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता	3,000/- रु.
(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए	5,000/- रु.
(ग) 2 माह के लिए समूह बीमा राशि (एजीआईएफ)	2,000/- रु.
कुल	10,000/- रु.

यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।
 5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा।
कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापिस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं को सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।
 6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट का थल सेना मुख्यालय द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बांड भरना होगा।
 7. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद उम्मीदवारों को अकादमी से त्याग-पत्र दिए बिना और प्रशिक्षण के खर्च का भुगतान किए बिना सशस्त्र सेना, नौ-सेना और वायु सेना अथवा किसी अन्य

रोज़गार में प्रवेश/आयोग की किसी प्रकार की परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन्तु उन जेंटलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद नौ सेना और वायु सेना में सदृश (कौरेसपोंडिंग) कैडेट प्रशिक्षण संगठनों अथवा भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग-पत्र देंगे उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

8. जिस जेंटलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

9. प्रशिक्षण :

चुने गए उम्मीदवारों को जेंटलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरांत जेंटलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करेगा।

10. सेवा की शर्तें :

- (क) परिवीक्षा की अवधि

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किए जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

- (ख) तैनाती :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.क्यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिंदा नियुक्तियों पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

- (ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन (पुरुष एवं महिला) 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। जो पुरुष अधिकारी सेना में दस वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा।

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो कमीशन पूर्व अनुदान के लिए चयनित नहीं हुए हैं लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेवा निर्मुक्त किया जाएगा। महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के पात्र नहीं हैं, तथापि वे 14 वर्ष की अवधि तक वृद्धि के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।

- (घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान :
वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा। तत्पश्चात सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथा निर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा।
- (ङ.) बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान :
बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :
- (i) सिविल पद प्राप्त करने पर
 - (ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर
 - (iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/फैमिली व्यवसाय अपनाने पर
- (च) स्थायी पदोन्नति :
अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे।
- (i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में।
 - (ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में।
 - (iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में।
- (छ) अनिवार्य शर्तें :
स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शक्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी।
- (ज) वरिष्ठता का समायोजन :
एस.एस.सी. पुरुष अधिकारियों तथा एन.एस.सी. महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एस.एस.सी. पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिये, विचाराधीन एस.एस.सी. कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अंतर की सदृश (कोरेसपोंडिंग) अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित, वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :

उपर्युक्त पैरा 10(ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अध्यक्षीन, इस आदेश के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती, किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तिथि से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से घटाई गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि, गणना योग्य नहीं होगी। फर्लो दर पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दर पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के हकदार उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ञ) छुट्टी :

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड-1 थल सेना के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट करने पर तथा इयूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे। एस.एस.सी. महिला अधिकारी एस.ए.एल. I/एस/92-एस के अनुसार प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होंगी।

(ट) कमीशन की समाप्ति :

किसी भी अधिकारी के कमीशन को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कारण से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है:-

- (i) उपचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
- (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या
- (iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
- (iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर तीन महीने के नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) सेवांत उपदान :

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस.एस.सी.ओ. सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) रिजर्व के रहने का दायित्व :

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) विविध :

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं।

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जून 2016

सं. ओ.दो-3693/2016-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री सुदीप लखटकिया, भा.पु.से. (टी जी : 1984) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रु. 67,000—79,000/— के एच.ए.जी वेतन स्केल में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31.07.2019 (अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि) तक या अग्रिम आदेश तक, जो पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, उक्त अधिकारी ने अपर पुलिस महानिदेशक, के.रि.पु.बल का कार्यभार दिनांक 20.06.2016 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

अभय वीर चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.4059/15-कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्रधिकारी द्वारा तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. शरत रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट), ईरला-10613, 203 कोबरा वाहिनी अस्पताल के.रि.पु.बल, बरही, हजारीबाग, को दिनांक 08 जून 2016 (अपराह्न) से मुक्त कर दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 08 जून 2016 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

अभय वीर चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जून 2016

सं. ई-16015/प्रति./पीआर-भा.पु.से./2016/कार्मिक-2/1013—राष्ट्रपति, श्रीमती प्रिंसी रानी, भा.पु.से. (टीआर : 2005) को प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 19.05.2016 (अपराह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में कमाण्डेन्ट (एसपी स्तर) पद पर वेतनमान-3 रु. 15,600—39,100/—, ग्रेड पे-रु. 7,600/— में चार साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
कार्यालय : महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 29 मार्च 2016

सं. प्रशासन-1/1366-II/2015-16/411—महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल ने सहर्ष

1. श्रीमती जया चक्रवर्ती
2. श्री मिलन कुमार मंडल
3. श्री राजेंद्र प्रसाद

को दिनांक 01.04.2016 (पूर्वाह्न) के प्रभाव या उनके कार्यग्रहण करने के दिन से, जो भी बाद में हो, से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/— तथा ग्रेड वेतन रु. 5,400/— में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतम प्रकार्यात्मक ग्रेड में पदोन्नीत किया है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

[प्राधिकारी : महालेखाकार का आदेश, दिनांक 22.03.2016]

मुकुट मुखर्जी
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 31 मई 2016

सं. प्रशासन-1/1038-XXVIII/2016-17/68—महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल ने सहर्ष श्री प्रभात कुमार रॉय, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 01.06.2016 (पूर्वाह्न) के प्रभाव या उनके कार्यग्रहण करने के दिन से, जो भी बाद में हो, से वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/— तथा ग्रेड वेतन रु. 5,400/— में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नीत किया है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

[प्राधिकारी : महालेखाकार का आदेश, दिनांक 30.05.2016]

मुकुट मुखर्जी
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 30 जून 2016

सं. 5/1/2016-सी.पी.आई.—मई, 2016 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 4 अंक बढ़कर 275 (दो सौ पचहत्तर) अंकों के स्तर पर रहा।

श्याम सिंह नेगी
उप महा निदेशक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 24 जून 2016

सं. 4452/SP/ए-32013/एसएसओ/डीपीसी/2016/19बी—राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर, निम्नलिखित सर्वे अधिकारी को पदोन्नति पर नियमित आधार पर वरिष्ठ सर्वे अधिकारी के पद पर ग्रेड पे 6,600/— सहित पे बैंड-3 के वेतनमान (रु. 15,600—39,100/—) में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि
श्री प्रतीक रॉय चौधुरी	01.04.2016 (पूर्वाह्न)

टी. आर. दास
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक, भाभूस

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मुम्बई-400026, दिनांक 01 जून 2016

सं. ए-32014/02/2015-स्थापना-I—विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों पर महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, श्री सुमय मुखर्जी, शाखा प्रबंधक, फिल्म प्रभाग, वितरण शाखा कार्यालय, कोलकाता को पदोन्नति के आधार पर, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर रु. 9,300—34,800/— का पीबी-2 में ग्रेड पे रु. 4,800/— के वेतनमान में उसी कार्यालय में दिनांक 01 जनवरी, 2016 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किरते हैं।

अशोक ए. शिंदे
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. ए-32014/01/2016-स्थापना-I—विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों पर महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, श्री पी. इलप्पन, संपादक, फिल्म प्रभाग, मुम्बई को पदोन्नति के आधार पर, मुख्य संपादक, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर रु. 9,300—34,800/— का पीबी-2 में ग्रेड पे रु. 4,800/— के वेतनमान में फिल्म प्रभाग के नई दिल्ली कार्यालय में दिनांक 10 मई, 2016 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

अशोक ए. शिंदे
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

कोलकाता-91, दिनांक 14 जून 2016

सं. जी-318/ए(एचक्यू)2012/एडीए—सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) के पद पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला में पीबी-2 में रु. 9,300—34,800/- सह ग्रेड पे रु. 4,600/- के वेतनमान में नियमित आधार पर सहर्ष प्रोन्नत किया जाता है जोकि अगले आदेश के जारी न होने तक प्रभावी रहेगा। प्रत्येक का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :—

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	तैनाती का स्थान	प्रोन्नति की तिथि
1.	श्रीमती चन्द्रा गणपति	राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प.क्षे, मुम्बई	18.03.2016 (अपराहन)
2.	श्रीमती मीता भट्टाचार्या	राष्ट्रीय परीक्षण शाला, पू.क्षे, कोलकाता	10.06.2016 (पूर्वाहन)

शंकर बसु
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक, रा.प.शा., कोलकाता

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 27 मई 2016

सं. ए-19024/2/2015-प्रशा.1—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री शिवराज कुमार, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कानपुर, दिनांक 30.04.2016 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

एल. अनंत
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 16 जून 2016

सं. पीबी/7(5)/2015-भर्ती-IV/एसओ(डी)/ईटीजी/6826—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों ग्रेड 'सी' पे बैंड पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में 01 जुलाई, 2015 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री हरिओम शर्मा
2.	श्री अमरेश कुमार झा
3.	श्री युवराज तुकाराम कुंभार
4.	श्री शुक्ला राकेश रामकैलाश
5.	श्री सतीश कुमार भारती
6.	श्री वेणुगोपाल कन्नेगंति
7.	श्री अभिलाष द्विवेदी
8.	श्री चंगरमकण्डत् नारायणन सुनील
9.	श्री शिव प्रताप सिंह सोमवंशी
10.	श्री साहिरआलमखान मोहम्मद
11.	श्री शिवकुमार एस
12.	श्री नितिन कुमार शर्मा
13.	श्री एस पन्नीर सलवम

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
14.	श्री रवि कुमार प्रजापति
15.	श्री सुर्ती विवेक जयंतीलाल
16.	श्री बृजलेश कुमार नागर
17.	श्रीमती दिव्यलक्ष्मी सायनी
18.	श्री शरद कुमार वर्मा
19.	श्री पुरुषोत्तम तुकाराम घारे
20.	श्री शुद्धीधन शामराव श्री गेडाम
21.	श्री शशि कान्त तिवारी
22.	श्री बसंत प्रसाद साव
23.	श्री संजीव सिंह

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीबी/7(5)/2015-भर्ती-IV/एसओ(डी)/ईटीजी/6827—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'सी' पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाये गये तिथि के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
1.	श्री असीम कुमार दास	01.07.2015
2.	श्री सृजन कुमार	01.07.2015
3.	श्री कांतीलाल देविदास भोसले	01.07.2015
4.	श्री राजेश कुमार जायसवाल	01.07.2015
5.	श्री भोलानाथ सिंह	01.07.2015
6.	श्रीमती अदिती अरुण दलवी	01.07.2015
7.	श्री संजय सिंह	01.07.2015
8.	श्री सोमानंद साहु	01.07.2015
9.	श्री श्रुतर्शी बेनर्जी	01.07.2015
10.	श्री रोमेश चन्द्र	01.07.2015
11.	श्री साजिद अहमद	01.07.2015
12.	श्री शुभ्रजीत तिवारी	01.07.2015
13.	श्री आदित्य नन्दन सविता	01.07.2015
14.	श्री वैभव वसंत तेलवणे	01.07.2015
15.	श्रीमती सुरभि चंद्रा	01.07.2015
16.	श्री अजय कुमार	01.07.2015
17.	श्री खुंट चेतनकुमार शामजीभाई	01.07.2015

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
18.	श्री रवितेजा चिलुकुरि	01.07.2015
19.	श्री शिवा कुंचारपु	01.07.2015
20.	श्री महसीन जाफर	01.07.2015
21.	कुमारी साहू पूजा	01.07.2015
22.	श्री प्रशान्त कुमार	01.07.2015
23.	कुमारी प्रियांका वधावन	01.07.2015
24.	श्री उदय गिरि प्रताप सिंह सचान	01.07.2015
25.	श्री ब्रजेश कुमार झा	01.07.2015
26.	श्री सौरभ गुप्ता	01.07.2015
27.	श्री रोहित शर्मा	01.07.2015
28.	श्री एकांश मिश्रा	01.07.2015
29.	श्री राजेश बाबू	01.07.2015
30.	श्री पटेल गौरव महेन्द्र	01.07.2015
31.	श्री बुद्धदेब कांरार	01.07.2015
32.	श्री सिनलकर नितीन मारुती	01.07.2015
33.	श्री अरविन्द कुमार महटेले	01.07.2015
34.	श्री अभिषेक शर्मा	01.07.2015
35.	श्री संदेश अवधानी के	01.07.2015
36.	कुमारी भोईर श्रद्धा अनंत	01.07.2015
37.	श्रीमती अर्पणा सुषांत पाटील	01.07.2015
38.	श्रीमती शोभा सिंगारवेलन	01.07.2015
39.	श्री अनिल रविंद्र खोत	01.07.2015
40.	श्री तुम्मलपल्लि रघु नाथ	01.07.2015
41.	श्री नरसिम्हा नाथ वीटुरी	01.07.2015
42.	कुमार मौशूमी दत्ता चौधूरी	01.07.2015
43.	श्री कृणाल अनंतकुमार मिस्त्री	01.07.2015
44.	श्री नागराजू बाला वेंकट सुब्रमन्यम	01.07.2015
45.	श्री निरंजन रतिलाल पटेल	01.07.2015
46.	श्री रौशन अभिषेक	01.07.2015
47.	श्री प्रवीण दूबे	01.07.2015
48.	श्री निशीथ घोष	01.07.2015
49.	श्री बालू नारायण शिंदे	01.07.2015
50.	श्री राजवर्धन नंदराम अंबाडे	01.07.2015
51.	श्री सरोज कुमार	20.07.2015
52.	श्रीमती दीक्षा पंत	01.07.2015
53.	श्री सितांगशु चटर्जी	01.07.2015

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
54.	श्री अरुण कुमार हुदईत	01.07.2015
55.	श्री हरि कृष्ण सादनाल	01.07.2015
56.	श्री पुनीत तिवारी	01.07.2015
57.	श्री ऋषल शाह	01.07.2015
58.	श्री अनिल सदानंद नायक	01.07.2015
59.	श्रीमती वन्दना चतुर्वेदी मिश्रा	01.07.2015
60.	श्री तुषार शर्मा	01.07.2015
61.	श्री रूपेन्द्र सिंह	01.07.2015
62.	डॉ पद्माकर देवराव उघडे	01.07.2015
63.	डॉ (श्रीमती) शौलजा संजय मडके	05.08.2015
64.	श्री कुर्वा जगन्नाथ	01.07.2015
65.	डॉ विशाल उत्तमराव पाटील	04.07.2015
66.	श्री आशुतोष आनंद	01.07.2015
67.	श्री रासबिहारि रुद्र	01.07.2015
68.	श्री अश्वनि कुमार शर्मा	01.07.2015
69.	श्री तन्डलम स्वामिनाथन निखिलेथ अय्यर	01.07.2015
70.	श्री बरिबदला रवि	01.07.2015
71.	कुमारी शेफाली बाजपेयी	01.07.2015
72.	श्री अभिजीत शालिग्राम शिन्ने	01.07.2015
73.	श्री धनशेकर पुन्नीयमूर्ती	01.07.2015
74.	श्री बलवंत धनीराम ठाकुर	01.07.2015
75.	श्रीमती शीतल क्षितीज राऊत	01.07.2015
76.	श्री सचिन सुधाकर पाठक	01.07.2015
77.	श्री अमिया रॉय	01.07.2015
78.	श्री अमित कौशल	01.07.2015
79.	श्री रवीन्द्रन के	01.07.2015
80.	श्री रिनसन आनटणि थेक्केथला मेन्युअल	01.07.2015
81.	श्री अभिजित साहा	01.07.2015
82.	कुमारी बबिता सिंह	01.07.2015
83.	श्री सुरज कल्याणराव मुकडे	01.07.2015
84.	श्री अंजन रेड्डी कसिरेड्डी	01.07.2015
85.	श्री रेहान रजा	01.07.2015
86.	श्री गणेश वैथिलिंगम्	01.07.2015
87.	श्री मोहम्मद टीपू सुल्तान	01.07.2015
88.	डॉ मनोजकुमार केदारनाथ कोटेकर	01.07.2015
89.	श्री सुब्बैयन आसारी सतीशकुमार	01.07.2015

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
90.	श्री प्रवीण विजयकुमार	01.07.2015
91.	श्री सुमित कुमार नायक	01.07.2015
92.	डॉ उदयगिरि कासीम वल्ली	01.07.2015
93.	श्री जितु पय्यदक्कन गोविंदन	01.07.2015
94.	श्री क्षितिज वशिष्ठ	01.07.2015
95.	श्री नितीन रमेश काकडे	01.07.2015
96.	श्री राहुल कुमार चौधरी	01.07.2015
97.	कुमारी ऊषा यादव	01.07.2015
98.	श्रीमती लाबनी दास	01.07.2015
99.	श्री दाशरदि दिव्वेला	01.07.2015
100.	श्री गौरव खण्डेलवाल	01.07.2015
101.	श्री अश्विन सत्यकुमार प्रभु	01.07.2015
102.	श्री अनमोल सिंह	01.07.2015
103.	श्रीमती अनिन्दिता सरकार	01.07.2015
104.	श्री दीपेन्द्र सिंह	01.07.2015
105.	श्री विजय कुमार वी	01.07.2015
106.	श्री तनुमोय मुखर्जी	01.07.2015
107.	श्री अभिषेक मिश्र	01.07.2015
108.	श्रीमती बेल्ला ऐलिझाबत जॉनसन	01.07.2015
109.	श्री सजिन प्रसाद एस	01.07.2015
110.	श्रीमती सुप्रिता प्रविण प्रभू	01.07.2015
111.	श्री आशुतोष गुप्ता	01.07.2015
112.	श्रीमती श्रीजा राज मेनोन्	01.07.2015
113.	श्री अभीक दास	01.07.2015
114.	श्री तुषार कान्ति पाल	01.07.2015
115.	श्री जसप्रीत सिंह	01.07.2015
116.	श्री अनिल शर्मा	01.07.2015
117.	श्री भूषण गुप्ता	01.07.2015
118.	श्री केशव कुमार झा	01.07.2015
119.	श्री गौरव सावला	01.07.2015
120.	कुमारी अमृता धारा	01.07.2015
121.	श्री नबीउल्लाह खान	01.07.2015
122.	श्री मनोज कुमार मित्तल	01.07.2015
123.	श्री सतीश कुमार एस	01.07.2015
124.	श्री गंगिदि किरण कुमार रद्दी	01.07.2015

सं. पीबी/7(4)/2016-भर्ती-IV/एसओ(ई)/ईटीजी/6828—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों/इंजीनियरों पे बैंड रु. 15,600—39,100/— + ग्रेड पे रु. 6,600/— को वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड 'ई' के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/— + ग्रेड पे रु. 7,600/— के वेतनमान में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाये गये तिथि के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
1.	श्री सुब्बारायल के	01.07.2015
2.	श्री गितेन्द्र सिंह	01.07.2015
3.	श्री अभिषेक कुमार	01.07.2015
4.	श्री प्रशाल महादेव खोत	01.07.2015
5.	श्री निशान्त चौधरी	01.07.2015
6.	श्रीमती श्रेया घटक सरकार	01.07.2015
7.	श्रीमती गोयल अनिता एच	01.07.2015
8.	श्री कृष्ण कुमार सिंह	01.07.2015
9.	श्री गोपाल कृष्ण दास	01.07.2015
10.	श्रीमती क्षमा कुंडु	01.07.2015
11.	डॉ अजीष कुमार के एस	01.07.2015
12.	श्रीमती प्रीता जयप्रकाश	01.07.2015
13.	श्री जी राजशेखर	01.07.2015
14.	श्री अभिषेक बाजपेयी	01.07.2015
15.	श्री ललित डागरे	01.07.2015
16.	श्रीमती नेहा सिंह	01.07.2015
17.	श्री अरविन्द तंप्पि	01.07.2015
18.	श्री अतुल कुमार सिंह	01.07.2015
19.	श्री स्वागतो चक्रवर्ती	01.07.2015
20.	श्री हरिमोहन ईश्वर अय्यर	01.07.2015
21.	श्री महेश कुमार सुब्रमण्यन	01.07.2015
22.	श्री नगा राम	01.07.2015
23.	श्री रामटेके अरविंद चुडामन	01.07.2015
24.	डॉ जयकुमार ओ डी	01.07.2015
25.	डॉ दास सौमित्र	01.07.2015
26.	डॉ फडनिस प्रसाद पद्माकर	01.07.2015
27.	श्री संदिप भौमिक	01.07.2015
28.	श्री अनिल बोडा	01.07.2015
29.	श्री सौरभ कुमार सिंह	01.07.2015
30.	श्रीमती इंदिरा सुगुणन नायर	01.07.2015
31.	श्री मुनेन्द्र सिंह	01.07.2015
32.	श्री योगेश र सगने	01.07.2015
33.	श्री साई किरण काजा	01.07.2015

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
34.	श्री सुनिल भालके	01.07.2015
35.	श्री शिव राज सारण	01.07.2015
36.	श्री शिशिर कुमार सिंह	01.07.2015
37.	श्री अभिषेक जाजू	01.07.2015
38.	श्री शास्त्रकार रमेश शंकर	01.07.2015
39.	श्री अनुराग साहनी	01.07.2015
40.	श्री कोल्ला हरि प्रसाद	01.07.2015
41.	श्रीमती कृष्ण शेखावत	01.07.2015
42.	श्री राजीव कुमार वर्मा	01.07.2015
43.	श्री गौरव बलूनी	01.07.2015
44.	श्री सिद्धार्थ शंकर पाणि	01.07.2015
45.	श्री सुकांता मैति	01.07.2015
46.	श्री जय प्रकाश	01.07.2015
47.	श्री रोहन अनील फाटक	01.07.2015
48.	श्री पल्लपोतु राम मोहन रावु	06.07.2015
49.	श्री संजय कुमार पाठक	01.07.2015
50.	श्रीमती पौलमी चक्रवर्ती श्रीवास्तव	01.07.2015
51.	श्रीमती ज्योति त्रिपाठी	01.07.2015
52.	श्रीमती मीनू प्राशर	01.07.2015
53.	डॉ पूर्णानंद नंदी	01.07.2015
54.	श्रीमती लता सेबास्टियन	01.07.2015
55.	श्री पी सुन्दर राजन	01.07.2015
56.	श्री अमोल मधुकर शिंदे	01.07.2015
57.	डॉ राजेश कुमार	01.07.2015
58.	श्री दीपक कुमार	01.07.2015
59.	श्री सब्यसाची पाल	01.07.2015
60.	श्री सब्यसाची राउत	01.07.2015
61.	श्री दिबेन्दु बन्दोपाध्याय	01.07.2015
62.	श्रीमती षेरि रोसिलि	01.07.2015
63.	डॉ जोस वेदियान्कल मॅथ्यु	01.07.2015
64.	श्री सुदिन शर्मा	01.07.2015
65.	श्री संदिप बालासाहेब भालेराव	01.07.2015
66.	श्री आर्या दास	01.07.2015
67.	श्री शन्मुगा सुदंरम ए टी	01.07.2015
68.	श्री षैजु रामचन्द्रन	01.07.2015
69.	श्री रामदुराय एम वी	01.07.2015

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
70.	डॉ आर सन्य नारायनन	01.07.2015
71.	श्री सुनिल एम वी	01.07.2015
72.	श्री जॉनसन सी जी	11.07.2015
73.	श्रीमती एन प्रभादेवी	01.07.2015
74.	श्री संजय कुमार छाबड़ा	01.07.2015
75.	श्री निरूपमा तिवरी	01.07.2015
76.	श्री सन्दीप कुमार अगरवाला	01.07.2015
77.	श्री पियूष कांति मंडल	01.07.2015
78.	श्री शिव प्रसाद साहु	01.07.2015
79.	डॉ (श्रीमती) अलका गुप्ता	17.07.2015
80.	डॉ (श्रीमती) जमुना ह कुरकुंदी	01.07.2015
81.	डॉ करनकाले राजु गोकुल	01.07.2015
82.	डॉ उदय भुजबल ठाकरे	01.07.2015
83.	डॉ (श्रीमती) राजी तेजस नायडू	01.07.2015
84.	श्री अंचल सोहाने	01.07.2015
85.	श्री मधुकर अण्णा आचरेकर	01.07.2015
86.	श्रीमती अमृता दास	01.07.2015
87.	श्रीमती सरोज बिश्नोई	01.07.2015
88.	श्री मनीष पाण्डेय	01.07.2015
89.	श्री भानु प्रकाश सन्दका	01.07.2015
90.	श्रीमती येर्रोजू सुनीता	01.07.2015
91.	श्री शिव प्रसाद बेहेरा	01.07.2015
92.	डॉ सोमसुन्दर मुखोपाध्याय	01.07.2015
93.	श्री राजशे कुमार	01.07.2015
94.	श्री सुभाष महादेव पवार	01.07.2015
95.	श्री देवव्रत चट्टाराज	01.07.2015
96.	श्री प्रभात रंजन	01.07.2015
97.	श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा	01.07.2015
98.	श्री के पदमनाबन	01.07.2015
99.	श्री एल कसीमीर सगायाराज	01.07.2015
100.	श्री हरीश आर	06.07.2015
101.	श्री विवेकचन्द्र गुरुप्रसाद मिश्रा	01.07.2015
102.	श्री विनय जैन	01.07.2015
103.	श्री दत्तप्रसाद रावजी प्रभू	01.07.2015
104.	श्री जगन्नाथ पांडुरंग नार्वेकर	01.07.2015
105.	श्री अमित कुमार मिश्रा	01.07.2015

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
106.	श्री महेश भगवानदास बजाज	01.07.2015
107.	श्री बबलु मोहन लिंगडे	01.07.2015
108.	श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	01.07.2015
109.	श्री पूर्णेंद्र कुमार वर्मा	01.07.2015
110.	श्री कुमारसामी जे	01.07.2015
111.	श्री सुशांत कुमार रॉय	04.07.2015
112.	श्री रौदास सिंह	01.07.2015
113.	श्री कल्लेलि औसेप पोल	01.07.2015
114.	श्री स्वागत राजपूत	01.07.2015
115.	श्री तेजस्वि पूर्लुप्पाडि	01.07.2015
116.	श्री विजय मोतीराम बोदलकर	01.07.2015
117.	श्री शिषि अरविंद नाडकर्णी	01.07.2015
118.	श्री अर्पूव गुलेरिया	01.07.2015
119.	श्री विनय करणम	01.07.2015
120.	श्री इन्द्रजीत सिंह	01.07.2015
121.	श्री अनंत रामचंद्र मठकर	01.07.2015
122.	श्रीमती मोहिनी गुलेरिया	01.07.2015
123.	श्री अमित कुमार	01.07.2015
124.	श्री विक्रम शुक्ला	01.07.2015
125.	श्री अग्रवाल मयंक	01.07.2015
126.	श्री तनय मजुमदार	01.07.2015
127.	श्री गंगाधर नागनाथ कल्याण	01.07.2015
128.	श्रीमती थन्मणी श्रीधर	20.07.2015
129.	श्रीमती रेखा अनिलकुमार	01.07.2015
130.	श्री हरिमोहनन पिल्लई चिट्टिलंवीडू मुरलीधरन	01.07.2015
131.	श्रीमती दीपा अनिलकुमार	01.07.2015
132.	श्रीमती शोभा श्याम घोडके	01.07.2015
133.	श्री देवेंद्र भा कुलकर्णी	01.07.2015
134.	श्री लोकपति मिश्र	01.07.2015
135.	श्री श्रीकांत बत्तुल	01.07.2015
136.	श्रीमती नीलिमा खरे	01.07.2015
137.	श्रीमती रश्मि बैद	01.07.2015
138.	श्रीमती रेखा प्रद्युम्न उपाध्ये	01.07.2015
139.	डॉ सुगम कुमार	01.07.2015
140.	श्री वृन्दावन मोडक	01.07.2015
141.	डॉ महेश सुंदरराजन	01.07.2015

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
142.	श्री हरिकुमार वि	01.07.2015
143.	कुमारी बिष्णुप्रिया नायक	01.07.2015
144.	श्री अबडिपूडि साई वेंकट रमण	01.07.2015
145.	श्री कौशिक दत्ता	01.07.2015
146.	श्री सुनील कुमार साहू	01.07.2015
147.	श्री प्रताप रैड्डी कासीना	01.07.2015
148.	श्री रजु के	01.07.2015
149.	डॉ (श्रीमती) रनिता बासु	01.07.2015
150.	डॉ निरंजन सुर्यकांत रामगीर	01.07.2015
151.	श्री तुषार विश्वनाथ सपकाल	01.07.2015
152.	श्री रघुनाथ व्ही	01.07.2015
153.	श्री पंडीत दत्तात्रय चव्हाण	01.07.2015
154.	श्री अरविन्द कुमार	01.07.2015
155.	श्री घनश्याम	01.07.2015
156.	श्री कपिल चतुर्वेदी	01.07.2015
157.	श्री यादव मल्लु भिमा	01.07.2015
158.	श्री आसिफ जकेरिया पटेल	01.07.2015
159.	श्री विजयकुमार गजानन गायकवाड	01.07.2015
160.	श्रीमती सौदामिनी एन	01.07.2015
161.	श्री बिजु थोमस	01.07.2015

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(4)/2016-भर्ती-IV/(एसओ/डी)/ईटीजी/6829—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री देवेन्द्र कुमार गुलाटी, स्टेशन अधिकारी/ 'सी' पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- को स्टेशन अधिकारी/ 'डी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 01 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(4)/2016-भर्ती-IV/(एसओ/ई)/ईटीजी/6830—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री राजेन्द्रकुमार शिवनारायण अग्रहरी, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ 'बी' पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- को उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ 'सी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 01 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(4)/2016-भर्ती-IV/(एसओ/ई)/ईटीजी/6831—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री रवीन्द्र कुमार साहू, तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'डी' पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'ई' के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 01 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 21 जून 2016

सं. पीडी/9(1)/2015-भर्ती-IV/7080—राष्ट्रपति, डॉ गायत्री मोहंतो को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/— + 6,600/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में 17 मई 2016 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय)

मुम्बई-400094, दिनांक 14 जून 2016

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2467)/2016-भर्ती/466—राष्ट्रपति, श्रीमती एस. कोमलवल्ली, सहायक कार्मिक अधिकारी, (पीबी-3 रु. 15,600—39,100/— एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/—) को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई में प्रशासन अधिकारी-III के पद पर पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/— एवं ग्रेड वेतन 6,600/— में दिनांक 08.06.2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जयश्री एस.
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 17 मई 2016

सं. भापाबो/भर्ती/1(35)/2016/2412—मुख्य कार्यकारी भारी पानी बोर्ड, श्रीमती निर्मला रविकांत निकाले, निजी सचिव (गैर अनुसचिवीय) (वेतन बैंड-2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड वेतन रु. 4,600/—), भारी पानी बोर्ड, मुम्बई को (वेतन बैंड-2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/—) में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में भारी पानी बोर्ड, मुम्बई में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

नागर विमानन मंत्रालय
(महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मई 2016

सं. ए-19011/15/2012-स्थापना-II/III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री गोपाल सिंह, उपनिदेशक (प्रशासन), नागर विमानन महानिदेशालय 31 मई, 2016 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पवन मालवीय
उपनिदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 जुलाई 2016

सं. आर.ओ.सी दिल्ली/मार्च/2016/560(5) पब्लि. एफटीई/6297—कम्पनी अधिनियम की धारा, 1956 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
1.	U72200HR2011PTC043896	3 आईलॉजिक-डिज़ाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	U72200DL2005PTC139177	आ आर आर इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
3.	U45200DL2009PTC192969	आ. आर. इंफ्राच प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
4.	U52590DL2012PTC233436	आ-1 टेलेशोपिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	U63000DL2014PTC263648	आदि जरनीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	U65929DL2007PTC157278	ऑचर पोर्टफोलियो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	U15421DL2011PTC216438	एक्सेंट शुगर प्राईवेट लिमिटेड
8.	U15549DL2009PTC187422	एकोरबेव (पंजाब) प्राईवेट लिमिटेड
9.	U80900DL2010PTC211118	एसीजी एजुकेशन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	U60200DL2014PTC263917	एसीएम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	U70100DL2011PTC215190	अदि होम्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	U63013DL2013PTC250466	ऐरोस्की एविएशन प्राईवेट लिमिटेड
13.	U72200DL2000PTC108129	एजीलिटी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	U18101DL2008PTC185037	एजीएस टेक्स फौब प्राईवेट लिमिटेड
15.	U51909DL2011PTC218624	ऐचके इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	U40101DL2011PTC216250	एयरवॉइस स्पेस एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
17.	U27106DL2004PLC130753	ऐश्वर्या मेटललॉयस लिमिटेड
18.	U70102DL2013PTC260567	एक प्रोपमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
19.	U74899DL1985PTC021767	अकार कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
20.	U74140DL2003PTC119616	एकेएम एंड पार्टनर्स मीडिया कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	U93000DL2010PTC206977	अक्षय अनन्त ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड
22.	U93000DL2010PTC205422	एकेएसके मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	U74140DL2013PTC256374	अली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	U74140DL2013PTC253965	अल्फा2ओमेगा कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	U85100DL2007PTC161937	अमा हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
26.	U51310HR2013PTC051340	अमरह इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
27.	U63040HR2013PTC050913	अम्बालिका ट्रेवल सलूशन प्राईवेट लिमिटेड
28.	U70200DL2012PTC233874	एएमजी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	U28129DL1981PTC011575	अमित सील एंड कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	U74140DL2004PTC124097	अनन्या वेब टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
31.	U15132DL2005PTC142164	ऐनजी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	U18101DL1997PTC090390	अंजलि डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	U52322DL1999PTC100133	अंशिता फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	U55101DL2009PTC189913	अन्वी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	U72200HR2011PTC043177	अप्लाने सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
36.	U36103DL2009PTC193325	अपरेल्ला डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
37.	U72200DL1996PTC076770	आरती सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
38.	U80904DL2011PTC213081	एस बेसिक एजुकेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
39.	U45202DL2001PTC113458	आशुतोष प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
40.	U80900HR2010PTC041639	एस्पायर फिंडेकशन प्राईवेट लिमिटेड
41.	U74999DL2012PTC234962	ऐटी सिक्वोरिटी प्राईवेट लिमिटेड
42.	U72200DL2004PTC126888	ऐटीएचडीएल डिज़ाइन ऑटोमेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
43.	U40106DL2014PTC274326	अत्सिन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
44.	U74140DL2007PTC171438	औडेसीएस ब्राइट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	U72900DL2015PTC286352	ऑटोसिटी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
46.	U74140DL2013PTC257180	औटहेमि सलूशन प्राईवेट लिमिटेड
47.	U70101DL2011PTC212552	अव प्रोपबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
48.	U72200DL2006PTC156877	अवीवा सॉफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
49.	U51909DL2006PTC149547	एज्टेक एंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
50.	U45204DL2009PTC191159	बी बी मिनी एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	U45200DL2006PTC156493	बी एम पि एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
52.	U74120HR2008PTC038625	बी. टी. एस. एडुटेक प्राईवेट लिमिटेड
53.	U73100DL2011PTC215567	बी3 रिसर्च इंटेलिजेंस प्राईवेट लिमिटेड
54.	U72300DL2014PTC269066	बैक पैक लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	U40106DL2013GOI247564	बैरा सिओल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड
56.	U51101DL2007PTC157336	बैरंको ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	U74899DL1985PTC022112	बालाजी सिस्टम्स एंड डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
58.	U70109DL2006PTC154359	बापा प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
59.	U18101DL2003PTC119830	बेसिक फ़ैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	U74899DL1985PLC019895	भगवत टी प्लांटेशन लिमिटेड
61.	U15134DL2005PTC140857	भाग्यलक्ष्मी फ्रूट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	U74120DL2008PTC176719	भोले शंकर प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	U74999DL2011PTC227752	बिजग्रो नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
64.	U74140DL2014PTC269242	ब्लू सर्किल इंफोटक प्राईवेट लिमिटेड
65.	U72901DL2006PTC148951	ब्लूएचिप इंफोसोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	U74999DL1999PTC102517	बोमिन सोलर रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
67.	U45400DL2013PTC261552	ब्रिकलेन बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
68.	U74140DL2011PTC213453	बिल्डकॉर्प प्राईवेट लिमिटेड
69.	U51909DL1996PTC079762	बुक्सानी एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
70.	U74899DL1999PTC099671	कनरों कंक्रीट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
71.	U85100DL2014OPC270013	केंटन फार्मा ओपीसी प्राईवेट लिमिटेड
72.	U74210DL1997PTC091267	करियर कैटेलिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
73.	U00000DL1988PTC031258	चड्ढा प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
74.	U52100DL2013PTC259359	चंदगी राम नवल किशोर प्राईवेट लिमिटेड
75.	U74899DL1987PTC021843	चन्द्रिका प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
76.	U36103DL2009PLC190632	चेवरे फार्मसिस लिमिटेड
77.	U74140DL2011PTC218663	चिक मॉडल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
78.	U72300HR2010PTC041106	कोडजेन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
79.	U31401HR2013PTC050388	कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
80.	U74899DL1992PLC047711	कॉन्टिनेंटल एक्सिम लिमिटेड
81.	U15132DL2011PTC214755	कोरीएनडर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	U72200DL2007PTC161392	कार्नररेवरी कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
83.	U36102DL2005PTC139586	सीपी आयरन फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड
84.	U80302DL2008PTC178873	क्रेडेंस सेंटर ऑफ लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड
85.	U52100DL2007PTC166597	क्रिमसन कमर्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
86.	U34101DL1999PTC101756	क्रिस क्रॉस टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	U74899DL1981PTC011663	डी स रिलायंस बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	U74900DL2010PTC208552	दामिनी फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	U52390DL2012PTC243126	डंके ऑनलाइन ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	U33110HR2010PTC041423	दवर लाइफ साइंसेज प्राईवेट लिमिटेड
91.	U72200DL2005PTC137933	डाईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
92.	U74900DL2011PTC225647	दी-स्पेसिफिक सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	U45200HR2013PTC049413	दीवान इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
94.	U74899DL2006PTC144425	धमीजा बिल्ड वेल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
95.	U72200DL2005PTC135980	डायमंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	U74900DL2015PTC286171	डिप्पक इन्नोवशंस प्राईवेट लिमिटेड
97.	U74900DL2009PTC196667	डीजीटूज मल्टीमीडिया स्टूडियोज प्राईवेट लिमिटेड
98.	U64200DL2008PTC177967	डाइवर्स टेलीकॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
99.	U70109HR2013PTC050093	डिवाइन डाइमेंशन्स रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	U45200DL2006PTC154437	डीएनबी प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
101.	U63040DL2015PTC276487	डोमाकुमा हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
102.	U24296DL2012PTC243959	ड्रेमूर फर्टिलिजेर्स ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
103.	U72200DL2005PTC132716	डीवीएस आईटी सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	U51311DL2002PTC116269	ईस्टर्न बेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	U74140DL2010PTC202979	इकोशक्ति एनर्जी सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	U63000DL2011PTC222938	एलीफैंट गॉड हॉलीडेज प्राईवेट लिमिटेड
107.	U51505DL2003PTC118987	एलोकवेंट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
108.	U22219DL2010PTC203256	एल्यिस प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
109.	U74920DL2010PTC199921	इएलआर सिक्वोरिटी प्राईवेट लिमिटेड
110.	U93000DL2011PTC226579	एमिको सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
111.	U34102DL2013PTC250447	इनको ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
112.	U24232DL2009FTC187488	इंडोजेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
113.	U74900DL2011PTC223284	एनपीटेक सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
114.	U74900DL2010PTC211489	युरोपा बिज़नेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
115.	U92413DL2014PTC271158	आई स्पोर्ट्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
116.	U74899DL1977PTC008666	फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
117.	U60231DL1999PTC102184	फ़ास्ट ट्रैक ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
118.	U51109DL2008PTC172211	एफसीपीएल बाइ बिज सेल बिज प्राइवेट लिमिटेड
119.	U52100DL2015PTC276827	फेटलॉक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
120.	U80302DL2011PTC213183	फार्च्यून एजुकेशन सर्विसेज & ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
121.	U92190DL2007PTC171865	फ्यूज़न साउंड स्केप प्राइवेट लिमिटेड
122.	U72300DL2008PTC178087	जी.के.जी. सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
123.	U80302HR2008PTC038624	जी.एम.एस एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड
124.	U74140DL2015PTC276090	गगनंत ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
125.	U45200DL2008PTC178761	गैलेक्सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
126.	U74140DL2014PTC264961	गैलेंट इ-एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड
127.	U51433DL1997PTC089379	गेलॉर्ड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
128.	U74999DL2014PTC269871	जीसीवी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
129.	U74899DL1995PLC073740	जी नी इम्पेक्स लिमिटेड
130.	U74140DL2009PTC191729	जीनेर्जी बिज़नेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
131.	U72300DL2009PTC189496	जेनकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
132.	U60200DL2010PTC200010	जीएफआई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
133.	U51909DL2009PTC190769	गिरिवर श्याम तरडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
134.	U74140DL2012PTC241311	ग्लोबल मॉगर्स प्राइवेट लिमिटेड
135.	U22130DL2012PTC246213	ग्लोबलऐज इंफोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड
136.	U72300DL2015PTC286315	गो ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
137.	U93000DL2013PTC250800	गोल्डन ग्राफिटी प्राइवेट लिमिटेड
138.	U85195DL1988PLC034085	गौरी डायग्नोस्टिक्स एंड कैंसर रिसर्च लिमिटेड
139.	U55101DL2013PTC253010	गोवर्धन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
140.	U70109DL2012PTC243792	गोविंदजी लैंडप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड
141.	U45400DL2011PTC213621	ग्रैंड पीक गारंटी कोजा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
142.	U36911DL2013PTC255982	ग्रीन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
143.	U70101HR2010PTC041006	ग्रीन प्लेनेट बिल्डकौन प्राइवेट लिमिटेड
144.	U72200DL2008PTC178348	जीआरएस टेक सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
145.	U45400DL2009PTC195156	जीएसएम बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
146.	U55204DL2005PTC143727	जीएसपी एक्वा बेले प्राइवेट लिमिटेड
147.	U45204DL2012PTC234080	गुडगाँव लाइफस्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
148.	U45400DL2012PTC237283	गुरुदेव इंफ्रस्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	U74994DL2011PTC220174	एच & वि क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	U51909DL2006PTC145359	एच एस सी इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
151.	U92100DL2011PTC223547	हैमर एंड टंग्स एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
152.	U74899DL1980PTC010522	अनु ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
153.	U74899DL1995PTC066451	हैप्पी लक वूलटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	U93000DL2013PTC260896	हरहिंद सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
155.	U15400DL2010PTC198031	हरी राम राम बाबू हलवाई प्राईवेट लिमिटेड
156.	U45400DL2013PTC255988	हारमनी इंफ्रा स्पेसेस प्राईवेट लिमिटेड
157.	U19100DL2013PTC255369	हैवनली फीट प्राईवेट लिमिटेड
158.	U74899DL1995PTC069400	हेमकुंड होटल्स & रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	U17120DL2010PTC200367	हिल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	U74300DL2004PTC125864	हिमालयन एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
161.	U25190DL2009PTC189749	एचएनएम टेक्नो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
162.	U45400HR2011FTC042137	होचतिफ कन्सेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
163.	U70101DL2007PTC157516	होम बर्ड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
164.	U74140DL2006PTC146981	एचआर एडवाइजरी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
165.	U74990DL2015OPC277595	एचआरजे ब्रोकिंग सर्विसेज ओपीसी प्राईवेट लिमिटेड
166.	U74900DL2009PTC195026	हंगामा फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	U74140DL2008PTC183958	आई.स. अडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	U74995DL2012PTC242180	आईएन एचआर स्ट्रैट प्राईवेट लिमिटेड
169.	U22120DL2011FTC223761	आईएचटी पब्लिशिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
170.	U51900DL2013PTC250618	इंडीज तरडलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	U74900DL2010PTC200022	इंडो ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	U01403DL1995PLC071548	इंडो ग्लोबल बायोटेक लिमिटेड
173.	U51103HR2007PTC037352	इंडस्टील प्लेट्स इंडिया डेल्ही प्राईवेट लिमिटेड
174.	U74900DL2013PTC253640	इनरलाइट प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	U32201DL2014PTC264580	इनोवेटिव इ सलूशन प्राईवेट लिमिटेड
176.	U33115DL2005PTC134423	इंटरनेशनल रेहाब प्राईवेट लिमिटेड
177.	U74140DL2008PTC172688	आईटी कनेट टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
178.	U15139DL2010PTC207498	जे डी फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	U74899DL2005PTC141715	जे एम जे डब्लू बटन्स प्राईवेट लिमिटेड
180.	U74120DL2009PTC196603	जे.जे फिल्म & मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
181.	U17291HR2007PTC037269	जतिन लूमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
182.	U74999DL2007PTC163045	जॉन मुर्रे कंसल्टिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
183.	U80900DL2010PTC211109	जेपिऐ एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
184.	U45400DL2008PTC181977	जेआरडी बिल्डएस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	U45400DL2008PTC182000	जेआरडी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
186.	U45201DL2008PTC182006	जेआरडी टेक्नोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
187.	U74140DL2008PTC174334	जस्टप्लैनएंडसिंपल कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
188.	U74899DL1995PTC068682	के एम गांधी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	U55209DL2013PTC257511	कमलककरी कैफे प्राईवेट लिमिटेड
190.	U45203DL2012PTC238086	कमटेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
191.	U36911DL2005PTC137012	कर्मा चमेलैओन ज्वेल्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	U51909DL2012PTC244167	कास इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
193.	U24233DL2010PTC206805	काश कें फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	U74900DL2013PTC248202	काया लाइफ स्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
195.	U70109DL2006PTC149845	ककब बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
196.	U51109DL2010PTC201466	केदारनाथ तरडेक्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	U74140DL2004PTC126758	किआ ओरा कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	U70109DL2013PTC251528	किजुना इंडो स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	U67120DL1999PTC101891	केपीएस टेक्स-नित प्राईवेट लिमिटेड
200.	U74140HR2011PTC052384	क्रेटोस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	U74120DL2009PTC196322	कृपा दृष्टि क्रिएशन्स एंड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
202.	U22122DL1997PTC089904	कुसुम पब्लिशिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
203.	U51909DL2010PTC203424	ल. प. ज. इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
204.	U51311DL2004PTC130054	लीला डिजाइन स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड
205.	U31500DL2010PTC202353	लेगेरो इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
206.	U51101DL2013PTC261232	लेनिसटरस सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	U80903DL2011PTC213194	लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
208.	U01134HR1997PTC033694	लीरा प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	U21092DL2009PTC192130	एलएनजी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
210.	U80900DL2010PTC211107	लॉजिकल एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
211.	U74140DL2009PTC196801	एलएसजे कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	U52100DL2015PTC281175	लुमक्स बिज़नेस प्राईवेट लिमिटेड
213.	U30008DL1999PTC099143	एम. सी. इलेक्ट्रॉनिक्स & कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	U93000DL2009PTC192782	एम.एम. सिक्थोरिटी एक्सहिबिशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
215.	U29292HR2011PTC043430	मशीनों टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
216.	U70200DL2010PTC201382	माधव बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
217.	U45201DL2006PTC147499	मैगपी प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	U24233DL2009PTC191720	महाबली हनुमान ऑटो & पेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	U17200DL2010PTC206802	महानिधि कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
220.	U72900DL2013PTC251713	मजाकर एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
221.	U45400DL2014PTC270994	मैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
222.	U36101DL2005PTC139350	मंजू फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड
223.	U80903DL2006PTC145150	मानविक इंस्टिट्यूट लिंक प्राईवेट लिमिटेड
224.	U51100DL2013PTC248121	मैप जेष्ठा ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
225.	U55101DL2009PTC193580	मरहबा हॉस्पिटैलिटी रिटेल प्राईवेट लिमिटेड
226.	U55101HR2011PTC043418	मैरीलैंड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
227.	U01403DL2011PTC217892	मास्क इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	U74999DL2012PTC246011	मास्टेक फाल्कन फॉक्सकेड INDIA प्राईवेट लिमिटेड
229.	U74140DL2014PTC273507	मवी बॉन कसेलिस प्राईवेट लिमिटेड
230.	U34300DL2010PTC208227	म्यू ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड
231.	U15312DL2003PTC122954	एमडीआर एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
232.	U72300DL2008PTC183719	मीलपंडित वेब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
233.	U24200HR2012PTC045349	मेडीजाइन फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड
234.	U25209DL2014PTC270327	मरक्सो पॉलीमर प्राईवेट लिमिटेड
235.	U72900DL2008PTC181140	एमजी वेबतेच प्राईवेट लिमिटेड
236.	U72900HR2012PTC046065	एमएचओ सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
237.	U51909DL2015PTC281159	मिंदन इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
238.	U74900DL2012PTC243037	मिश्रास फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
239.	U29253DL2012PTC245213	मिट्स चेन्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	U74999DL2014PTC264225	मून मेडीट्रेवल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
241.	U93000DL2009PTC186812	एमएसजेड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
242.	U80904DL2011PTC224641	मुद्रिका एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
243.	U45204DL2011PTC227627	मुकुंद कलोनियेर्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	U70101DL2005PTC142782	मायनाह डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
245.	U72900HR2012PTC047124	मयवा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
246.	U74899DL1989PTC037429	एनसी एग्रो एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	U72900HR2010PTC040472	ना कनेक्ट9 प्राईवेट लिमिटेड
248.	U45400DL2008PTC179071	नासा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
249.	U80302DL2011PTC213084	एनबी बेसिक एजुकेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
250.	U72300DL2010PTC205414	एनबीपिसी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
251.	U65992DL2012PTC235340	एनसीआर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
252.	U45200DL2011PTC223936	नेहा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
253.	U74900DL2013PTC249906	निओ सनसिटी प्राईवेट लिमिटेड
254.	U63040DL2014OPC272784	न्यू स्टार अलायन्स ओपिसी प्राईवेट लिमिटेड
255.	U74120DL2008PTC173360	नेक्सिकोन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
256.	U74140HR2012PTC047037	एन जीडी कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
257.	U72900DL2012PTC234718	एन जेन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
258.	U74900DL2012PTC232352	नीलाम्बर मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
259.	U24243HR1992PTC031644	निर्मल वेड केमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	U74140DL2011PTC217602	एनजेपि डिजिटल कनेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	U72200DL2010PTC205488	एनएन & केके सॉफ्ट ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
262.	U74899DL1994PTC057674	नोरिता मिनेचेम प्राईवेट लिमिटेड
263.	U51909HR2008PTC038366	एनआरआई मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
264.	U36996HR2011FTC043981	एनटीएच इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
265.	U63000DL2012PTC235491	एनयुसी ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	U45200DL1994PLC062559	ओमपैक ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
267.	U74999HR2011PTC044282	वन97 एंटरप्राइज मोबाइल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	U72300DL2007PTC158324	ओप्पोरचुनितिस अहेड.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
269.	U51909DL2009PTC193086	पैरहन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	U31900DL2011PTC213198	पल्लवी इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	U15400DL1993PLC053488	पैन-सुई फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	U55201DL2003PTC123575	पैराडॉक्स रेस्टोबार प्राईवेट लिमिटेड
273.	U63090DL2014PTC265726	परमानन्द हॉलीडेज प्राईवेट लिमिटेड
274.	U18109HR2009PTC039739	परनिका 1पपरेलस प्राईवेट लिमिटेड
275.	U63040DL2012PTC240522	पर्यटक मित्र टूरर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
276.	U32109DL2000PTC105562	पवित्र पावर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
277.	U74999DL2011PTC220341	पेगासस मरीन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
278.	U74140HR2013PTC048503	परसेप्ट फबपरो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	U45400DL2013PTC261083	परफेक्ट प्रॉपर्टी जोन प्राईवेट लिमिटेड
280.	U74900HR2009PTC039776	पेरा बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
281.	U70109DL2012PTC230835	पिताम्बरी कंस्टेक प्राईवेट लिमिटेड
282.	U51909DL2005PTC141913	पीएन पसंद इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	U80900DL2011PTC213190	पॉइंट एजुकेशन सर्विसेज & ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
284.	U31300DL2012PTC236436	पोलो केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
285.	U72300DL2014PTC270784	पावल लंच कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
286.	U80903HR2014PTC052715	प्रणव बिज़नेज सर्विसेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
287.	U93000HR2013PTC051151	प्रन्या स्ट्रक्चरल-इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
288.	U74140DL2014PTC265262	प्रेससे कैड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	U74899DL1986PTC024705	प्रिसिशन एनालिटिकल इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
290.	U74140HR2005PTC035960	प्रेरणा मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
291.	U65100DL2008PTC184145	प्रॉफिट अड्डा शेयर्स & स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
292.	U74899DL1982PTC013058	प्रोमिनेन्ट रोड करियर्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	U70101HR2012PTC047662	पिरामिड लैंड बेस प्राईवेट लिमिटेड
294.	U45201DL2004PTC129248	आर बी ग्रीन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
295.	U22212DL2014PTC268503	आर के जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
296.	U74899DL1993PTC054256	आर लाइन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	U63040DL2010PTC205051	रा इंडिया टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
298.	U31401DL2011PTC217865	रेसर डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड
299.	U70109DL2012PTC233241	राधा कन्हाई एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
300.	U74996DL2006PTC149203	रेडियंट फाइन आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	U85110DL2008PTC177004	रेडियंट ऑकोकेयर प्राईवेट लिमिटेड
302.	U74900DL2012PTC240260	राज शेरा प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
303.	U74899DL1986PTC025950	राम रंग एंड संस प्राईवेट लिमिटेड
304.	U14200HR2013PTC050438	रामप्रितम इंफ्रामाइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
305.	U74900DL2009PTC188958	आरडीएस ब्लैकवॉटर मैनपावर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
306.	U51900DL2011PTC216113	रेड गॉडस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
307.	U63040DL2012PTC237057	रेड मेपल इमीग्रेशन प्राईवेट लिमिटेड
308.	U45200DL2010PTC210353	रेडबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
309.	U51909DL2014PTC272061	रेडबेररय एक्सपो प्राईवेट लिमिटेड
310.	U72200DL1997PTC089603	रेनैसंस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
311.	U70101DL2005PTC143404	रिदम एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
312.	U27310DL2006PLC149079	रिचे स्टील्स पावर लिमिटेड
313.	U70109DL2013PTC253793	रिंगा इंफ्राडेवलपर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
314.	U61200DL2009PTC191678	राइजिंग शिपिंग सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
315.	U72200DL2011PTC220995	रिवर रॉयल्टीएस कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
316.	U45400DL2014PTC271770	रॉय होम्स प्राईवेट लिमिटेड
317.	U63090DL2013PTC252243	रॉयल वल्ट्रान्स इंटरनेशनल कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
318.	U93000DL2012PTC238171	आरटीइ सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
319.	U74999DL2014PTC267122	रुद्रांग कॉर्पोरेट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
320.	U93090DL2009PTC189382	आरवि लइसोनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड
321.	U45200DL2011PTC229393	आरविएन बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
322.	U74999DL2009PTC191031	अरविआर वाइटल लिंक्स आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
323.	U70100DL2011PTC219717	एस ऐ एस इंफ्राडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
324.	U74999DL2014PTC266984	एस के मॉडलर किचेंस प्राईवेट लिमिटेड
325.	U80900DL2010PTC211115	एस पि विज़न एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
326.	U64200DL2008PTC176812	एस वि इंफ्राटेल प्राईवेट लिमिटेड
327.	U45400DL2008PTC172806	एस पि. इंफ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
328.	U65992HR2007PTC036739	एस वि डी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
329.	U15122DL2013PTC250433	सागर रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड
330.	U19202DL2005PTC143683	सालासर फुटवियर प्राईवेट लिमिटेड
331.	U74999DL2004PTC127841	सालासर पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
332.	U72200DL1996PTC080256	सलना सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
333.	U70101DL2010PTC204118	सैट रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
334.	U45200DL2013PTC257806	से भू विकास & निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
335.	U63010DL2011PTC224363	सीकेल शिपिंग एंड लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
336.	U32107DL2014FTC263681	सेमिलेड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
337.	U74899DL1985PTC021199	सेतु कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
338.	U74999HR2009PTC039038	शांडिल्य पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
339.	U67120DL2005PTC132542	शांता पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड
340.	U34102DL2007PTC160544	शीतल ऑटो कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
341.	U41000DL2011PTC220396	शैल वाटरवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
342.	U01400DL2011PTC226025	शिनडिंग अग्रिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
343.	U51909DL1997PTC084729	शोर तो शोर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
344.	U51909DL2006PTC146763	श्री सलेखर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	U45400DL2013PTC250106	श्रीहरि रोलइंफ्रा प्राईवेट लिमिटेड
346.	U51397DL2012PTC237137	श्री राम सरजी केयर प्राईवेट लिमिटेड
347.	U51109DL2008PTC172837	श्री साई कोटेड पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
348.	U25209DL2013PTC250103	श्री साई मोल्ड प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
349.	U72200DL1988PTC031892	सिग्मा विज़ार्ड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
350.	U20232DL2012PTC239167	सिल्वर हिलने सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
351.	U72200DL2011PTC215507	सिटी एबीसी केबल नेटवर्क आजमगढ़ प्राईवेट लिमिटेड
352.	U72200DL2011PTC215546	सिटी एक्स केबल नेटवर्क मौ प्राईवेट लिमिटेड
353.	U72300DL2010PTC205453	एसकेजेएनके ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
354.	U74899DL1991PTC045461	स्लीक सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
355.	U93000DL2010PTC205424	एसएमएन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
356.	U72900DL2000PLC105577	सॉफ्टलक लखौंतिअ इंफोकॉम लिमिटेड
357.	U70101DL2011PTC219775	स्पिरिट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
358.	U72900DL2011PTC219038	एस पि एस टेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
359.	U65910DL1996PLC083883	एसपीपी फिनलीज़ इंडिया लिमिटेड
360.	U65992HR2010PTC040886	सृष्टि चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
361.	U31500DL2003PTC122065	एसआरएन इलेक्ट्रिकल्स & इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
362.	U72900DL2011PTC222533	एसआरआर इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
363.	U70200DL2011PTC212436	एसआरविके एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
364.	U74140DL2011PTC223377	एसएसजी सतोरी डिज़ाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
365.	U74999DL2014PTC263763	सुधा फ्यूचरिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
366.	U74899DL1990PTC041854	सुगम इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
367.	U51101DL1998PTC094817	सुहाग एम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
368.	U70100DL2011PTC219757	सुमेल टावर्स प्राईवेट लिमिटेड
369.	U80903DL2013PTC262763	सुन एडु सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
370.	U50102DL1996ULL075631	संसतार सेल्स एंड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
371.	U74899DL1980PTC011149	सुपर फाइन ऑटो ट्रैक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
372.	U72200DL2009PTC186597	सुप्रीमम टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
373.	U72300DL2014PTC264906	स्विल्ल इंफोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
374.	U74899DL1990PTC040393	सिम्फनी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
375.	U74999DL2011PTC217968	टीम इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
376.	U28113DL2011PTC212152	तिरुपति वाल्वस प्राईवेट लिमिटेड
377.	U32300DL2012PTC230808	टीएमएस ट्रैफिक सिग्नल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
378.	U74920DL2001PTC113041	ट्रैक्स स्क्वाड प्राईवेट लिमिटेड
379.	U74899DL1995PTC064205	ट्रांज-एक्शन आउटसोर्सिंग सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
380.	U74899DL1993PTC055636	त्रिकुटा लीजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
381.	U74899DL1984PTC018918	त्रिमुर्ति एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
382.	U45300DL2008PTC179879	तुहि तुहि बिल्ड कोन प्राईवेट लिमिटेड
383.	U74899DL1998PTC096585	तवं (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
384.	U92490DL2013PTC255817	ट्वेंटी 502 प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
385.	U74999DL2015PTC278942	टैकूस सिक्वोरिटी एंड फैसिलिटी प्राईवेट लिमिटेड
386.	U45200DL2007PTC157256	उड़ान इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
387.	U80904DL2014PTC264671	यूनिटी फुटवियर प्राईवेट लिमिटेड
388.	U27106DL2006PTC153422	उसका इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
389.	U70109DL2013PTC247809	वि के जी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	U17120DL2013PTC259235	वी के टैक्स फैब प्राईवेट लिमिटेड
391.	U70200DL2008PTC182214	वी पी जी रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
392.	U74899DL1987PTC027534	वी पी केलकर एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
393.	U51909DL2011PTC222827	वक मर्चेंडाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
394.	U52100DL2010PTC202064	वर्धमान ट्रेडेक्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	U51505DL2008PTC181324	वेद इक्विपमेंट्स & सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
396.	U45201HR2014PTC052721	वेदिका इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	U01549DL1997PTC091219	वी ईएसएस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
398.	U51102DL2012PTC246054	वेलिक्सर आलचेम्स सलूशन प्राईवेट लिमिटेड
399.	U70101DL2011PTC212844	वेंटो फार्म्स एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
400.	U29268DL2008PTC183430	वारिस ऑटो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
401.	U15400DL2012PTC246037	वेंडर इंडिया नुट्रिशन प्राईवेट लिमिटेड
402.	U63090DL2013PTC259350	विंक हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
403.	U70109DL2006PTC153671	इंसोमे बिल्ड कोन प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीआईएन	कम्पनी नाम
404.	U92419DL2010PTC199387	जोनबेरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
405.	U52100DL2014PTC273034	यश्री इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
406.	U45200DL2009PTC190915	योजना बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
407.	U55101DL2013PTC246865	ज़ाफ़रान होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
408.	U93000DL2011PTC227388	जेना रिसोर्ट्स एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड
409.	U29230HR2012PTC046403	जीटा अलार्म सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
410.	U72100DL1999PTC098182	ज़िओन इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
411.	U22222DL2009ULT195376	जोडिएक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

देबाशीष बंदोपाध्याय
कम्पनी रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 30 जून 2016

सं. आर.ओ.सी./560(5)एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1.	30707	ओनिकस इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	24545	कुराली ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3.	35500	बीकन ट्रेड जंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
4.	36265	जेडस एशिया प्राइवेट लिमिटेड
5.	38817	श्री बिज़नेस हाउस प्राइवेट लिमिटेड
6.	23093	तनेजा फाइन निटर्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	15533	मैक्सवेल हेल्थ केयर लिमिटेड
8.	34660	ग्रापिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
9.	20185	आर वी कम्फर्ट वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	27293	पाहुल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	23162	ईस्ट विंग ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	22744	एम लाल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	17794	सुखमणि रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
14.	34045	एस जी एस गास्कट प्राइवेट लिमिटेड
15.	35946	एस एन एस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
16.	25967	आर ए मेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17.	32891	अनिका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	32908	भुवनेश्वरी बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
19.	32929	हरीनी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
20.	32927	पञ्चामुखी बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
21.	32935	वारालक्ष्मी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
22.	37582	बी बी एजुकेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	33945	आर डी ऐ क्रिएटिव सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	32909	चंद्रपुरा बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
25.	32893	देवेशि बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
26.	32892	नंदना लैंडप्रो प्राईवेट लिमिटेड
27.	32906	सात्विकी लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	32907	त्वरित बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
29.	32208	ओएसिस कैटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	39285	ड्रीमलैंड अब्रॉड स्टडी प्राईवेट लिमिटेड
31.	36006	सोनू फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	24531	पंजाब पॉलीमर्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	32281	इनोवेटिव मीटरिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	19503	मेडिसर्च डायग्नोस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
35.	14474	करनाल रबर प्राईवेट लिमिटेड
36.	37702	डौन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	33576	टेक्नो फाइनेंसियल ट्रेड जंक्शन लिमिटेड
38.	35221	सिल्वर स्टोन स्पोर्ट्स जोन प्राईवेट लिमिटेड
39.	30504	नोर्थर्न इंडिया टुबिंग प्राईवेट लिमिटेड
40.	12026	नाइन स्टार माइक्रोफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	32658	ओपन आईटी मेथड्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	23267	एमकेयर रिसॉर्ट्स लिमिटेड
43.	22311	मधुसूदन फिनांसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
44.	32066	एज ट्रैक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
45.	32057	विसेज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
46.	32053	पगोडा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	35566	सुखमणि होलिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
48.	35569	लोरमेट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	34165	एक्सेल मेडीलाइफ प्राईवेट लिमिटेड
50.	25244	न्यूमेरिक ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
51.	35416	औसनेट एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
52.	34198	क्वालिटी वेज प्रोडूस प्राईवेट लिमिटेड
53.	28350	बठिंडा प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड

लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी के मामले में

कोलकाता, दिनांक 27 मई 2016

सं. क.र./प.व./एल.एल.पी.—75/2016—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अदिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं :—

क्रम सं.	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1.	AAB-0399	प्लेफुल चेंप्स लरनिंग सोलुशन्स एलएलपी
2.	AAC-7471	बट्टरकप टावर्स एलएलपी
3.	AAC-7488	गालूनीट इंफ्रास्ट्रक्चरस एलएलपी
4.	AAC-7513	सिलेसटिन बिल्डकोन एलएलपी
5.	AAC-7527	स्ट्रीबोग प्लाज़ा एलएलपी
6.	AAC-7493	ओरोशी हार्ट्स एलएलपी
7.	AAC-7491	राडोलेंट मांसन्स एलएलपी
8.	AAC-7518	ग्रीनजास्पर प्रॉपर्टीज एलएलपी
9.	AAC-7514	कोपल कोंक्लेव एलएलपी
10.	AAC-7515	साईनाइट बिल्डवेल एलएलपी
11.	AAC-7526	सोनापानी हाउसिंग एलएलपी
12.	AAC-7489	पुष्पधाम निर्माण एलएलपी
13.	AAA-7585	फलीटिंग कर्मा मीडिया एलएलपी

प्रणय चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, 16th July, 2016

RULES

No.B/59111/CDSE(II)-2016/Rtg.CDSE/5649/D(AG)—A Combined Defence Services Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 23rd October, 2016 for admission to the under mentioned courses :—

Name of the Course and Approximate	No. of Vacancies:
1. Indian Military Academy, Dehradun— 143 rd Course commencing in July, 2017 [Including 19 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders].	150
2. Indian Naval Academy, Ezhimala—Course commencing in July, 2017 Executive (General Service) [including 06 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate holders (Naval Wing)].	45
3. Air Force Academy, Hyderabad—(Pre-Flying) Training Course commencing in July, 2017 i.e. No. 202/16F/PC.	32
4. Officers' Training Academy, Chennai—106th SSC Course (for Men) commencing in October, 2017.	175
5. Officers Training Academy, Chennai—20th SSC Women (Non-Technical) Course commencing in October, 2017.	11

NOTE (i): The date of holding the examination as mentioned above is liable to be changed at the discretion of the Commission.

NOTE (ii): The number of vacancies given above is tentative and may be changed at any stage by Services H. Q.

N.B. (I) (a): A candidate is required to specify clearly in respective column of the Online Application the Services for which he/she wishes to be considered in the order of his/her preference. A male candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given at paras (b) and (c) below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointment.

Since women candidates are eligible for OTA only, they should give OTA as their first and only preference.

(b) (i) : If a male candidate is competing for Short Service Commission (Army) only, he should indicate OTA as the one and only choice. However, a male candidate competing for Short Service Commission Course at OTA as well as Permanent Commission course at IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his last preference, otherwise OTA will be deemed to be the last choice even if it is given a higher preference by the candidate.

(b) (ii) : Women candidates are being considered only for Short Service Commission at OTA. They should indicate OTA as the only choice.

(c) Candidates who desire to join Air Force Academy must indicate AFA as first choice, as they have to be administered Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test at one of the AFSBs and AF Medicals at Central Establishment/Institute of Aviation Medicines. Choice exercised for AFA as second/third etc. will be treated as invalid.

(d) Candidates should note that, except as provided in N.B. (II) below, they will be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and for no other course(s).

(e) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. No change of choice once exercised will be allowed. Second choice will come for consideration only when the first choice is not offered to the candidate by Services HQ. When first choice is offered and a candidate declines the same, his/her candidature will be cancelled for all other choices for regular Commission.

N.B. (II) The left-over candidates of IMA/Indian Naval Academy/Air Force Academy courses viz., those who have been recommended by the Union Public Service Commission for grant of Permanent Commission on the basis of the final results of this Examination, but who could not be inducted on these courses for any reason whatsoever may be considered for grant

of SSC even if they have not indicated their choice for this course in their applications, if they are subsequently willing to be considered for this course subject to the following conditions :

- (i) There is a shortfall after detailing all the candidates who competed for the SSC Course; and
- (ii) The candidates who are detailed for training even though they have not expressed their preference for SSC will be placed in the order of Merit List after the last candidate who had opted for this Course, as these candidates will be getting admission to the Course to which they are not entitled according to the preference expressed by them.
- (iii) Candidates with Air Force as first and only choice cannot be considered as left-over for grant of SSC (OTA) if they fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test. Such candidates, if they desire to be considered for SSC (OTA) should exercise their option for OTA also.

NOTE 1 : NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) holders may also compete for the vacancies in the Short Service Commission Course but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in this course. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) examination to reach the Army HQ/Rtg. CDSE Entry for SSC male candidates and SSC women entry for female candidates West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD (Navy) DMPR, (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110 011 in case of Navy first choice candidates and PO 3 (A)/Air Headquarters 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110 011 in case of Air Force first choice candidates by 13th May, 2017. To be eligible to compete for reserved vacancies the candidates should have served for not less than 2 academic years in the Senior Division Army Wing and 3 academic years in the Senior Division Air Wing/Naval Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 24 months for IMA/Indian Naval Academy/Air Force Academy courses on the last date of receipt of Application in the Commission's Office.

NOTE 2 : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/Air Force Academy Course/Indian Naval Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates. Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard, syllabus of the examination, (b) Guidelines with regard to physical standards for admission to the Academy and (c) Brief particulars of services etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

2. CENTRES OF EXAMINATION :

The Examination will be held at the following Centres :

AGARTALA, AHMEDABAD, AIZAWL, ALLAHABAD, BENGALURU, BAREILLY, BHOPAL, CHANDIGARH, CHENNAI, CUTTACK, DEHRADUN, DELHI, DHARWAD, DISPUR, GANGTOK, HYDERABAD, IMPHAL, ITANAGAR, JAIPUR, JAMMU, JORHAT, KOCHI, KOHIMA, KOLKATA, LUCKNOW, MADURAI, MUMBAI, NAGPUR, PANAJI (GOA), PATNA, PORT BLAIR, RAIPUR, RANCHI, SAMBALPUR, SHILLONG, SHIMLA, SRINAGAR, THIRUVANANTHAPURAM, TIRUPATI, UDAIPUR AND VISAKHAPATNAM.

Applicants should note that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each of the centres except Chennai, Delhi, Dispur, Kolkatta and Nagpur. Allotment of Centres will be on the first-apply-first-allot basis and once the capacity of a particular centre is attained, the same will be frozen. Applicants, who cannot get a centre of their choice due to ceiling, will be required to choose a Centre from the remaining ones. Applicants are, thus, advised that they may apply early so that they could get a Centre of their choice.

NB : "Notwithstanding the aforesaid provision, Commission reserve the right to change the Centres at their discretion if the situation demands."

Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination. Candidates should note that no request for change of centre will be granted.

NOTE : While filling in his/her online Application form, the candidates should carefully decide about his/her choice for the centre for the examination.

If any candidate appears at a Centre/Paper other than the one indicated by the Commission in his/her Admission Certificate, the papers of such a candidate will not be valued and his/her candidature will be liable to cancellation.

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a Citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him/her by the Govt. before declaration of result by UPSC.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

(i) For IMA—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1993 and not later than 1st July, 1998 only are eligible.

(ii) For Indian Naval Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1993 and not later than 1st July, 1998 only are eligible.

(iii) For Air Force Academy—

Age : 20 to 24 years as on 1st July 2017 i.e. born not earlier than 02nd July, 1993 and not later than 01st July, 1997 (Upper age limit for candidates holding valid and current Commercial Pilot Licence issued by DGCA (India) is relaxable upto 26 yrs. i.e. born not earlier than 02nd July, 1991 and not later than 01st July, 1997) only are eligible.

Note : Candidate below 25 years of age must be unmarried. Marriage is not permitted during training. Married candidates above 25 years of age are eligible to apply but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live out with family.

(iv) For Officers' Training Academy—(SSC Course for men) Male candidates (married or unmarried) born not earlier than 2nd July, 1992 and not later than 1st July, 1998 only are eligible.

(v) For Officers' Training Academy—(SSC Women Non-Technical Course) Unmarried women, issueless widows who have not remarried and issueless divorcees (in possession of divorce documents) who have not remarried are eligible. They should have been born not earlier than 2nd July, 1992 and not later than 1st July, 1998.

NOTE : Male divorcee/widower candidates cannot be treated as unmarried male for the purpose of their admission in IMA/INA/AFA courses and accordingly they are not eligible for these courses.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the self attested/certified copy of Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a self attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his/her birth or exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

NOTE 1 : Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

(c) Educational Qualifications :

(i) For I.M.A. and Officers' Training Academy— Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) For Indian Naval Academy—Degree in Engineering from a recognised University/Institution.

(iii) For Air Force Academy—Degree of a recognised University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

Graduates with first choice as Army/Navy/Air Force are to submit proof of graduation provisional certificates on the date of commencement of the SSB Interview at the SSB.

Candidates who are studying in the final year/semester Degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply provided candidate should not have any present backlog upto the last semester / year for which results have been declared upto the time of submission of application and they will be required to submit proof of passing the degree examination at the time of SSB to reach the Army HQ/Rtg. CDSE Entry, West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ "DMPR" (OI & R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and PO3(A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates by the following dates failing which their candidature will stand cancelled :

(i) For admission to IMA on or before 01st July, 2017, Indian Naval Academy on or before 01st June, 2017 and Air Force Academy on or before 13th May, 2017.

(ii) For admission to Officers' Training Academy, Chennai on or before 1st August, 2017.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he/she possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE I : Candidates, who have yet to pass their degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree Examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE II : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE III : In the event of Air Force candidates being suspended from Flying training for failure to learn flying, they would be absorbed in the Navigation Branch of the IAF. This will be subject to availability of vacancies and fulfilling the laid down qualitative requirements (including 60% in graduation).

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to Combined Defence Services Examination (II), 2016 as per guidelines given in Appendix-II.

4. FEE :

Candidates (excepting Female/SC/ST candidates who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee of Rs. 200/- (Rupees Two Hundred Only) either by depositing the money in any Branch of SBI by cash, or by using net banking facility of SBI, State Bank of Bikaner & Jaipur/State Bank of Hyderabad/State Bank of Mysore/State Bank of Patiala/State Bank of Travancore or by using Visa/Master Credit/Debit Card.

Note.1 : Applicants who opt for "Pay by Cash" mode should print the system generated Pay in-slip during Part-II registration and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. "Pay by Cash" mode option will be deactivated at 23.59 hours of 11.08.2016 i.e. one day before the closing date. However, applicants who have generated their Pay-in slip before it is de-activated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reason whatsoever, even if holding a valid Pay-in-Slip will have no other offline option but to opt for online Debit/Credit Card or internet Banking Payment mode on the closing date i.e till 23.59 hours of 12.08.2016.

NOTE 2 : Candidates should note that payment of examination fee can be made only through the modes prescribed above. Payment of fee through any other mode is neither valid nor acceptable. Applications submitted without the prescribed fee/mode (unless remission of fee is claimed) shall be summarily rejected.

NOTE 3 : Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

NOTE 4 : For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank, they will be treated as fictitious payment cases and their applications will be rejected in the first instance. A list of all such applicants shall be made available on the Commission website within two weeks after the last day of submission of online application. The applicants shall be required to submit the proof of their fee payment within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. On receipt of documentary proof, genuine fee payment cases will be considered and their applications will be revived, if they are otherwise eligible.

ALL FEMALE CANDIDATES AND CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES ARE NOT REQUIRED TO PAY ANY FEE. NO FEE EXEMPTION IS, HOWEVER, AVAILABLE TO OBC CANDIDATES AND THEY ARE REQUIRED TO PAY THE FULL PRESCREIBED FEE.

5. HOW TO APPLY :

Candidates are required to apply Online using the link www.upsconline.nic.in Detailed instructions for filling up Online Applications are available on the above-mentioned website.

The applicants are advised to submit only single application; however if due to any unavoidable situation, if he/she submits another/multiple applications, then he/she must ensure that application with the higher RID (Registration ID) is complete in all respects like applicants' details, examination centre, photograph, signature, fee etc. The applicants who are submitting multiple applications should note that only the applications with higher RID (Registration ID) shall be entertained by the Commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID.

All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should submit their applications online direct to the Commission.

N.B.I: Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are, however, required to inform their Head of Office/Department in writing that they have applied for the Examination.

N.B.II: Candidates serving in the Armed Forces are required to inform their Commanding Officer in writing that they have applied for this examination. They are also required to submit NOC in this regard at the time of SSB interview.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

NOTE : APPLICATIONS WITHOUT THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED.

No representation or correspondence regarding such rejection shall be entertained under any circumstances. Candidates are not required to submit alongwith their applications any certificate in support of their claims regarding age, educational qualifications, Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC and fee remission etc.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination.

Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. written examination and interview test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written examination or Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Candidates are advised to keep ready the following documents in original alongwith their self attested copies soon after the declaration of the result of the written part of the examination which is likely to be declared in the month of December, 2016 for submission to the Army HQ/Naval HQ/Air HQ as the case may be :

(1) Matric/Higher Secondary School Certificate or its equivalent showing date of birth (2) Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree.

In the first instance all qualified candidates eligible for SSB interview will carry their original Matric/Higher Secondary School Certificate as also their Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet with them while going to the Services Selection Centres for SSB interview. Candidates who have not yet qualified the final year Degree examination must carry with them a certificate in original from the Principal of the College/Institution stating that the candidate has appeared/is appearing at the final year Degree examination. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the Services Selection Centres shall not be allowed to appear for the SSB interview. No relaxation for non-submission of the above certificates in original at the selection centre is allowed, and candidates who do not carry with them any of these certificates in original will not be permitted to appear for their SSB test and interview and they will be sent back home at their own expense.

If any of their claims is found to be incorrect/false/fraud/fabricated they may render themselves liable to disciplinary action by the Commission in terms of the following provisions:

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his/her candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene languages or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he/she is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period :
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) if he/she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rules shall be imposed except after,

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he/she may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him/her into consideration.

6. LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS:

The Online Applications can be filled upto 12th August, 2016 till 11.59 PM after which the link will be disabled.

7. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS.

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases:

- (i) The eligible candidates shall be issued an e-Admit Card three weeks before the commencement of the examination. The e-Admit Card will be made available in the UPSC website [www.upsc.gov.in] for downloading by candidates. No Admit Card will be sent by post. For downloading the e-Admit Card the candidate must have his/her vital parameters like RID & Date of Birth or Roll No. (if received) & date of birth or name, Father's name & Date of Birth available with him/her.
- (ii) If a candidate does not receive his/her e-Admit Card or any other communication regarding his/her candidature for the examination three weeks before the commencement of the examination, he/she should at once contact the Commission. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over Phone Nos. 011-23381125/011-23385271/011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his/her e-Admit Card at least 3 weeks before the examination, he/she himself/herself will be solely responsible for non-receipt of his/her e-Admit Card.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he/she holds an e-Admit Card for the examination. On receipt of Admit Card, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of UPSC immediately.

The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per age and educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.

- (iii) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.
- (iv) Candidates should note that the name in the e-Admit Card in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (v) Candidates must ensure that their e-mail IDs given in their applications are valid and active.

IMPORTANT: All communications to the Commission/Army Headquarters should invariably contain the following particulars.

1. Name and year of the examination.
2. Registration ID (RID)
3. Roll Number (if received)
4. Name of candidate (in full and in block letters)
5. Complete Postal Address as given in the application with telephone number, if any.

N.B. (i) Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. (ii) If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his/her full name and Roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon.

N.B. (iii) Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their application for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address, along with an unstamped self addressed envelope, also to Army Headquarters, A.G's Branch, Rtg. CDSE Entry Section for males and SSC Women Entry Section for women candidates, West Block-III, Ground Floor, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD(Navy) DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates, and PO 3 (A) Air HQS. 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates. Failure to comply with this instruction will deprive the candidate of any claim to consideration in the event of his/her not receiving the summon letter for interview by the Services Selection Board. For all queries regarding allotment of centres, date of SSB interview, merit list, Joining Instructions, and any other relevant information regarding selection process, please visit website www.joinindianarmy.nic.in or contact Recruiting Directorate on Tele No.: (011)-26173215 and Fax No.: 011-26196205 between 1400hrs to 1700hrs on

all working days in case of candidates having IMA or OTA as their first choice and PO3 (A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in the case of candidates having Air Force as first choice and IHQ of MOD (NAVY)DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in the case of candidates having Navy as first choice.

Candidates are requested to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army headquarters/Air Headquarter/Naval HQ will be the sole deciding authority. Such requests should be sent to Selection Centre/SSB from where the call for SSB interview has been received. Navy candidates can download their call letters from the naval website www.nausena-bharti.nic.in or send email at officer-navy@nic.in in three weeks after publication of results.

N.B. In case a candidate does not get the interview call for SSB interview for IMA by 4th week of February, 2017 and by 4th week of May, 2017 for OTA, he/she should write to Army Headquarters/Rtg. CDSE Entry/SSC Women Entry for Officers Training Academy, 175, West Block-III, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 or contact on telephone No. 26176028 regarding non-receipt of the call-up letter. For similar query by the Navy/Air Force candidates, having first choice as given ibid, should write to Naval Hqrs. or Air Hqrs. as mentioned in N.B. III (in case of non-receipt of call by 4th week of February, 2017).

(vii) Original certificates submission of—Those candidates who qualify in the SSB interview will be required to submit their original certificates alongwith two self attested copies thereof in support of educational qualification at Services Selection Centre after SSB interview. Those appearing for Degree Examination will be required to submit their certificates by 13th May, 2017, (01st August, 2017 in the case of SSC only). Instructions for the same will be given at SSB. Original certificates will be returned after verification. Certified true copies or photostat copies of the certificates will not be accepted in any case.

8. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Candidates who are declared successful in the written exam will be detailed for intelligence and personality test at the Service Selection Board based on their preference by the respective service HQ. Results of the test conducted by Service Selection Board will hold good for all the courses [i.e. Indian Military Academy (DE) Course, Dehradun, Indian Naval Academy, Ezhimala Course, Air Force Academy (Pre-Flying) Course, Hyderabad and SSC (NT) Course at OTA, Chennai] for which the candidate has qualified in the written exam, irrespective of the service HQ conducting it. Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and intelligence Test has been introduced at Service Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests and all those who fail to pass stage one, will be returned. Only those candidate who qualify at stage two will be required to submit photocopy each of:—(i) Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Bachelors Degree/Provisional Degree alongwith mark sheets of all the years/semesters in support of educational qualification.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) SSB test as fixed by the Commission and Service Selection Board respectively in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the SSB tests. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training Academy as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

NOTE: Every candidate for the Air Force and Naval Aviation is given Pilot Aptitude Test only once. The Grade secured by him at the first test (CPSS and/or PABT) will therefore hold good for every subsequent interview at the Air Force Selection Board. Those who have failed Indian Navy Selection Board/Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test earlier and those who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.

TEST/INTERVIEW AT AIR FORCE SELECTION BOARDS FOR THOSE CANDIDATES WHO APPLY FOR AIR FORCE THROUGH MORE THAN ONE SOURCE:—There are three modes of entry in F (P) course viz. CDSE/NCC/Airmen. Candidates who apply for the Air Force through more than one source will be tested/interviewed at the Air Force Selection Boards only once for Air Force. Common candidates who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) and/ or Pilot Aptitude Battery tests as an NCC or Airmen candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTS only if it is found that they have applied through CDS Exam. Candidates who qualify in the written examination for IMA (D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course and/or Air Force Academy course irrespective of whether they have also qualified for SSC Course or not will be detailed for SSB test in February-March, 2017 and candidates who qualify for SSC Course only will be detailed for SSB tests in April to June, 2017.

9. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE: Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Academy, Indian Naval Academy, Officers' Training Academy, Chennai but were removed there from on disciplinary ground will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training Academy, NCC and Graduate course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the NCC and Graduates' course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

10. RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY :

Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course or Indian Air Force Academy Course or women candidates joining Officers' Training Academy must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his/her application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government.

No male candidate for the Short Service Commission course (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for admission to the Officers' Training Academy/grant of Short Service Commission. Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

11. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY:

After admission to the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy, candidates will not be considered for any other Commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy.

12. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE/SHE HAS SUBMITTED HIS/HER APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

S.K. MOHANTY
Deputy Secretary (AG-II)

APPENDIX-I

The scheme, standard and syllabus of the examination

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises:

- (a) Written examination as shown in para 2 below.
- (b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:

(a) For Admission to Indian Military Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) For Admission to Officers' Training Academy :—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be 300, 300, 300 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy respectively.

3. The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) of General Knowledge and Elementary Mathematics will be set bilingually in Hindi as well as English.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculator for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the papers in Elementary Mathematics will be of Matriculation level. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

SYLLABUS

ENGLISH (Code No. 01)

The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 02)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 03)

ARITHMETIC

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations, addition, subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions. Unitary method, time and distance, time and work, percentages, applications to simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm. Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

ALGEBRA

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M., Theory of polynomials, solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable & their solutions. Set language and set notation, Rational expressions and conditional identities, Laws of indices.

TRIGONOMETRY

Sine x , cosine x , Tangent x when $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ Values of $\sin x$, $\cos x$ and $\tan x$, for $x = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ and 90°

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometric tables.

Simple cases of heights and distances.

GEOMETRY

Lines and angles, Plane and plane figures, Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circles and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

MENSURATION

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book), Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, surface area and volume of spheres.

STATISTICS

Collection and tabulation of statistical data, Graphical representation frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc. Measures of central tendency.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

The SSB procedure consists of two stage Selection process - stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II. The details are:-

(a) Stage I comprises of Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception * Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR Test and PP&DT.

(b) Stage II Comprises of Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in.

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. The Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO) and the Psychologist. There are no separate weighage for each test. The mks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the test. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the Candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weightage.

The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/absence of Officer Like Qualities and their trainability in a candidate. Accordingly candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

APPENDIX-II

Guidelines with regard to Physical Standards for Candidates for Combined Defence Services Examination.

Note-I : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS AND THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW:

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Note-II: Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis.

1. A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Women candidates will undergo Medical Examination by a Medical Board comprising male/female doctors/specialists/Gynaecologist. There will be a Lady Medical Officer as Member of Board. Only those candidates will be admitted to the Academy who are declared fit by the Medical Board. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and procedure for request for an Appeal Medical Board (AMB) will also be intimated to the candidate.

Candidates who are unfit may apply for Appeal Medical Board (AMB) to be completed within 42 days of SMB and may request for Review Medical Board (RMB) within one day of completion of Appeal Medical Board. Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President AMB about procedure of challenging the findings of AMB. The candidates will also be intimated that holding Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merit of the case and that RMB is not a matter of right. The candidate should address the request for RMB if he/she so desires to ADG Rtg. (CDSE) Army HQ., West Block-III, R.K. Puram, New Delhi-110066 and DMS(MB)/DGMS (Air), Air HQ, R.K. Puram in case of AF candidates and a copy of the same is handed over to the President of AMB. The O/o the DGAFMS will inform the date and place (Delhi and Pune only) where the candidate will appear for a RMB. The candidate must be physically fit according to the prescribed physical standards which are summarized below:

- (a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties.
- (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or over weight.
- (c) The minimum acceptable height for male candidates is 157.5 cms. (157 cms for Navy and 162.5 cms for Air Force). For Women candidates minimum acceptable height is 152 cms. For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern region of India, Garhwali and Kumaon, the Minimum acceptable height will be 5 cms less. In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms.

These concessions are not applicable for Navy and Air Force. Height and Weight standards are given below for Army and Navy only. Interpolation for weights against height not mentioned may be done.

Height and Weight Standards (Males)

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	18 years	20 years	22 years
152	44*	46	47
155	46	48@	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	18 years	20 years	22 years
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	79

*45 for Navy

@ 47 for Navy

A \pm 10% (for Navy) departure from the average weight given in the Table above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin built but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

Height and Weight Standards (Females)

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	20 years	25 years	30 years
148	39	41	43
150	40	42	43.5
153	42	43.5	45
155	43	44	46
158	45	46	48
160	46	47	49
163	47	49	51
165	49	51	53
168	50	52	54

The acceptable weight for Air Force candidates will be \pm 10% of the average weight given below:—

MALE IDEAL WEIGHTS IN KG FOR DIFFERENT AGE GROUPS AND HEIGHTS FOR FAT % (<20) OF NORMAL INDIVIDUALS FOR AIR FORCE

Ht. in mm	Age Range						
	15-17	18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47 >48
1520	46	47	50	54	54	54	55
1530	47	47	51	55	55	54	56
1540	47	48	51	56	55	55	57
1550	48	49	52	56	56	56	57

Ht. in mm	Age Range							
	15-17	18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	>48
1560	48	49	53	57	57	56	58	56
1570	49	50	54	58	58	57	58	57
1580	49	50	54	58	58	58	59	58
1590	50	51	55	59	59	59	60	58
1600	51	52	56	59	60	59	60	59
1610	51	52	56	60	60	60	61	60
1620	52	53	57	61	61	61	62	60
1630	52	54	58	61	62	61	62	61
1640	53	54	59	62	63	62	63	62
1650	53	55	59	63	63	63	64	62
1660	54	56	60	63	64	64	64	63
1670	54	56	61	64	65	64	65	64
1680	55	57	61	65	65	65	65	65
1690	55	57	62	65	66	66	66	65
1700	56	58	63	66	67	67	67	66
1710	56	59	64	66	68	67	67	67
1720	57	59	64	67	68	66	68	67
1730	58	60	65	68	69	69	69	68
1740	58	61	66	68	70	69	69	69
1750	59	61	66	69	71	70	70	69
1760	59	62	67	70	71	71	71	70
1770	60	62	68	70	72	72	71	71
1780	60	63	69	71	73	72	72	71
1790	61	64	69	72	73	73	73	72
1800	61	64	70	72	74	74	73	73
1810	62	65	71	73	75	75	74	73
1820	62	66	72	74	76	75	74	74
1830	63	66	72	74	76	76	75	75
1840	64	67	73	75	77	77	76	75
1850	64	68	74	75	78	77	76	76
1860	65	68	74	76	78	78	77	77
1870	65	69	75	77	79	79	78	77
1880	66	69	76	77	80	80	78	78
1890	66	70	77	78	81	80	79	79
1900	67	71	77	79	81	81	80	79
1910	67	71	78	79	82	82	80	80
1920	68	72	79	80	83	82	81	81
1930	68	73	79	81	83	83	81	82
SD	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9	6.8	5.8	7.26

- (d) In your own interest you are advised to undergo a preliminary medical check up for wax in ears, refractory error of eyes, fungal infection of skin etc. before reporting for the SSB interview.
- (e) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.
- (f) There should be no disease of bones and joints of the body.
- (g) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (h) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat.
- (i) There should be no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessel. Blood pressure should be normal and candidates be free from AIDS.
- (j) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (k) Un-operated hernias will make a candidate unfit. If operated, this should have been done at least six months prior to the present examination and healing is completed.
- (l) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (m) Urine examination will be done and any abnormality, if detected will be a cause for rejection.
- (n) Any disease of the skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (o) For a male candidates the minimum acceptable visual acuity are distant Vision (corrected) better eye 6/6 and worse eye 6/18. (For Air Force without glasses only) Myopia of not more than minus 3.5 D and Manifest hypermetropia of not more than plus 3.5 D including Astigmatism. For women candidates the minimum acceptable visual acuity are distant Vision (corrected) better eye 6/6, worse 6/18, Myopia of not more than minus 5.5 D including Astigmatism. Manifest hypermetropia of not more than plus 3.5 D including astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be CP-II for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours.
- (p) Visual Standards for Navy
 - (a) Uncorrected without glass 6/12
 - (b) Corrected with glass 6/6
 - (c) Limits of Myopia -1.5
 - (d) Limits of Hypermetropia +1.5
 - (e) Binocular vision III
 - (f) Limits of Colour Perception I
- (q) For women candidates if pregnancy is detected at any stage after selection at SSB or during training will debar the candidates from grant of commission and cost recovered from the date of joining OTA till the date of debar on confirmation of pregnancy from Military Hospital Authorities.

RADIAL KERATOTOMY and LASER SURGERY: Candidates, who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy to improve the visual acuity, will be permanently rejected for all the three services.

In order to detect PRK/LASIK all the candidates at SMB will be subjected to the measurement of Axial length by A-Scan biometer.

Candidates who have undergone LASER Surgery for correction of refractive error will be considered for commission in Army if they fulfill following criteria:—

- (i) Age more than 20 years.
- (ii) Uncomplicated stable LASIK/Excimer (PRK) laser procedure done for Myopia or Hypermetropia, with stable refraction for a period of six months after the procedure.
- (iii) A healthy retina.

- (iv) Corrected vision should be 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye, with maximum residual refraction of ± 1.50 in any meridian for myopia or hypermetropia.
- (v) Axial length within permissible limits.

NOTES : The candidates will be asked to declare at the time of medical examination that he/she has undergone LASER procedure as above. He/she will be subjected to a thorough corneal and retinal evaluation by the ophthalmologist. However he/she will be declared unfit at the SMB and those found to be within the acceptable limits for approval as above will be advised to undergo an Appeal Medical Board. During AMB he/she will be subjected to a thorough corneal and retinal evaluation as also scrutiny of the records by a Senior Adviser in Ophthalmology.

- (r) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoëa.
- (s) X-Ray examination of the chest will include the lower part of cervical spine for presence of cervical ribs. X-Ray examination of other parts of spine will be taken if the SMB considers it necessary.
- (t) Carrying angle of elbow should not be more than 15° and 18° among males and females respectively.

2. In addition to the above, the following medical standards will be applicable in respect of Air Force candidates only:

- (a) Anthropometric measurements acceptable for Air Force are as follows :

Height 162.5 cms.
 Leg Length Min. 99 cms. & Max. 120 cms.
 Thigh Length Max. 64 cms.
 Sitting Height Min. 81.5 cms. & Max. 96 cms.

- (b) X-ray of Chest is compulsory.

- (c) Visual Standards for Air Force :

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force. Minimum distant vision 6/6 in one eye and 6/9 in other correctable to 6/6 only for

Hypermetropia Colour vision CP-1

Hypermetropia : +2.0 d Sph

Manifest Myopia : Nil

Retinoscopic Myopia : -0.5 in any meridian
permitted

Astigmatism : +0.75 D Cyl (with + 2.0 D-
Max)

Maddox Rod Test

- (i) at 6 meters— Exo-6 prism D
 Eso-6 prism D
 Hyper-1 prism D
 Hypo-1 prism D

- (ii) at 33 cms— Exo-16 prism D
 Eso-6 prism D
 Hyper-1 prism D
 Hypo-1 prism D

Hand held Stereoscope—All of BSV Grades

Convergence—up to 10 cm

Cover test for distant and near—Lateral divergence/convergence recovery rapid and complete Radial Keratotomy, (RK) Photo Refractive Keratotomy (PRK) surgery for correction of refractive errors are not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.

Binocular Vision—Must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth).

Candidates who have undergone LASIK surgery are not considered fit for permanent commission in flying branch in IAF.

(d) Hearing Standards :

- (i) Speech test : Whispered hearing 610 cms. each ear.
- (ii) Audiometric Test : Audiometric loss should not exceed +20 db in frequencies between 250 Hz and 8000 Hz.

(e) Routine ECG should be within normal limits.

3. The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Army and Navy:

- (a) Granulomatous disease of spine.
- (b) Arthritis/Spondylosis
- (c) Scoliosis more than 10° degree as measured by Cobb's Method.
- (d) More than mild Kyphosis/Lordosis.
- (e) Spondylolisthesis/Spondylosis.
- (f) Herniated nucleus pulposus.
- (g) Compression fracture of Vertebra.
- (h) Sacralisation Disease.
- (i) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
- (j) Presence of Schmorl's node at more than one level.
- (k) Atlanto-occipital and atlanto-axial anomalies.
- (l) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral.
- (m) Spina bifida other than SV 1 and LV 5.
- (n) Any other abnormality, if so considered by specialist.

Spinal Conditions for Air Force

Past medical history of diseases or injury of the spine or sacroiliac joints, either with or without objective signs which have prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a case for rejection for commissioning in IAF. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection. The following conditions detected during medical exam will disqualify a candidate for Air Force service.

- (a) Granulomatous disease of spine
- (b) Arthritis/Spondylosis
 - (i) Rheumatoid arthritis and allied disorders
 - (ii) Ankylosing spondylitis
 - (iii) Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint diseases
 - (iv) Non articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.)
 - (v) Miscellaneous disorders including SLE, dermatomyositis, polymyositis, vasculitis.
- (c) Spondylolisthesis/spondylolysis/spondylosis
- (d) Compression fracture of vertebrae
- (e) Scheurman's disease (Adolescent kyphosis)
- (f) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.

- (g) Unilateral/bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
- (h) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method.
- (i) Degenerative Disc Disease.
- (j) Presence of Schmorl's nodes at more than one level.
- (k) Atlanto—occipital and atlanto-axial anomalies.
- (l) Hemi vertebrae and/or incomplete block (fused) vertebrae at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebrae at more than one level in cervical or dorsal spine.
- (m) Unilateral Sacralisation or lumbarisation (Complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.
- (n) Any other abnormality if so considered by the specialist.

4. The Medical standards for candidates of Naval Aviation Branch will be the same as for flying duties of Air Force except limit of myopia is -0.75 D and limits of hypermetropia is +1.5D

5. Detection of any disability in the course of a special test carried out prescribed for one service, may render the candidate unfit for any other service(s), if so considered as disqualifying by Medical Board.

6. Physical Conditioning: Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition by following the under mentioned routine:—

- (a) Running : 2 to 4 Km. in 15 minutes
- (b) Skipping
- (c) Pushups & Sit-ups : Minimum 20 each
- (d) Chin ups : Minimum 08
- (e) Rope Climbing : 3 to 4 metres.

APPENDIX-III

(Brief Particulars of service etc.)

Pay Scale of Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(i) Pay

(a) Rank	Pay Band (Rs.)
Lt to Major	15,600—39,100/- (PB-3)
Lt Col to Maj Gen	37,400—67,000/- (PB-4)
Lt Gen HAG Scale	67,000/- (annual increment @ 3%)—79,000/-
HAG + Scale*	75,500/- (annual increment @ 3%)—80,000/-

(*Admissible to 1/3rd of total strength of Lt. Gens.)

VCOAS/Army 80,000/- (fixed)

Cdr/Lt Gen (NFSG)

COAS 90,000/- (fixed)

(b) In addition to Pay, Grade Pay will also be given as under :

Lt	Rs. 5,400/-
Capt	Rs. 6,100/-
Maj	Rs. 6,600/-
Lt Col	Rs. 8,000/-
Col	Rs. 8,700/-
Brig	Rs. 8,900/-
Maj Gen	Rs. 10,000/-

Due to restructuring of the officer's cadre on recommendations of AVS committee, promotion period has been reduced and Time Scale promotion has been increased upto the rank of Col (equivalent) and rank of Lt Col (TS) has been abolished. Col (TS) (equivalent) is entitled to Grade Pay of Rs. 8,700/- p.m.

(c) A fixed sum of Rs. 6,000/- p.m. is also payable as Military Service Pay (MSP) to the officers from the rank of Lt. to Brig.

(d) Stipend during training at Service Academies : Fixed Stipend Rs. 21,000/- p.m. (Rs. 15,600/- as Pay in Pay Band plus Grade Pay of Rs. 5,400/-) for the entire duration of training.

(ii) Qualification Pay and Grant

Officers possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- or 20,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them as under :—

(i) Master Aviation Instructor—Rs. 500/- p.m.

(ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 400/- p.m.

(iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 280/- p.m.

(iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 400/- p.m.

(v) Aviators holding Green Card—Rs. 280/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under:

(a) Brig & above Rs. 10,500/-

(b) Maj to Col Rs. 14,000/-

(c) Capt and equivalent Rs. 11,000/-

(d) Lt and equivalent Rs. 9,000/-

Other Allowances :

(a) Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowances of Rs. 400/- p.m.

(c) Depending upon the rank and area of posting, Officers posted to Field Areas will be eligible for compensatory. Highly active Field Area Allowance at the rate of Rs. 6,780/- to Rs. 8,400/- p.m. Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 4,200/- to 5,200/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 1,600/- to Rs.2,000/- p.m.

(d) In addition to the Compensatory Field Area Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. and above are entitled for High Altitude Allowance in the range of Rs. 1,060/- p.m. to Rs.11,200/- p.m. depending upon rank of the officer and place of posting.

(e) Siachen Allowance at the rate of Rs. 14,000/- per month will be admissible in addition to Compensatory Field Area Allowance to officers of all ranks. This allowance is, however, not admissible in conjunction with High Altitude/Uncongenial climate allowance.

(f) Uniform Allowance : Initial allowance for a one time kit @ Rs. 14,000/- and Rs. 3,000/- for every three years.

(g) Free rations are provided to all officers.

(h) Transport allowance: Transport allowance @Rs. 3,200/-+ DA thereon per month in A-1/A class cities and Rs. 1,600/- + DA thereon per month at other places shall be admissible to officers.

(i) Children Education Allowance.

(j) In the case of allowances specific to Defence Forces, the rates of these allowances have been further enhanced by 50% as Dearness Allowance has gone up by 100%.

(k) State Govt. of Sikkim has approved a cash incentive of Rs.1.5 lac (Rupees one lakh fifty thousand only) to successful candidates of Sikkim for all officer's entry scheme.

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN:

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy.

(a) He will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain. In the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered; he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen cadets. Gentlemen cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehradun.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 200.00 per month. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. Gentlemen/Lady Cadets undergoing training at Indian Military Academy, Officers' Training Academy and corresponding training establishments in Navy and Air Force, in whose cases the income of parents/guardians does not exceed Rs. 1,500/- (under revision) per month are eligible for financial assistance. In case of parents/guardians whose income exceeds Rs. 1,500/- (under revision) per month but does not exceed Rs. 2,000/- (under revision) per month, the same financial assistance will be given in respect of all the sons/wards if there are more than one son/ward simultaneously undergoing training in one or more than one of the above institutions irrespective of the fact whether the institutions are under the same service or not. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should, immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy, submit an application through the District Magistrate of his District who will with his recommendation forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehradun.

4. Candidate finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival:

- | | |
|--|----------------|
| (a) Pocket allowance for five months | Rs. 1,000.00/- |
| @ Rs. 200.00 per month. | |
| (b) For item of clothing and equipment | Rs. 2,750.00/- |
| Total | Rs. 3,750.00/- |

Out of the amount mentioned above the following is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| Pocket allowance of five months | Rs. 1,000.00/- |
| @ Rs. 200.00 per month. | |

5. The following Scholarships are tenable at the Indian Military Academy :

(i) PARSHURAM BHAU PATWARDAN SCHOLARSHIP—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is upto a maximum of Rs. 500.00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet's making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(ii) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rate and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at disposal of the Commandant of the Academy. The unexpended portion of the allowance will be:—

- (a) handed over to the cadet on his being granted a commission or
- (b) if he is not granted a commission refunded to the State.

On being granted a commission article of clothing and necessities purchased from the allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadet resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services, will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentlemen Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of the Government, be discharged. Service candidates under these circumstances will be reverted back to their parent Unit.

8. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identified with those applicable from time to time to regular officers of the army.

10. Training : At the Indian Military Academy Army Cadets, known as Gentlemen Cadets, are given strenuous Military training for a period of 18 months aimed at turning out, officers capable of leading infantry subunits. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit, in S.H.A.P.E.

11. Insurance : The Gentlemen/Lady Cadets of IMA/OTA when in receipt of stipend are insured for Rs. 60 lac w.e.f 01 October, 2015. Those who get medically boarded out of the Academy on account of disability, the disability cover provided for 100 per cent disability will be Rs. 25 lac which is proportionately reduced upto Rs. 5 lac for 20 per cent disability. However, for less than 20 per cent, disability, no disability benefit is eligible but an Ex-Gratia of Rs. 50,000/- will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Gentlemen/Lady Cadets withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia Grant. Subscription at the rate of Rs., 5,000/- will have to be paid in advance on monthly basis by the Gentleman/Lady Cadets who are in receipt of stipend and will become members of the main Army Group Insurance Scheme as applicable to Regular Army Officers.

12. Terms and Conditions of Service

(i) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(ii) PROMOTION

Substantive promotions

The following are the service limits for the grant of the substantive promotion to higher ranks.

By time scale :

Lt.	(On completion of training)
Capt.	2 years of reckonable commissioned service
Major	6 years of reckonable commissioned service
Lt. Col.	13 years of reckonable commissioned service
Col (TS)	26 years of reckonable commissioned service

By Selection :

Col.	15 years of reckonable commissioned service
Brigadier	23 years of reckonable commissioned service
Major Gen.	25 years of reckonable commissioned service
Lt. Gen.	28 years of reckonable commissioned service
General	No restrictions

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN NAVAL ACADEMY, EZHIMALA, KERALA

- (i) Candidates selected for training at the Indian Naval Academy will be appointed as Cadets under the Graduate Cadet Special Entry Scheme (GSES) Course. The Selection of the cadets is based on the candidate qualifying in the Combined Defence Service Examination (CDSE), followed by SSB interview and Medical Examination. Meritorious candidates who are medically fit are appointed to the 45 vacancies in the order of merit. Six of these 45 vacancies are reserved for Naval NCC "C" Certificate holding candidates under the NCC Special Entry Scheme.
- (ii) Selection of Cadets from the National Cadet Corps. The eligibility, age-limits, educational qualifications for candidates applying under the NCC Special Entry Scheme are the same as the GSES candidates except for the following:-
 - a) A NCC Cadet must have served for not less than two academic years in the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps, and must be in possession of Certificate "C" (Naval). Those who have appeared or intend to appear for certificate "C" examination are also eligible to apply but their final selection shall depend on producing the Certificate before the commencement of the course.
 - b) The NCC Cadet must be in possession of a certificate of good conduct and character from his University or Principal of his College.
 - c) A NCC Cadet shall not be eligible to apply after twelve months of leaving the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps
 - d) In order to apply, a cadet must submit his application to his Officer Commanding, N.C.C Unit, Naval Wing, who shall forward it through the Circle Commander concerned to the N.C.C. Directorate, Ministry of Defence, New Delhi. The N.C.C. Directorate will forward the applications to the Chief of the Naval Staff. The applications shall be submitted on the prescribed form. These forms will be available at all N.C.C. Units.
 - e) Candidates who are considered prima facie suitable shall be required to appear before a Service Selection Board for interview and other tests.
 - f) Candidates to be finally selected should at least secure the minimum qualifying marks at the Services Selection Board. Subject to this condition and to their being declared medically fit, successful candidates shall be placed in the order of merit based on the total marks secured in the written examination and the Service Selection Board interview. The final selection shall be made in the order of merit up to the number of vacancies available.
- (iii) Candidates, finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. A sum of Rs. 35,000/- should be brought by them and deposited in the bank account, which they would be opening at the State Bank of India, Ezhimala branch, on arrival. Since it is a large amount, it is advised that they carry a demand draft payable to self. The deposit money would be used to meet the following expenditures:—
 - (a) Pocket/Personal expenses, Rs. 5,000/-
@ Rs. 1,000/- per month
 - (b) Expenses on Laundry, Civilian-bearer, Cinema, hair cutting and other sundry services Rs. 4,250/-
@ Rs. 850/- per month
 - (c) Expenses on stitching/purchase of Academy Blazer, Academy tie, Academy Mufti, Academy Sportswear, Jogging shoes, Jungle boots, Swimming Trunk/suits and Satchels. Rs.20,000/-
 - (d) Travelling expenses for proceeding to next duty station/home station Rs. 2,000/-
on leave on completion of Naval Orientation Course on return Journey at the end of the term.
 - (e) Insurance : A sum of Rs. 780/- non-refundable premium for a cover of Rs. 8 Lakhs is required to be paid by the candidate on reporting to the Naval Academy during the six months of training. An additional premium of Rs. 780/- would be payable for each relegated term.
- (iv) Training: Selected candidates may be appointed as cadets on reporting at the Indian Naval Academy.

The candidates shall remain under probation till completion of initial training which is as follows:-

- (a) Naval Orientation Course at INA, Ezhimala 44 weeks
- (b) Officers Sea Training at Training Ship 06 months
- (c) Sub-Lieutenant Afloat training 06 months
- (d) Sub-Lieutenant (Technical course) 32 weeks
- Afloat attachment for award of
- e) Full Naval watch-keeping Certificate 06-09 months

v) Commissioning & Other Benefits The cadets shall be commissioned in the rank of Sub-Lieutenant after successful completion of approximately 18 months of training. The careers prospects, leave benefits, leave and travel concession, pensionary/retirements benefits and all such perks and privileges provided to officers in the Navy is similar to those being provided by the two services.

(vi) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets of the Indian Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 1500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet financial assistance upto Rs. 140 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Principal Director of Manpower Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

Note : Further information, if desired, may be obtained from the Directorate of Manpower, Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. There are three modes of entry in F(P) Course viz. CDSE/NCC/Airmen. Candidates who apply for Air Force through more than one source will be tested/interviewed at Air Force Selection Boards only once for Air Force as well as other arms of services. Common candidate who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test as an NCC or Airmen candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTA only, if it is found that he has applied through CDS Exam., also.

2. Detailing for Training—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit list are prepared for Direct Entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at the Air Force Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs.

3. Training—The approximate duration of training for Flying Branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 74 weeks.

Insurance cover during Flying Training—(Rates are under revision).

Air Force Group Insurance Society would pay Rs. 1,00,000/- for a monthly contribution of Rs. 800/- pm as ex-gratia award to the next-of-kin of a flight cadet drawn from Civil life and undergoing flying training in an unfortunate eventuality. In case, flight cadet undergoing flying training is medically invalidated boarded out, he would be paid Rs. 20,000/- as ex-gratia award for 100% disability and this reduces proportionately upto 20%.

Cadets are authorised fixed stipend amounting to Rs. 21,000/- per month (Rs. 15,600/- pay in the pay band and Rs. 5,400/- as grade pay) during training. "On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service."

Once flight cadets are granted pay and allowances by government, the death cover would be Rs. 50,000/- and the disability cover would be Rs. 25,000/- for 100% disability. This cover would be provided by AFGIS on payment of monthly non-refundable contribution of Rs. 76/- by each flight cadet undergoing flying training for which membership would be compulsory.

Conditions governing Financial Assistance:

(i) While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Air Force

Academy are not likely to exceed Rs. 14,000/- (under revision) per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly/partly even this expenditure, financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 750/- or above per month would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance. The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately, after his son/ward has been finally selected for training at the Air Force Academy, submit an application through the District Magistrate of his district who will, with his recommendations, forward the application to the Commandant, Pre Flying Training Courses, Begumpet.

(ii) Candidates finally selected for training at the Air Force Academy will be required to deposit the following amount (under revision) with the Commandant on arrival:—

(a)	Pocket allowance for six months	Rs.840/-
	@ Rs. 140/- per month	
(b)	For item of clothing and equipment	Rs.1,500/-
	Total	Rs. 2,340/-

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned.

Pocket allowance for the six months	
@ Rs. 140/- per month—	Rs. 840/-

4. Career Prospects:

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of Flying Officer and will be entitled to the pay and allowances of the rank. Time scale promotions to the rank of Flight Lieutenant, Squadron Leader, Wing Commander and Group Captain are granted on completion of 2 years, 6 years, 13 years and 26 years of successful service respectively. Grant of Group Captain (select) and higher ranks is only by selections. Promising officers have a fair chance of getting higher promotions to air ranks—Air Commodore, Air Vice Marshal and Air Marshal.

5. Leave and Leave Travel Concession:

Annual Leave—60 days a year.

Casual Leave—20 days a year.

Officers are authorised encashment of Annual Leave upto 10 days alongwith LTC to the extent of a total 60 days in a career span to cover incidental expenses on travel.

Officers when proceeding on annual/casual leave, irrespective of its duration, is entitled for free conveyance from place of duty (unit) to home town and back once in the second year of his service for the first time and thereafter every alternate year to any place in India in lieu of home town or selected place of residence without any distance restriction.

In addition officers of Flying branch employed on regular Flying Duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave once every year on warrant a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms. for the forward and return journeys both inclusive.

Officers when travelling on leave at their own expenses are entitled to travel by entitled class or lower class on payment of 60 per cent of the fare for self, wife and children from unit to any place within India on 6 one-way journey Form 'D' in a calendar year. Two of these Form 'D' may be availed of for the entire family. In addition to wife and children family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

6. Pensionary Benefits:

Retiring Pension : The minimum period of qualifying service required for retiring pension is 20 years (without weightage). Retiring pension shall be calculated at 50% of the average of emoluments reckonable for pension (i.e. pay, rank pay and non-practicing allowance, if any) drawn by the officer during the last 10 months of his service or 50% of last pay drawn whichever is more beneficial. The retiring pension in no case shall be less than Rs. 3,500/- per month.

7. Retiring Gratuity :

Retiring Gratuity : The minimum period of qualifying service for earning retiring gratuity is 10 years (without weightage). The retiring gratuity shall be admissible at a uniform rate of half month's emoluments for each completed six monthly period of qualifying service. The emoluments for this purpose shall be pay, rank pay, dearness pay and non practicing, if any, stagnation/increment and DA.

8. Death-cum-Retirement Gratuity :

In addition to pension or gratuity a Death Gratuity, equal to 1/4th of emoluments for each completed six monthly period of qualifying service plus a weightage of 5 years subject to maximum of 16½ times of the emoluments not exceeding Rs. 10.00 lakhs is admissible.

9. In case of death while in service the amount of gratuity will be as follows:—

- (a) two months pay, if death occurs in the first year of service.
- (b) six months pay, if death occurs after the first year but before completion of five years.
- (c) minimum of 12 months pay, if death occurs after five years but before completion of 20 years.
- (d) If death occurs after 20 years or more, one month pay for each year of service to a minimum 12 months pay and maximum 33 months pay. Further subject to the condition that the amount of Death-cum-retirement gratuity shall in no case exceed Rs. 10.00 lakhs.

Disability pension and Special Family Pensionary awards, including awards to children and dependents (parents, brothers and sisters), are also payable in accordance with the prescribed rules.

10. Other Privileges :

The officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI

1. Before the candidate join the Officers Training Academy Chennai.

- (a) He/she will be required to sign a certificate to the effect that he/she fully understands that he/she or his/her legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he/she may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him/her for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.
- (b) His/her parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his/her control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training Academy, he/she will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training Academy, for an approximate period of 11 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen/Lady Cadets. Gentlemen/Lady Cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training Academy.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

The minimum expenses during the pre commission training are not likely to exceed Rs. 200/- per month but if the cadets pursue, any hobbies such as photography, shikar, hiking etc. they may require additional money. In case however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his/her parent/guardian, have an income below Rs. 1500 per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of his/her district who will forward the application to the Commandant, Officers' Training Academy, Chennai alongwith his/her Verification report.

4. Candidates finally selected for training, at the Officers' Training Academy, will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival:

(a) Pocket allowance for three month @ Rs. 1,000 per month	Rs. 3,000/-
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 5,000/-
(c) Group Insurance Coverage for 02 months (AGIF)	Rs. 2,000/-
Total	Rs. 10,000/-

Out of the amount mentioned above the amount mentioned in (b) above is refundable to the Cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under order as may be issued from time to time. On being granted a commission, articles of clothing and necessities purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen/Lady Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training Academy.

7. On joining OTA, candidates will not be permitted to appear for any examination/interview, for any other type of commission/entry in the Army, Navy and Air Force or any other employment without resigning from the Academy and paying the cost of training. However, no cost of training including messing charges will be recovered from these Gentlemen Cadets, who may resign from the Officers Training Academy, Chennai to undergo pre-commission training at the Indian Military Academy, Dehradun or corresponding cadet training establishment in Navy and Air Force, if so selected.

8. A Gentleman/Lady Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of Government, be discharged after paying cost of training laid down by the Government of India. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

9. Training :

Selected candidates will be enrolled as Gentleman/Lady Cadets and will undergo a course of training at the Officers' Academy for an approximate period of 49 Weeks. On successful completion of training Gentleman/Lady Cadets are granted Short Service Commission in the rank of Lt. From the date of successful completion of training. University of Madras will award "Post Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies" to all cadets who successfully complete Pre-commissioning training at Officers Training Academy, Chennai.

10. Terms and conditions of Services :

(a) Period of probation:

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/her commission, he/she may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period. Candidates withdrawn from Officers' Training Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply.

(b) Posting :

Personnel granted Short Service Commission are liable to serve anywhere in India and abroad on selected appointments as decided by IHQ MOD (Army) from time to time.

(c) Tenure of Appointment:

Short Service Commission Officers (Male and Female) in the regular Army will be granted for 14 years i.e. for an initial period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male officers who are willing to continue to serve in the Army after the expiry of period of ten years Short Service Commission may, if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of permanent Commission in the 10th year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules.

Those SSC officers who are not selected for grant of PC but are otherwise considered fit and suitable, will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years (including the initial tenure of 10 years) on expiry of which they will be released from the Army". Women officers are not eligible for permanent commission. However, they can opt for extension of upto 14 years of service.

(d) Special Provision for Release for SSC on completion of 5th Year of Service:

SSC (Non-Tech) Male & Female Officers, other than those who undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialized course of such nature, who are desirous of leaving the service after completion of five years service may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs. for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval of such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSC (Non-Tech) Male & Female Officers who have undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialized course as prescribed is recovered from them. They will be required to execute a bond to this effect on being nominated for undertaking Degree Engineering Course/Special Course of such nature.

(e) Special Provisions during Extended Tenure:

During extended tenure, they will be permitted to seek release from the Army on the following grounds:—

- (i) Taking up civil Job.
- (ii) Pursuing higher education.
- (iii) Starting own business/joining family business.

(f) Substantive Promotion:

SSCOs male and female granted Short Service Commission under these rules will be eligible for substantive promotion as under :—

- | | |
|-------------------------------|--|
| (i) To the rank of Capt. | on completion of 2 years reckonable commissioned service. |
| (ii) To the rank of Major | on completion of 6 years reckonable commissioned service. |
| (iii) To the rank of Lt. Col. | on completion of 13 years reckonable commissioned service. |

(g) Mandatory Conditions:

Mandatory conditions for grant of above substantive ranks laid down for Permanent Commissioned officers as well as the eligibility, time limit and penalties for promotions exam Part B and D as applicable to permanent commission officers also be similarly applicable to SSCOs male and female.

h) Adjustment of Seniority:

To make adjustment for shorter training of SSC male and female vis-a vis PC officers, the seniority of SSC male and female officers will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of captain. The revised seniority will have no effect on the pay and allowances granted in the rank of Capt. Major and Lt.Col.

(i) Reckonable Commissioned Service:

Subject to provision of Para 10 (h) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or any summary award under the Army Act and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of his/her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/she would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date of grant of substantive rank.

(j) Leave:

For leave, officers will be governed by rules applicable to short Service Commission officers as given in Chapter IV of the Leave Rules for the Service Vol.I-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training Academy and before assumption of duties under the provision of the Rule 69 *ibid*. SSC women Officers will also be eligible for Maternity Leave as per SAL 1/S/92-S

(k) Termination of Commission

The Commission of an officer may be terminated at any time by the Government of India for the following reasons:-

- (i) For misconduct or if services are found to be unsatisfactory: or
- (ii) on account of medical unfitness; or
- (iii) if his/her services are no longer required or
- (iv) if he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving 3 months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(l) Terminal Gratuity:

SSCO recruited from civil side are entitled to terminal gratuity @ 1/2 months emoluments for each completed six monthly period of service.

(m) Reserve Liability:

On being released on the expiry of five years Short Service Commission or extension thereof they will carry a reserve liability for a period of five years or upto the age of 40 years whichever is earlier.

(n) Miscellaneous:

All other terms and conditions of service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)
New Delhi-110003, the 21st June 2016

No. O.II.3693/2016-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Sh. Sudeep Lakhtakia, IPS (TG:1984) as Additional Director General (Addl. DG) in CRPF on deputation basis in the HAG Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- from the date of joining of the post and upto 31.07.2019 (i.e. date of his retirement on superannuation) or till further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Additional Director General, CRPF on the forenoon of 20.06.2016.

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

No. O.II.4059/15-Pers-MOs—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Sharat Ranjan, Medical Officer/Asstt. Comdt of 203 CoBRA, Barhi [Hazaribagh] has been relinquished from the charge of his post in the afternoon of 8th June 2016. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 8th June 2016 (AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
New Delhi-03, the 27th June 2016

No. E-16015/DEP/PR-IPS/2016/Pers-II/1013—The President is pleased to appoint Smt. Princee Rani, IPS (TR:2005) as Commandant (SP Level) in Central Industrial Security Force (CISF) New Delhi in Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- on deputation basis for a period of four years with effect from the afternoon of 19.05.2016.

Sd/-ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) WEST BENGAL
Kolkata-700001, the 29th March 2016

No. Admn.I/1366-II/2015-2016/411—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote the following Accounts Officers to the higher functional Grade of Sr. Accounts Officer in the Pay Band 3 (Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-) with effect from 01.04.2016 (FN) or the date of their taking over charge whichever is later :—

Sl. No.	Name (Shri/Smt.)
1.	Jaya Chakraborty
2.	Milan Kumar Mondal
3.	Rajendra Prasad

[Authority A.G.'s order dated 22.03.2016]

M. MUKHERJEE
Dy. Accountant General (Admn.)

The 31st May 2016

No. Admn.I/1038-XXVIII/2016-2017/68—The Pr. Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Shri Provat Kumar Roy, Assistant Accounts Officer, to the post of Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- per month with effect from 01.06.2016 (FN) or the date of his taking over the charge, whichever is later.

The posting order will be issued separately.

[Authority: Pr. A.G's order dated 30.05.2016]

M. MUKHERJEE
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 30th June 2016

No. 5/1/2016-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001 = 100 increased by 4 points and stood at 275 (two hundred seventy-five) for the month of May, 2016.

SHYAM SINGH NEGI
Dy. Director General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 24th June 2016

No. 4452/SP./A-32013/SSO/DPC/2016/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Survey Officer on promotion on regular basis to the post of Senior Survey Officer in the Scale of Pay Band-3, (Rs. 15,600—39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned below against his name:

Name of the officer	Date of promotion to the post of Senior Survey Officer
Shri Pratik Roy Chowdhury	01.04.2016 (F/N)

T. R. DAS
Dy. Director (P&A)
For Director General, GSI

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

Mumbai-400026, the 1st June 2016

No. A-32014/02/2015-Est-I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Films Division has promoted Shri Sumay Mukherjee, Branch Manager, Films Division, Distribution Branch Office, Kolkata to the post of Senior Branch Manager Group 'B', Gazetted in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the same office with effect from the forenoon of 1st January, 2016 until further orders.

ASHOK A. SHINDE
Assistant Administrative Officer
For Director General

No. A-32014/01/2016-Est-I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Films Division has promoted Shri P. Ellappan, Editor, Films Division, Mumbai to the post of Chief Editor, Group 'B', Gazetted in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- in Films Division, Mumbai with effect from the forenoon of 10th May, 2016 until further orders.

ASHOK A. SHINDE
Assistant Administrative Officer
For Director General

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(NATIONAL TEST HOUSE)

Kolkata-91, the 14th June 2016

No. G-318/A(HQ) 2012/ADA—The Competent Authority is pleased to promote the following officers to the post of Administrative Officer (Grade-II), National Test House, on regular basis, until further orders, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- in PB-2, as per details mentioned against each:

Sl. No.	Name of the officers	Place of posting	Date of promotion
1.	Smt. Chandra Ganapathy	National Test House, WR, Mumbai	18.03.2016 (A/N)
2.	Smt. Mita Bhattacharyya	National Test House, ER, Kolkata	10.06.2016 (F/N)

SANKAR BOSE
Administrative Officer
For DG, NTH, Kolkata

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad-121001, the 27th May 2016

No. A-19024/2/2015-A.I—On attaining the age of superannuation Shri Shivraj Kumar, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Kanpur has retired from Government Service with effect from 30th April, 2016 (afternoon).

L. ANANTH
Under Secretary

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 16th June 2016

No. PD/7(5)/2015-R-IV/SO(D)/ETG/6826—The President is pleased to appoint the undermentioned Technical Officers Grade 'C' Pay Band of PB-3 ₹15600-39100 + Grade Pay ₹5400 of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade D in the Pay Band of PB-3 ₹15600-39100 + Grade Pay ₹6600, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2015 in an officiating capacity until further orders:-

Sl.No	Name of the officer
(1)	(2)
1	SHRI HARIOM SHARMA
2	SHRI AMRESH KUMAR JHA
3	SHRI YUVRAJ TUKARAM KUMBHAR
4	SHRI SHUKLA RAKESH RAMKAILASH
5	SHRI SATISH KUMAR BHARTI
6	SHRI VENUGOPAL KANNEGANTI
7	SHRI ABHILASH DWIVEDI
8	SHRI CHANGARAMKANDATH NARAYANAN SUNIL
9	SHRI SHIV PRATAP SINGH SOMVANSHI
10	SHRI SAHIRALAMKHAN MOHAMMED

Sl.No	Name of the officer
(1)	(2)
11	SHRI SIVAKUMAR SUBRAMANIAN
12	SHRI NITIN KUMAR SHARMA
13	SHRI S PARNNEER SELVAM
14	SHRI RAVI KUMAR PRAJAPATI
15	SHRI SURTI VIVEK JAYANTILAL
16	SHRI BRIJLESH KUMAR NAGAR
17	SMT DIVYALAKSHMI SAINI
18	SHRI SHARAD KUMAR VERMA
19	SHRI PURUSHOTTAM TUKARAM GHARE
20	SHRI SHUDHODHAN SHAMRAOJI GEDAM
21	SHRI SHASHI KANT TIWARI
22	SHRI BASANT PRASAD SAO
23	SHRI SANJEEV SINGH

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(5)/2015-R-IV/SO(D)/ETG/6827—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade ‘C’ Pay Band of ₹15600-39100 + Grade Pay ₹5400 of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade ‘D’ in the Pay Band of ₹15600-39100 + Grade Pay ₹6600, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders:

Sl.No	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
1	SHRI ASIM KUMAR DAS	01/07/2015
2	SHRI SRIJAN KUMAR	01/07/2015
3	SHRI KANTILAL DEVIDAS BHOSALE	01/07/2015
4	SHRI RAJESH KUMAR JAISWAL	01/07/2015
5	SHRI BHOLANATH SINGH	01/07/2015
6	SMT ADITI ARUN DALVI	01/07/2015
7	SHRI SANJAY SINGH	01/07/2015
8	SHRI SOMANANDA SAHOO	01/07/2015
9	SHRI SRUTARSHI BANERJEE	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
10	SHRI ROMESH CHANDRA	01/07/2015
11	SHRI SAJID AHMAD	01/07/2015
12	SHRI SHUBHARJEET TIWARI	01/07/2015
13	SHRI ADITYA NANDAN SAVITA	01/07/2015
14	SHRI VAIBHAV VASANT TELAVANE	01/07/2015
15	SMT SURABHI CHANDRA	01/07/2015
16	SHRI AJAY KUMAR	01/07/2015
17	SHRI KHUNT CHETANKUMAR SHAMJIBHAI	01/07/2015
18	SHRI RAVITEJA CHILUKURI	01/07/2015
19	SHRI SHIVA KUNCHARAPU	01/07/2015
20	SHRI MOHSIN JAFAR	01/07/2015
21	KUM SAHU POOJA	01/07/2015
22	SHRI PRASHANT KUMAR	01/07/2015
23	KUM PRIYANKA WADHAWAN	01/07/2015
24	SHRI UDAI GIRI PRATAP SINGH SACHAN	01/07/2015
25	SHRI BRAJESH KUMAR JHA	01/07/2015
26	SHRI SAURABH GUPTA	01/07/2015
27	SHRI ROHIT SHARMA	01/07/2015
28	SHRI EKNATH MISHRA	01/07/2015
29	SHRI RAJESH BABAU	01/07/2015
30	SHRI PATEL GAURAV MAHENDRA	01/07/2015
31	SHRI BUDDHADEV KANRAR	01/07/2015
32	SHRI SINALKAR NITIN MARUTI	01/07/2015
33	SHRI ARVIND KUMAR MAHTELE	01/07/2015
34	SHRI ABHISHEK SHARMA	01/07/2015
35	SHRI SANDESH K AVADHANI	01/07/2015
36	KUM BHOIR SHRADDA ANANT	01/07/2015
37	SMT APARNA SUSHANT PATIL	01/07/2015
38	SMT SHOBHA SINGAVELAN	01/07/2015
39	SHRI ANIL RAVINDRA KHOT	01/07/2015
40	SHRI TUMMALAPALLI RAGHU NATH	01/07/2015
41	SHRI NARASIMHA NATH VEETURI	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
42	KUM MOUSHUMI DATTA CHAUDHURY	01/07/2015
43	SHRI KRUNAL ANANTKUMAR MISTRY	01/07/2015
44	SHRI NAGARAJU BALA VENKATA SUBRAHMANYAM	01/07/2015
45	SHRI NIRANJAN RATILAL PATEL	01/07/2015
46	SHRI ROUSHAN ABHISHEK	01/07/2015
47	SHRI PRAVEEN DUBEY	01/07/2015
48	SHRI NISHITH GHOSH	01/07/2015
49	SHRI BALU NARAYAN SHINDE	01/07/2015
50	SHRI RAJWARDHAN NANDRAM AMBADE	01/07/2015
51	SHRI SAROJ KUMAR	20/07/2015
52	SMT DIKSHA PANT	01/07/2015
53	SHRI SITANGSHU CHATTERJEE	01/07/2015
54	SHRI ARUP KUMAR HUDAIT	01/07/2015
55	SHRI HARI KRISHNA SADHANALA	01/07/2015
56	SHRI PUNEET TIWARI	01/07/2015
57	SHRI RUSHAL SHAH	01/07/2015
58	SHRI ANIL SADANANDA NAYAK	01/07/2015
59	SMT VANDANA CHATURVEDI MISRA	01/07/2015
60	SHRI TUSHAR SHARMA	01/07/2015
61	SHRI RUPENDRA SINGH	01/07/2015
62	DR PADMAKAR DEORAO UGHADE	01/07/2015
63	DR (SMT) SHAILAJA SANJAY MADAKE	05/08/2015
64	SHRI KURVA JAGANNATH	01/07/2015
65	DR VISHAL UTAMRAO PATIL	04/07/2015
66	SHRI ASHUTOSH ANAND	01/07/2015
67	SHRI RASHBIHARI RUDRA	01/07/2015
68	SHRI ASHWANI KUMAR SHARMA	01/07/2015
69	SHRI TANDALAM SWAMINATHAN NIKHILESH IYER	01/07/2015
70	SHRI BARIBADDALA RAVI	01/07/2015
71	KUM SHEFLI BAJPAI	01/07/2015
72	SHRI ABHIJIT SHALIGRAM SHITRE	01/07/2015
73	SHRI DHANASEKAR PUNNIYAMOORTHY	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
74	SHRI BALVANT DHANIRAM THAKUR	01/07/2015
75	SMT SHEETAL KSHITIJ RAUT	01/07/2015
76	SHRI SACHIN SUDHAKAR PATHAK	01/07/2015
77	SHRI AMIYA RAOY	01/07/2015
78	SHRI AMIT KAUSHAL	01/07/2015
79	SHRI RINSON ANTONY THEKKETHALA MANUEL	01/07/2015
80	SHRI RAVEENDRAN K	01/07/2015
81	SHRI ABHIJIT SAHA	01/07/2015
82	KUM BABITA SINGH	01/07/2015
83	SHRI SURAJ KALANRAO MUKADE	01/07/2015
84	SHRI ANJAN REDDY KASIREDDY	01/07/2015
85	SHRI REHAN RAZA	01/07/2015
86	SHRI GANESH VYTHILINGAM	01/07/2015
87	SHRI MD TIPU SULTAN	01/07/2015
88	DR MANOJKUMAR KEDARNATH KOTekar	01/07/2015
89	SHRI SUBBIAN ASARI SATHESH KUMAR	01/07/2015
90	SHRI PRAVEEN VIJAYAKUMAR	01/07/2015
91	SHRI SUMIT KUMAR NAYAK	01/07/2015
92	DR UDAYAGIRI KASIM VILLI	01/07/2015
93	SHRI JITHU PAYYADAKKAN GOVINDAN	01/07/2015
94	SHRI KSHITIZ VASHISTHA	01/07/2015
95	SHRI NITIN RAMESH KAKADE	01/07/2015
96	SHRI RAHUL KUMAR CHAUDHARY	01/07/2015
97	KUM USHA YADAV	01/07/2015
98	SMT LABONI DAS	01/07/2015
99	SHRI DASARADHI DIVVELA	01/07/2015
100	SHRI GAURAV KHANDELWAL	01/07/2015
101	SHRI ASWIN SATHYAKUMAR PRABHU	01/07/2015
102	SHRI ANMOL SINGH	01/07/2015
103	SMT ANINDITA SARKAR	01/07/2015
104	SHRI DEEPENDRA SINGH	01/07/2015
105	SHRI VIJAYA KUMAR V	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
106	SHRI TANUMOY MUKHERJEE	01/07/2015
107	SHRI ABHISHEK MISHRA	01/07/2015
108	SMT BELLA ELIZABETH JOHNSON	01/07/2015
109	SHRI SAJIN PRASAD S	01/07/2015
110	SMT SUPREETHA PRAVEEN PRABHU	01/07/2015
111	SHRI ASHUTOSH GUPTA	01/07/2015
112	SMT SREEJA RAJ MENON	01/07/2015
113	SHRI AVIK DAS	01/07/2015
114	SHRI TUSHAR KANTI PAL	01/07/2015
115	SHRI JASPREET SINGH	01/07/2015
116	SHRI ANIL SHARMA	01/07/2015
117	SHRI BHUSHAN GUPTA	01/07/2015
118	SHRI KESHAV KUMAR JHA	01/07/2015
119	SHRI GAURAV SAVLA	01/07/2015
120	KUM AMRITA DHARA	01/07/2015
121	SHRI NABIULLAH KHAN	01/07/2015
122	SHRI MANOJ KUMAR MITTAL	01/07/2015
123	SHRI SATHEESH KUMAR S	01/07/2015
124	SHRI GANGIDKIRAN KUMAR REDDY	01/07/2015

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(4)/2016-R-IV/SO(E)/ETG/6828—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers/Engineers Pay Band of ₹15600-39100 + Grade Pay ₹6600 of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the Pay Band of ₹15600-39100 + Grade Pay ₹7600, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders:

Sl.No	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
1	SHRI KANTHAVEL SUBBARAYAL	01/07/2015
2	SHRI GITENDER SINGH	01/07/2015
3	SHRI ABHISHEK KUMAR	01/07/2015
4	SHRI PRASHAL MAHADEO KHOT	01/07/2015
5	SHRI NISHANT CHAUDHARY	01/07/2015
6	SMT SHREYA GHATAK SARKAR	01/07/2015
7	SMT GOYAL ANITA H	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
8	SHRI KRISHNA KUMAR SINGH	01/07/2015
9	SHRI GOPAL KRUSHNA DAS	01/07/2015
10	SMT KSHAMA KUNDU	01/07/2015
11	DR AJISH KUMAR K S	01/07/2015
12	SMT PREETHA JAYAPRAKASH	01/07/2015
13	SHRI GARNEPUDI RAJASEKHAR	01/07/2015
14	SHRI ABHISHEK BAJPAI	01/07/2015
15	SHRI LALIT DAGRE	01/07/2015
16	SMT NEHA SINGH	01/07/2015
17	SHRI ARVIND THAMPI	01/07/2015
18	SHRI ATUL KUMAR SINGH	01/07/2015
19	SHRI SWAGATO CHAKROBORTY	01/07/2015
20	SHRI HARIMOHAN EASWAR IYER	01/07/2015
21	SHRI MAHESH KUMAR SUBRAMANIAN	01/07/2015
22	SHRI NAGA RAM	01/07/2015
23	SHRI RAMTEKE ARVIND CHUDAMAN	01/07/2015
24	DR JAYAKUMAR O D	01/07/2015
25	DR DAS SOUMITRA	01/07/2015
26	DR PHADNIS PRASAD PADMAKAR	01/07/2015
27	SHRI SANDIP BHOWMICH	01/07/2015
28	SHRI ANIL BODA	01/07/2015
29	SHRI SAURABH KUMAR SINGH	01/07/2015
30	SMT INDIRA SUGUNAN NAIR	01/07/2015
31	SHRI MUNENDRA SINGH	01/07/2015
32	SHRI YOGESH R SAGANE	01/07/2015
33	SHRI SAI KIRAN KAZA	01/07/2015
34	SHRI SUNIL BHALKE	01/07/2015
35	SHRI SHIV RAJ SARAN	01/07/2015
36	SHRI SHISHIR KUMAR SINGH	01/07/2015
37	SHRI ABHISHEK JAJU	01/07/2015
38	SHRI SHASTRAKAR RAMESH SHANKAR	01/07/2015
39	SHRI ANURAG SAWHNEY	01/07/2015
40	SHRI KOLLA HARI PRASAD	01/07/2015
41	SMT KRISHNA SHEKHAWAT	01/07/2015
42	SHRI RAJIV KUMAR VERMA	01/07/2015
43	SHRI GAURAV BALUNI	01/07/2015
44	SHRI SIDDHARTHA SHANKAR PANY	01/07/2015
45	SHRI SUKANTA MAITY	01/07/2015
46	SHRI JAI PRAKASH	01/07/2015
47	SHRI ROHAN ANIL PHATAK	01/07/2015
48	SHRI PALLAPOTU RAMA MOHANA RAO	06/07/2015
49	SHRI SANJAY KUMAR PATHAK	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
50	SMT POLUMI CHAKRABORTY SRIVASTAVA	01/07/2015
51	SMT JYOTI TRIPATHI	01/07/2015
52	SMT MEENU PRASHER	01/07/2015
53	DR PURNANANDA NANDI	01/07/2015
54	SMT LETHA SEBASTIAN	01/07/2015
55	SHRI P SUNDARA RAJAN	01/07/2015
56	SHRI AMOL MADHUKAR SHINDE	01/07/2015
57	DR RAJESH KUMAR	01/07/2015
58	SHRI DEEPAK KUMAR	01/07/2015
59	SHRI SABYASACHI PAUL	01/07/2015
60	SHRI SABYASACHI ROUT	01/07/2015
61	SHRI DIBYENDU BANDYOPADHYAY	01/07/2015
62	SMT SHERRY ROSILY	01/07/2015
63	SHRI JOSE VETTIYANKAL MATHEW	01/07/2015
64	SHRI SUDIN SHARMA	01/07/2015
65	SHRI SANDIP BALASAHEB BHALERAO	01/07/2015
66	SHRI ARYA DAS	01/07/2015
67	SHRI SHUNMUGA SUNDRAM ANAYARKONE THANNAMMAL	01/07/2015
68	SHRI SHYJU RAMACHANDRAN	01/07/2015
69	SHRI RAMADURAI M V	01/07/2015
70	DR RAJAGOPAL SATHIYA NARAYANAN	01/07/2015
71	SHRI SUNIL MADAYIL VELAYUDHAN	01/07/2015
72	SHRI JOHNSON CHACKALAKKAL GEORGE	13/07/2015
73	SMT NAGARAJAN PRABADEVI	01/07/2015
74	SHRI SANJAY KUMAR CHHABDA	01/07/2015
75	SMT NIRUPAMA TIWARI	01/07/2015
76	SHRI SANDEEP KUMAR AGARWALLA	01/07/2015
77	SHRI PIJUSH KANTI MANDAL	01/07/2015
78	SHRI SIBA PRASAD SAHOO	01/07/2015
79	DR SMT ALKA GUPTA	17/07/2015
80	DR KUM JAMUNA H KURKUNDI	01/07/2015
81	DR KARANKALE RAJU GOKUL	01/07/2015
82	DR UDAY BHAJABAL THAKRE	01/07/2015
83	DR SMT RAJI TEJA NAIDU	01/07/2015
84	SHRI ANCHAL SOHANEY	01/07/2015
85	SHRI MADHUKAR ANNA ACHAREKAR	01/07/2015
86	SMT AMRITA DAS	01/07/2015
87	SMT SAROJ BISHNOI	01/07/2015
88	SHRI MANISH PANDEY	01/07/2015
89	SHRI BHANU PRAKASH SANDAKA	01/07/2015
90	SMT YERROJU SUNITHA	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
91	SHRI SIBHA PRASAD BEHERA	01/07/2015
92	DR SOMSUNDAR MUKHOPADHYAY	01/07/2015
93	SHRI RAJESH KUMAR	01/07/2015
94	SHRI SUBHASH MAHADEO PAWAR	01/07/2015
95	SHRI DEBABRATA CHATTARAJ	01/07/2015
96	SHRI PRABHAT RANJAN	01/07/2015
97	SHRI AMBRISH KUMAR MISRA	01/07/2015
98	SHRI K PADMANABAN	01/07/2015
99	SHRI L CASIMIR SAGAYARAJ	01/07/2015
100	SHRI HARISH R	06/07/2015
101	SHRI VIVEKCHANDRA GURUPRASAD MISHRA	01/07/2015
102	SHRI VINAY JAIN	01/07/2015
103	SHRI DATTAPRASAD RAVAJI PRABHU	01/07/2015
104	SHRI JAGANNATH PANDURANG NARVEKAR	01/07/2015
105	SHRI AMIT KUMAR MISHRA	01/07/2015
106	SHRI MAHESH BHAGWANDAS BAJAJ	01/07/2015
107	SHRI BABALU MOHAN LINGADE	01/07/2015
108	SHRI ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA	01/07/2015
109	SHRI PURNENDRA KUMAR VERMA	01/07/2015
110	SHRI KUMARASAMY J	01/07/2015
111	SHRI SUSHANTA KUMAR ROY	06/07/2015
112	SHRI RAUDAS SINGH	01/07/2015
113	SHRI KALLELY OUSEPH PAUL	01/07/2015
114	SHRI SWAGAT RAJPUT	01/07/2015
115	SHRI TEJASWI POORLUPADI	01/07/2015
116	SHRI VIJAY MOTIRAM BODALKAR	01/07/2015
117	SHRI SHIRISH ARVISN NADKARNI	01/07/2015
118	SHRI APURVA GULERIA	01/07/2015
119	SHRI VINAY KARANAM	01/07/2015
120	SHRI INDERJEET SINGH	01/07/2015
121	SHRI ANANT RAMCHANDRA MATHAKAR	01/07/2015
122	SMT MOHINI GULERIA	01/07/2015
123	SHRI AMIT KUMAR	01/07/2015
124	SHRI VIKRAM SHUKLA	01/07/2015
125	SHRI AGARWAL MAYANK	01/07/2015
126	SHRI TANAY MAZUMDAR	01/07/2015
127	SHRI GANGADHAR NAGNATH KALYANE	01/07/2015
128	SMT SRIDHAR THANAMANI	20/07/2016
129	SMT REKHA ANIKUMAR	01/07/2015
130	SHRI HARIMOHANAN PILLAY CHITILAMVEEDU MURALEEDHARAN	01/07/2015
131	SMT DEEPA ANILKUMAR	01/07/2015

(1)	(2)	(3)
132	SMT SHOBHA SHYAM GHODKE	01/07/2015
133	SHRI DEVENDRA B KULKARNI	01/07/2015
134	SHRI LOKPATI MISHRA	01/07/2015
135	SHRI SREEKANTH BATHULA	01/07/2015
136	SMT NEEKIMA KHARE	01/07/2015
137	SMT RASHMI BAID	01/07/2015
138	SMT REKHA P UPADHYE	01/07/2015
139	DR SUGAM KUMAR	01/07/2015
140	SHRI BRINDABAN MODAK	01/07/2015
141	DR MAHESH SUNDARARAJAN	01/07/2015
142	SHRI HARI KUMAR V	01/07/2015
143	KUM BISHUPRIYA NAYAK	01/07/2015
144	SHRI SAI VENKATA RAMANA AMBADIPUDI	01/07/2015
145	SHRI KAUSHIK DUTTA	01/07/2015
146	SHRI SUNIL KUMAR SAHU	01/07/2015
147	SHRI PRATHAP REDDY KASINA	01/07/2015
148	SHRI REJU K	01/07/2015
149	SMT RANITA BASU	01/07/2015
150	DR NIRANJAN S RAMGIR	01/07/2015
151	SHRI V RAGHUNATH	01/07/2015
152	SHRI TUSHAR VISHWANATH SAPKAL	01/07/2015
153	SHRI PANDIT DATTATRAY CHAVAN	01/07/2015
154	SHRI ARVIND KUMAR	01/07/2015
155	SHRI GHANSHYAM	01/07/2015
156	SHRI KAPIL CHATURVEDI	01/07/2015
157	SHRI YADAV MALLU BHIMA	01/07/2015
158	SHRI ASIF JAKERIA PATEL	01/07/2015
159	SHRI VIJAYKUMAR GAJANAN GAIKWAD	01/07/2015
160	SMT SOUDAMINI NANDAKUMAR	01/07/2015
161	SHRI BIJU THOMAS	01/07/2015

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(4)/2016-R-IV/SO(E)/ETG/6829—The President is pleased to appoint Shri Devendra Kumar Gulati, Station Officer/C Pay Band of ₹15600—39100 + Grade Pay ₹6600 of the Bhabha Atomic Research Centre as Station Officer/D in the Pay Band of ₹15600—39100 + Grade Pay ₹7600, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2015, in an officiating capacity until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(4)/2016-R-IV/SO(E)/ETG/6830—The President is pleased to appoint Shri Rajendrakumar Shivnarayan Agrahari, Deputy Chief Fire Officer / C Pay Band of ₹15600—39100 + Grade Pay ₹6600 of the Bhabha Atomic Research

Centre as Deputy Chief Fire Officer / D in the Pay Band of ₹15600—39100 + Grade Pay ₹7600, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2015, in an officiating capacity until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(4)/2015-R-IV/SO(E)/ETG/6831—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Kumar Sahu, Technical Officers grade 'D' Pay Band of ₹15600—39100 + Grade Pay ₹6600 of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officers Grade 'E' in the Pay Band of ₹15600—39100 + Grade Pay ₹7600, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2015, in an officiating capacity until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

The 21st June 2016

No. PD/9(1)/2015-R-IV/7080—The President is pleased to appoint Dr Gayatri Mohanto as Scientific Officer/D in the Pay Band of ₹15600—39100+6600 (Grade Pay) in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th May, 2016 until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT)

Mumbai-400094, the 14th June 2016

No. DCSEM/A/3(2467)/2016-Rectt./466—The President is pleased to appoint Smt. S. Komalavalli, Assistant Personnel Officer, (PB-2 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Administrative Officer-III in Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- from the forenoon of 08.06.2016 until further orders.

JAYASHREE S.
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 17th May 2016

No. HWB/R/1(35)/2016/2412—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Nirmala Ravikant Nikale, Private Secretary (NS) (Pay Band-2 ₹ 9,300—34,800/- with Grade Pay ₹4,600/-), Heavy Water Board, Mumbai to officiate as Senior Private Secretary in the Pay Band-2 ₹ 9,300—34,800/- with Grade Pay ₹4,800/- in Heavy Water Board, Mumbai from the forenoon of 12th April, 2016 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 31st May 2016

No. A. 19011/15/2012-E-II/III—On attaining the age of superannuation, Shri Gopal Singh, Deputy Director of Administration in DGCA stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2016.

PAVAN MALVIYA
Dy. Director Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(O/O REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies:—

New Delhi-110019, the 4th July 2016

No. ROC DELHI/MAR/2016/560(5)PUBL.FTE/6297—NOTICE IS HEREBY GIVEN UNDER SUB SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956 THAT THE NAME OF THE FOLLOWING COMPANY HAS THIS DAY BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANY IS DISSOLVED:—

SL NO	CIN	COMPANY NAME
1	U72200HR2011PTC043896	3ILOGIC-DESIGNS PRIVATE LIMITED
2	U72200DL2005PTC139177	A R R INFOTECH PRIVATE LIMITED
3	U45200DL2009PTC192969	A. R. INFRAARCH PRIVATE LIMITED
4	U52590DL2012PTC233436	A-1 TEleshopping PRIVATE LIMITED
5	U63000DL2014PTC263648	AADI JOURNEYS PRIVATE LIMITED
6	U65929DL2007PTC157278	AANCHAL PORTFOLIO SERVICES PRIVATE LIMITED
7	U15421DL2011PTC216438	ACCENT SUGAR PRIVATE LIMITED
8	U15549DL2009PTC187422	ACCORBEV (PUNJAB) PRIVATE LIMITED
9	U80900DL2010PTC211118	ACG EDUCATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	U60200DL2014PTC263917	ACM MARKETING PRIVATE LIMITED
11	U70100DL2011PTC215190	ADI HOMES PRIVATE LIMITED
12	U63013DL2013PTC250466	AEROSKY AVIATION PRIVATE LIMITED
13	U72200DL2000PTC108129	AGILITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
14	U18101DL2008PTC185037	AGS TEX FAB PRIVATE LIMITED
15	U51909DL2011PTC218624	AHK ENGINEERS PRIVATE LIMITED
16	U40101DL2011PTC216250	AIRVOICE SPACE ENERGY PRIVATE LIMITED
17	U27106DL2004PLC130753	AISHWARYA METALLOYS LIMITED
18	U70102DL2013PTC260567	AK PROPMART PRIVATE LIMITED
19	U74899DL1985PTC021767	AKAAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
20	U74140DL2003PTC119616	AKM AND PARTNERS MEDIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
21	U93000DL2010PTC206977	AKSHAY ANANT URJA PRIVATE LIMITED
22	U93000DL2010PTC205422	AKSK MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
23	U74140DL2013PTC256374	ALI CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
24	U74140DL2013PTC253965	ALPHA2OMEGA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
25	U85100DL2007PTC161937	AMA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
26	U51310HR2013PTC051340	AMARAH INDIA PRIVATE LIMITED
27	U63040HR2013PTC050913	AMBALIKA TRAVEL SOLUTION PRIVATE LIMITED
28	U70200DL2012PTC233874	AMG ESTATES PRIVATE LIMITED
29	U28129DL1981PTC011575	AMIT SEAL AND CONTAINERS PVT LTD
30	U74140DL2004PTC124097	ANANYA WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U15132DL2005PTC142164	ANG FOODS PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
32	U18101DL1997PTC090390	ANJALI DESIGNS PRIVATE LIMITED
33	U52322DL1999PTC100133	ANSHITA FABRICS PVT. LTD.
34	U55101DL2009PTC189913	ANVI HOTELS PRIVATE LIMITED
35	U72200HR2011PTC043177	APPLANE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
36	U36103DL2009PTC193325	APRELLA DESIGN PRIVATE LIMITED
37	U72200DL1996PTC076770	ARTI SOFT PRIVATE LIMITED
38	U80904DL2011PTC213081	AS BASIC EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U45202DL2001PTC113458	ASHUTOSH PROJECTS PRIVATE LIMITED
40	U80900HR2010PTC041639	ASPIRE FINEDUCATION PRIVATE LIMITED
41	U74999DL2012PTC234962	AT SECURITY PRIVATE LIMITED
42	U72200DL2004PTC126888	ATHDL DESIGN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED
43	U40106DL2014PTC274326	ATSIN TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
44	U74140DL2007PTC171438	AUDACIOUS BRIGHT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
45	U72900DL2015PTC286352	AUTCITY OVERSEAS PRIVATE LIMITED
46	U74140DL2013PTC257180	AUTOHEIM SOLUTION PRIVATE LIMITED
47	U70101DL2011PTC212552	AV PROPBUILD PRIVATE LIMITED
48	U72200DL2006PTC156877	AVEEVA SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
49	U51909DL2006PTC149547	AZTEC ENTERPRISE PVT. LTD.
50	U45204DL2009PTC191159	B B MINI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
51	U45200DL2006PTC156493	B M P ESTATE PRIVATE LIMITED
52	U74120HR2008PTC038625	B.T.S. EDUTECH PRIVATE LIMITED
53	U73100DL2011PTC215567	B3 RESEARCH INTELLIGENCE PRIVATE LIMITED
54	U72300DL2014PTC269066	BACKPACK LABS PRIVATE LIMITED
55	U40106DL2013GOI247564	BAIRA SIUL SARNA TRANSMISSION LIMITED
56	U51101DL2007PTC157336	BAIRNCO GRAPHICS PRIVATE LIMITED
57	U74899DL1985PTC022112	BALAJI SYSTEMS AND DEVICES PRIVATE LIMITED
58	U70109DL2006PTC154359	BAPA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
59	U18101DL2003PTC119830	BASIC FABRICS PRIVATE LIMITED
60	U74899DL1985PLC019895	BHAGWAT TEA PLANTATION LIMITED
61	U15134DL2005PTC140857	BHAGYALAXMI FRUITS PRIVATE LIMITED
62	U74120DL2008PTC176719	BHOLE SHANKAR PROMOTERS PRIVATE LIMITED
63	U74999DL2011PTC227752	BIZGROW NETWORK PRIVATE LIMITED
64	U74140DL2014PTC269242	BLUE CIRCLE INFOTECH PRIVATE LIMITED
65	U72901DL2006PTC148951	BLUECHIP INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED.
66	U74999DL1999PTC102517	BOMIN SOLAR RESEARCH INDIA PRIVATE LIMITED
67	U45400DL2013PTC261552	BRICKLANE BUILDCON PRIVATE LIMITED
68	U74140DL2011PTC213453	BUILDCORP PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
69	U51909DL1996PTC079762	BUXANI EXIM PRIVATE LIMITED
70	U74899DL1999PTC099671	CANERON CONCRETE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
71	U85100DL2014OPC270013	CANTON PHARMA OPC PRIVATE LIMITED
72	U74210DL1997PTC091267	CAREER CATALYST PRIVATE LIMITED
73	U00000DL1988PTC031258	CHADHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
74	U52100DL2013PTC259359	CHANDGI RAM NAWAL KISHORE PRIVATE LIMITED
75	U74899DL1987PTC021843	CHANDRIKA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
76	U36103DL2009PLC190632	CHEVERE PHARMASYS LIMITED
77	U74140DL2011PTC218663	CHIC MODEL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
78	U72300HR2010PTC041106	CODEGEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
79	U31401HR2013PTC050388	COLD FUSION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
80	U74899DL1992PLC047711	CONTINENTAL EXIM LIMITED
81	U15132DL2011PTC214755	CORIANDER FOODS PRIVATE LIMITED
82	U72200DL2007PTC161392	CORNERREVERIE CONSULTING PRIVATE LIMITED
83	U36102DL2005PTC139586	CP IRON FURNITURE PRIVATE LIMITED
84	U80302DL2008PTC178873	CREDENCE CENTRE OF LEARNING PRIVATE LIMITED
85	U52100DL2007PTC166597	CRIMSON COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
86	U34101DL1999PTC101756	CRISS CROSS TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED.
87	U74899DL1981PTC011663	D S RELIANCE BUILDERS AND ENGINEERS PVT LTD
88	U74900DL2010PTC208552	DAMINI FOREX PRIVATE LIMITED
89	U52390DL2012PTC243126	DANKE ONLINE TRENDS PRIVATE LIMITED
90	U33110HR2010PTC041423	DAWAR LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
91	U72200DL2005PTC137933	DEITY SOFTWARE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
92	U74900DL2011PTC225647	DE-SPACIFIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
93	U45200HR2013PTC049413	DEWAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
94	U74899DL2006PTC144425	DHAMIJA BUILD WELL COMPANY PRIVATE LIMITED
95	U72200DL2005PTC135980	DIAMOND SOFTWARE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
96	U74900DL2015PTC286171	DIFFQ INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
97	U74900DL2009PTC196667	DIGITOONZ MULTIMEDIA STUDIOS PRIVATE LIMITED
98	U64200DL2008PTC177967	DIVERSE TELECOM INDIA PRIVATE LIMITED
99	U70109HR2013PTC050093	DIVINE DIMENSIONS REALTORS PRIVATE LIMITED
100	U45200DL2006PTC154437	DNB PROPERTIES PRIVATE LIMITED
101	U63040DL2015PTC276487	DOMAKUMA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
102	U24296DL2012PTC243959	DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
103	U72200DL2005PTC132716	DVS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
104	U51311DL2002PTC116269	EASTERN BASE EXPORTS PRIVATE LIMITED
105	U74140DL2010PTC202979	ECOSHAKTI ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
106	U63000DL2011PTC222938	ELEPHANT GOD HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
107	U51505DL2003PTC118987	ELOQUENT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
108	U22219DL2010PTC203256	ELPIS PRESS PRIVATE LIMITED
109	U74920DL2010PTC199921	ELR SECURITY PRIVATE LIMITED
110	U93000DL2011PTC226579	EMIKO SERVICES PRIVATE LIMITED
111	U34102DL2013PTC250447	ENCO AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
112	U24232DL2009FTC187488	ENDOGENX INDIA PRIVATE LIMITED
113	U74900DL2011PTC223284	ENPEETECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
114	U74900DL2010PTC211489	EUROPA BUSINESS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
115	U92413DL2014PTC271158	EYE SPORTS MEDIA PRIVATE LIMITED
116	U74899DL1977PTC008666	FALCON ELECTRONICS CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
117	U60231DL1999PTC102184	FAST TRACK TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED.
118	U51109DL2008PTC172211	FCPL BUY BIZ SELL BIZ PRIVATE LIMITED
119	U52100DL2015PTC276827	FETLOCK TRADING PRIVATE LIMITED
120	U80302DL2011PTC213183	FORTUNE EDUCATION SERVICES & TRAINING PRIVATE LIMITED
121	U92190DL2007PTC171865	FUSION SOUNDSCAPE PRIVATE LIMITED
122	U72300DL2008PTC178087	G.K.G. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
123	U80302HR2008PTC038624	G.M.S. EDUTECH PRIVATE LIMITED
124	U74140DL2015PTC276090	GAGNANT TRADERS PRIVATE LIMITED
125	U45200DL2008PTC178761	GALAXY INFRATECH PRIVATE LIMITED
126	U74140DL2014PTC264961	GALLANT E-ACCESS PRIVATE LIMITED
127	U51433DL1997PTC089379	GAYLORD POLYMERS PRIVATE LIMITED
128	U74999DL2014PTC269871	GCV CONSULTING PRIVATE LIMITED
129	U74899DL1995PLC073740	GEE NEE IMPEX LIMITED
130	U74140DL2009PTC191729	GENERGY BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
131	U72300DL2009PTC189496	GENKEY INDIA PRIVATE LIMITED
132	U60200DL2010PTC200010	GFI TRANSPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
133	U51909DL2009PTC190769	GIRIWAR SHYAM TRADELINKS PRIVATE LIMITED
134	U74140DL2012PTC241311	GLOBAL MONGERS PRIVATE LIMITED
135	U22130DL2012PTC246213	GLOBALAGE INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
136	U72300DL2015PTC286315	GO AUTO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
137	U93000DL2013PTC250800	GOLDEN GRAFFITI PRIVATE LIMITED
138	U85195DL1988PLC034085	GOURI DIAGNOSTICS AND CANCER RESEARCH LIMITED
139	U55101DL2013PTC253010	GOVERDHAN HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
140	U70109DL2012PTC243792	GOVINDAJEE LANDPROP PRIVATE LIMITED
141	U45400DL2011PTC213621	GRAND PEAK GARANTI KOZA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
142	U36911DL2013PTC255982	GREEN METALS PRIVATE LIMITED
143	U70101HR2010PTC041006	GREEN PLANET BUILDCON PRIVATE LIMITED
144	U72200DL2008PTC178348	GRS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
145	U45400DL2009PTC195156	GSM BUILDTECH PRIVATE LIMITED
146	U55204DL2005PTC143727	GSP AQUA BELLE PRIVATE LIMITED
147	U45204DL2012PTC234080	GURGAON LIFESPACES PRIVATE LIMITED
148	U45400DL2012PTC237283	GURUDEV INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
149	U74994DL2011PTC220174	H & V CREATIONS PRIVATE LIMITED
150	U51909DL2006PTC145359	H.S.C. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
151	U92100DL2011PTC223547	HAMMER AND TONGS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
152	U74899DL1980PTC010522	HANU OVERSEAS PVT LTD
153	U74899DL1995PTC066451	HAPPY LUCK WOOLTEX PRIVATE LIMITED
154	U93000DL2013PTC260896	HARAHIND SERVICES PRIVATE LIMITED
155	U15400DL2010PTC198031	HARI RAM RAM BABU HALWAI PRIVATE LIMITED
156	U45400DL2013PTC255988	HARMONY INFRASPACE PRIVATE LIMITED
157	U19100DL2013PTC255369	HEAVENLY FEET PRIVATE LIMITED
158	U74899DL1995PTC069400	HEMKUND HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
159	U17120DL2010PTC200367	HILL EXPORTS PRIVATE LIMITED
160	U74300DL2004PTC125864	HIMALAYAN ADVERTISING PRIVATE LIMITED
161	U25190DL2009PTC189749	HNM TECHNO PLAST PRIVATE LIMITED
162	U45400HR2011FTC042137	HOCHTIEF CONCESSIONS INDIA PRIVATE LIMITED
163	U70101DL2007PTC157516	HOME BIRD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
164	U74140DL2006PTC146981	HR ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
165	U74990DL2015OPC277595	HRJ BROKING SERVICES OPC PRIVATE LIMITED
166	U74900DL2009PTC195026	HUNGAMA FILMS PRIVATE LIMITED
167	U74140DL2008PTC183958	I.S. ADVISORS PRIVATE LIMITED
168	U74995DL2012PTC242180	IAN HR STRAIGHT PRIVATE LIMITED
169	U22120DL2011FTC223761	IHT PUBLISHING (INDIA) PRIVATE LIMITED
170	U51900DL2013PTC250618	INDEEZ TRADELINKS PRIVATE LIMITED
171	U74900DL2010PTC200022	INDEO TRAVELS PRIVATE LIMITED
172	U01403DL1995PLC071548	INDO GLOBAL BIOTECH LIMITED
173	U51103HR2007PTC037352	INDUSTEEL PLATES INDIA DELHI PRIVATE LIMITED
174	U74900DL2013PTC253640	INNERLIGHT PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
175	U32201DL2014PTC264580	INNOVATIVE ESOLUTION PRIVATE LIMITED
176	U33115DL2005PTC134423	INTERNATIONAL REHAB PRIVATE LIMITED
177	U74140DL2008PTC172688	IT COMNET TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
178	U15139DL2010PTC207498	J D FEEDS PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
179	U74899DL2005PTC141715	J M J W BUTTONS PRIVATE LIMITED
180	U74120DL2009PTC196603	J.J FILM & MEDIA PRIVATE LIMITED
181	U17291HR2007PTC037269	JATIN LOOMTEX PRIVATE LIMITED
182	U74999DL2007PTC163045	JOHN MURRAY CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
183	U80900DL2010PTC211109	JPA EDUCATION PRIVATE LIMITED
184	U45400DL2008PTC181977	JRD BUILDESTATES PRIVATE LIMITED
185	U45400DL2008PTC182000	JRD BUILDTECH PRIVATE LIMITED
186	U45201DL2008PTC182006	JRD TECHNOBUILD PRIVATE LIMITED
187	U74140DL2008PTC174334	JUSTPLAINANDSIMPLE CONSULTING PRIVATE LIMITED
188	U74899DL1995PTC068682	K M GANDHI EXPORTS PRIVATE LIMITED
189	U55209DL2013PTC257511	KAMALKAKRI CAFE PRIVATE LIMITED
190	U45203DL2012PTC238086	KAMTESHWAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
191	U36911DL2005PTC137012	KARMA CHAMELEON JEWELS PRIVATE LIMITED
192	U51909DL2012PTC244167	KAS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
193	U24233DL2010PTC206805	KASH CHEM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
194	U74900DL2013PTC248202	KAYA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
195	U70109DL2006PTC149845	KCB BUILDWELL PRIVATE LIMITED
196	U51109DL2010PTC201466	KEDARNATH TRADEX PRIVATE LIMITED
197	U74140DL2004PTC126758	KIA ORA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
198	U70109DL2013PTC251528	KIZUNA INDO STRUCTURES PRIVATE LIMITED
199	U67120DL1999PTC101891	KPS TEX-KNIT PRIVATE LIMITED.
200	U74140HR2011PTC052384	KRATOS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
201	U74120DL2009PTC196322	KRIPA DRISHTI CREATIONS AND TRADING PRIVATE LIMITED
202	U22122DL1997PTC089904	KUSUM PUBLISHING SERVICES PRIVATE LIMITED
203	U51909DL2010PTC203424	L. P. J. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
204	U51311DL2004PTC130054	LEELA DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED
205	U31500DL2010PTC202353	LEGERO ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
206	U51101DL2013PTC261232	LENNISTERS SALES PRIVATE LIMITED
207	U80903DL2011PTC213194	LIFELONG EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
208	U01134HR1997PTC033694	LIRA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
209	U21092DL2009PTC192130	LNG PAPERS PRIVATE LIMITED
210	U80900DL2010PTC211107	LOGICAL EDUCATION PRIVATE LIMITED
211	U74140DL2009PTC196801	LSJ CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
212	U52100DL2015PTC281175	LUMAX BUSINESS PRIVATE LIMITED
213	U30008DL1999PTC099143	M. C. ELECTRONICS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
214	U93000DL2009PTC192782	M.M. SECURITY EXHIBITIONS INDIA PRIVATE LIMITED
215	U29292HR2011PTC043430	MACHINO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
216	U70200DL2010PTC201382	MADHAV BUILD MART PRIVATE LIMITED
217	U45201DL2006PTC147499	MAGPPIE PROMOTERS PRIVATE LIMITED
218	U24233DL2009PTC191720	MAHABALI HANUMAN AUTO & PAINTS PRIVATE LIMITED
219	U17200DL2010PTC206802	MAHANIDHI CARPETS PRIVATE LIMITED
220	U72900DL2013PTC251713	MAJAKAR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
221	U45400DL2014PTC270994	MAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
222	U36101DL2005PTC139350	MANJU FURNITURE PRIVATE LIMITED
223	U80903DL2006PTC145150	MANVIK INSTITUTE LINC PRIVATE LIMITED
224	U51100DL2013PTC248121	MAPP ZESTHA GREEN BUILDING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
225	U55101DL2009PTC193580	MARHABA HOSPITALITY RETAIL PRIVATE LIMITED
226	U55101HR2011PTC043418	MARYLAND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
227	U01403DL2011PTC217892	MASK INTEGRATED AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
228	U74999DL2012PTC246011	MASTEC FALCON FOXCODE INDIA PRIVATE LIMITED
229	U74140DL2014PTC273507	MAVIN BON CONSEILS PRIVATE LIMITED
230	U34300DL2010PTC208227	MAYU AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
231	U15312DL2003PTC122954	MDR AGRO PRIVATE LIMITED
232	U72300DL2008PTC183719	MEALPUNDIT WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
233	U24200HR2012PTC045349	MEDIZYNE PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
234	U25209DL2014PTC270327	MERXO POLYMER PRIVATE LIMITED
235	U72900DL2008PTC181140	MG WEBTECH PRIVATE LIMITED.
236	U72900HR2012PTC046065	MHO SERVICES PRIVATE LIMITED
237	U51909DL2015PTC281159	MINDAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
238	U74900DL2012PTC243037	MITHRAS FACILITIES PRIVATE LIMITED
239	U29253DL2012PTC245213	MIT'S CHAINS PRIVATE LIMITED
240	U74999DL2014PTC264225	MOON MEDITRAVEL INDIA PRIVATE LIMITED
241	U93000DL2009PTC186812	MSZ INNOVATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.
242	U80904DL2011PTC224641	MUDRIKA EDUCATION PRIVATE LIMITED
243	U45204DL2011PTC227627	MUKUND COLONIZERS PRIVATE LIMITED
244	U70101DL2005PTC142782	MYNAH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
245	U72900HR2012PTC047124	MYVA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
246	U74899DL1989PTC037429	N C AGRO ESTATES PRIVATE LIMITED
247	U72900HR2010PTC040472	NAAN CONNECT9 PRIVATE LIMITED
248	U45400DL2008PTC179071	NASSA BUILDERS PRIVATE LIMITED
249	U80302DL2011PTC213084	NB BASIC EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
250	U72300DL2010PTC205414	NBPC TRADING PRIVATE LIMITED
251	U65992DL2012PTC235340	NCR CHITS PRIVATE LIMITED
252	U45200DL2011PTC223936	NEHA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
253	U74900DL2013PTC249906	NEO SUNCITY PRIVATE LIMITED
254	U63040DL2014OPC272784	NEW STAR ALLIANCE OPC PRIVATE LIMITED
255	U74120DL2008PTC173360	NEXICON BIOTECH PRIVATE LIMITED
256	U74140HR2012PTC047037	NGD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
257	U72900DL2012PTC234718	NGEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
258	U74900DL2012PTC232352	NILAMBAR MEDIA PRIVATE LIMITED
259	U24243HR1992PTC031644	NIRMAL VED CHEMTEX PVT LTD
260	U74140DL2011PTC217602	NJP DIGITAL CONNECTIONS PRIVATE LIMITED
261	U72200DL2010PTC205488	NN & KK SOFT TRADING PRIVATE LIMITED
262	U74899DL1994PTC057674	NORITA MINECHEM PRIVATE LIMITED
263	U51909HR2008PTC038366	NRI MARKETING PRIVATE LIMITED
264	U36996HR2011FTC043981	NTH INDIA PRIVATE LIMITED
265	U63000DL2012PTC235491	NUC TRAVELS PRIVATE LIMITED
266	U45200DL1994PLC062559	OMPAC GLOBAL FINANCE LIMITED
267	U74999HR2011PTC044282	ONE97 ENTERPRISE MOBILE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
268	U72300DL2007PTC158324	OPPORTUNITIESAHEAD.COM PRIVATE LIMITED
269	U51909DL2009PTC193086	PAIRAHAN IMPEX PRIVATE LIMITED
270	U31900DL2011PTC213198	PALLAVI ELECTRICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
271	U15400DL1993PLC053488	PAN-SUI FOODS LIMITED
272	U55201DL2003PTC123575	PARADOX RESTAUBAR PRIVATE LIMITED
273	U63090DL2014PTC265726	PARAMANAND HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
274	U18109HR2009PTC039739	PARNIKA APPARELS PRIVATE LIMITED
275	U63040DL2012PTC240522	PARYATAK MITRA TOURS (INDIA) PRIVATE LIMITED
276	U32109DL2000PTC105562	PAVITRA POWER SYSTEM PRIVATE LIMITED
277	U74999DL2011PTC220341	PEGASUS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
278	U74140HR2013PTC048503	PERCEPT FABPRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
279	U45400DL2013PTC261083	PERFECT PROPERTY ZONE PRIVATE LIMITED
280	U74900HR2009PTC039776	PERO BIOTECH PRIVATE LIMITED
281	U70109DL2012PTC230835	PITAMBARI CONSTECH PRIVATE LIMITED
282	U51909DL2005PTC141913	PN PASAND IMPEX PRIVATE LIMITED
283	U80900DL2011PTC213190	POINT EDUCATION SERVICES & TRAINING PRIVATE LIMITED
284	U31300DL2012PTC236436	POLO CABLES PRIVATE LIMITED
285	U72300DL2014PTC270784	POWER LUNCH CONSULTING PRIVATE LIMITED
286	U80903HR2014PTC052715	PRANAVA BUSINESS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
287	U93000HR2013PTC051151	PRANYA STRUCTURAL-ENGINEERS PRIVATE LIMITED
288	U74140DL2014PTC265262	PRECISE CAD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
289	U74899DL1986PTC024705	PRECISION ANALYTICAL INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
290	U74140HR2005PTC035960	PRERNA MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
291	U65100DL2008PTC184145	PROFIT ADDA SHARES & STOCKS PRIVATE LIMITED
292	U74899DL1982PTC013058	PROMINENT ROAD CARRIERS PVT LTD
293	U70101HR2012PTC047662	PYRAMID LAND BASE PRIVATE LIMITED
294	U45201DL2004PTC129248	R B GREEN FARMS PRIVATE LIMITED
295	U22212DL2014PTC268503	R K G MEDIA PRIVATE LIMITED
296	U74899DL1993PTC054256	R LINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
297	U63040DL2010PTC205051	RA INDIA TOURS PRIVATE LIMITED
298	U31401DL2011PTC217865	RACER DIGITAL PRIVATE LIMITED
299	U70109DL2012PTC233241	RADHA KANHAI ESTATES PRIVATE LIMITED
300	U74996DL2006PTC149203	RADIANT FINE ARTS PRIVATE LIMITED.
301	U85110DL2008PTC177004	RADIANT ONCOCARE PRIVATE LIMITED
302	U74900DL2012PTC240260	RAJ SHERA PRODUCTION PRIVATE LIMITED
303	U74899DL1986PTC025950	RAM RANG AND SONS PRIVATE LIMITED
304	U14200HR2013PTC050438	RAMPRITAM INFRAMINING PRIVATE LIMITED
305	U74900DL2009PTC188958	RDS BLACKWATER MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
306	U51900DL2011PTC216113	RED GODDESS EXPORT IMPORT PRIVATE LIMITED
307	U63040DL2012PTC237057	RED MAPLE IMIGRATIONS PRIVATE LIMITED
308	U45200DL2010PTC210353	REDBEE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
309	U51909DL2014PTC272061	REDBERRY EXPO PRIVATE LIMITED
310	U72200DL1997PTC089603	RENAISSANCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
311	U70101DL2005PTC143404	RHYTHM ESTATE PVT LTD
312	U27310DL2006PLC149079	RICHE STEELS & POWER LIMITD.
313	U70109DL2013PTC253793	RINGA INFRADEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
314	U61200DL2009PTC191678	RISING SHIPPING SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
315	U72200DL2011PTC220995	RIVER ROYALTIES CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
316	U45400DL2014PTC271770	ROY HOMES PRIVATE LIMITED
317	U63090DL2013PTC252243	ROYAL VALTRANS INTERNATIONAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
318	U93000DL2012PTC238171	RTE SERVICES PRIVATE LIMITED
319	U74999DL2014PTC267122	RUDRAANG CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
320	U93090DL2009PTC189382	RV LIASONING AND DOCUMENTATION PRIVATE LIMITED
321	U45200DL2011PTC229393	RVN BUILDTEC PRIVATE LIMITED
322	U74999DL2009PTC191031	RVR VITAL LINKS OUTSOURCING PRIVATE LIMITED
323	U70100DL2011PTC219717	S A S INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
324	U74999DL2014PTC266984	S K MODULAR KITCHENS PRIVATE LIMITED
325	U80900DL2010PTC211115	S P VISION EDUCATION PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
326	U64200DL2008PTC176812	S V INFRATEL PRIVATE LIMITED
327	U45400DL2008PTC172806	S.P. INFRABUILD PRIVATE LIMITED
328	U65992HR2007PTC036739	S.V.D. CHITS PRIVATE LIMITED
329	U15122DL2013PTC250433	SAGAR REFINERY PRIVATE LIMITED
330	U19202DL2005PTC143683	SALASAR FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
331	U74999DL2004PTC127841	SALASAR POLYMERS PRIVATE LIMITED
332	U72200DL1996PTC080256	SALNA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
333	U70101DL2010PTC204118	SAT REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
334	U45200DL2013PTC257806	SAY BHU VIKAS & NIRMAN PRIVATE LIMITED
335	U63010DL2011PTC224363	SEAKALE SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
336	U32107DL2014FTC263681	SEMILEDs INDIA PRIVATE LIMITED
337	U74899DL1985PTC021199	SETU CONSULTANTS PRIVATE LTD.
338	U74999HR2009PTC039038	SHANDILYA PACKAGING PRIVATE LIMITED
339	U67120DL2005PTC132542	SHANTA PORTFOLIO PRIVATE LIMITED
340	U34102DL2007PTC160544	SHEETAL AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
341	U41000DL2011PTC220396	SHELL WATERWORKS PRIVATE LIMITED
342	U01400DL2011PTC226025	SHINDIG AGRICARE PRIVATE LIMITED
343	U51909DL1997PTC084729	SHORE TO SHORE INDIA PVT LTD
344	U51909DL2006PTC146763	SHREE SALESWAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
345	U45400DL2013PTC250106	SHREEHARI REALINFRA PRIVATE LIMITED
346	U51397DL2012PTC237137	SHRI RAM SURGICARE PRIVATE LIMITED
347	U51109DL2008PTC172837	SHRI SAI COATED PAPERS PRIVATE LIMITED
348	U25209DL2013PTC250103	SHRI SAI MOULD PLAST PRIVATE LIMITED
349	U72200DL1988PTC031892	SIGMA WIZARD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
350	U20232DL2012PTC239167	SILVER HYLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
351	U72200DL2011PTC215507	SITI ABC CABLE NETWORK AZAMGARH PRIVATE LIMITED
352	U72200DL2011PTC215546	SITI ABC CABLE NETWORK MAU PRIVATE LIMITED
353	U72300DL2010PTC205453	SKJNK TRADING PRIVATE LIMITED
354	U74899DL1991PTC045461	SLEEK SALES PRIVATE LIMITED
355	U93000DL2010PTC205424	SMN MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
356	U72900DL2000PLC105577	SOFTALK LAKHOTIA INFOCOM LIMITED
357	U70101DL2011PTC219775	SPIRIT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
358	U72900DL2011PTC219038	SPS TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
359	U65910DL1996PLC083883	SPP FINLEASE INDIA LIMITED
360	U65992HR2010PTC040886	SRISHTI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
361	U31500DL2003PTC122065	SRN ELECTRICALS & ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
362	U72900DL2011PTC222533	SRR INFOTECH PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
363	U70200DL2011PTC212436	SRVK ESTATE PRIVATE LIMITED
364	U74140DL2011PTC223377	SSG SATORI DEZSSIGNS PRIVATE LIMITED
365	U74999DL2014PTC263763	SUDHA FUTURISTIC PRIVATE LIMITED
366	U74899DL1990PTC041854	SUGAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
367	U51101DL1998PTC094817	SUHAG EMPORIUM PRIVATE LIMITED
368	U70100DL2011PTC219757	SUMEL TOWERS PRIVATE LIMITED
369	U80903DL2013PTC262763	SUN EDU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
370	U50102DL1996ULL075631	SUNSTAR SALES AND SERVICES LIMITED
371	U74899DL1980PTC011149	SUPER FINE AUTO TRACK INDUSTRIES PVT LTD
372	U72200DL2009PTC186597	SUPREMUM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
373	U72300DL2014PTC264906	SWILL INFOCOM PRIVATE LIMITED
374	U74899DL1990PTC040393	SYMPHONY COMPUTERS PVT LTD
375	U74999DL2011PTC217968	TEAM INTERIORS PRIVATE LIMITED
376	U28113DL2011PTC212152	TIRUPATI VALVES PRIVATE LIMITED
377	U32300DL2012PTC230808	TMS TRAFFIC SIGNAL COMPANY PRIVATE LIMITED
378	U74920DL2001PTC113041	TRAKS SQUAD PRIVATE LIMITED
379	U74899DL1995PTC064205	TRANZ-ACTION OUTSOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
380	U74899DL1993PTC055636	TRIKUTA LEASING INDIA PRIVATE LIMITED
381	U74899DL1984PTC018918	TRIMURTI ESTATES PRIVATE LIMITED
382	U45300DL2008PTC179879	TUHI TUHI BUILDCON PRIVATE LIMITED
383	U74899DL1998PTC096585	TVAM (INDIA) PRIVATE LIMITED
384	U92490DL2013PTC255817	TWENTY502 PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
385	U74999DL2015PTC278942	TYCOONS SECURITY AND FACILITY PRIVATE LIMITED
386	U45200DL2007PTC157256	UDAAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
387	U80904DL2014PTC264671	UNITY FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
388	U27106DL2006PTC153422	USAKA ENGINEERS PRIVATE LIMITED.
389	U70109DL2013PTC247809	V K G DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
390	U17120DL2013PTC259235	V K TEX FAB PRIVATE LIMITED
391	U70200DL2008PTC182214	V P G REALTORS PRIVATE LIMITED
392	U74899DL1987PTC027534	V P KELKAR AND COMPANY PRIVATE LIMITED
393	U51909DL2011PTC222827	VAK MERCHANDISING PRIVATE LIMITED
394	U52100DL2010PTC202064	VARDHMAN TRADEX PRIVATE LIMITED
395	U51505DL2008PTC181324	VEDA EQUIPMENTS & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
396	U45201HR2014PTC052721	VEDIKA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
397	U01549DL1997PTC091219	VEE ESS FOODS PRIVATE LIMITED
398	U51102DL2012PTC246054	VELIXIR ALLCHEMS SOLUTION PRIVATE LIMITED
399	U70101DL2011PTC212844	VENTO FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED

SL NO	CIN	COMPANY NAME
400	U29268DL2008PTC183430	WARIS AUTO SERVICES PRIVATE LIMITED
401	U15400DL2012PTC246037	WEIDER INDIA NUTRITION PRIVATE LIMITED
402	U63090DL2013PTC259350	WINK HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
403	U70109DL2006PTC153671	WINSOME BUILDCON PRIVATE LIMITED.
404	U92419DL2010PTC199387	XONBARY MEDIA PRIVATE LIMITED
405	U52100DL2014PTC273034	YASHREE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
406	U45200DL2009PTC190915	YOJANA BUILDWELL PRIVATE LIMITED
407	U55101DL2013PTC246865	ZAAFRAN HOTELS PRIVATE LIMITED
408	U93000DL2011PTC227388	ZENA RESORTS AND SPA PRIVATE LIMITED
409	U29230HR2012PTC046403	ZETA ALARM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
410	U72100DL1999PTC098182	ZION ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
411	U22222DL2009ULT195376	ZODIAC MEDIA PRIVATE LIMITED

DEBASHISH BANDOPADHYAY
Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

Chandigarh, the 30th June 2016

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies:—

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	30707	Onyx Info Solutions Private Limited
2.	24545	Kurali Automobiles India Private Limited
3.	35500	Beacon Trade Junction and Investments Limited
4.	36265	Jades Asia Private Limited
5.	38817	Shree Business House Private Limited
6.	23093	Taneja Fine Knitters Private Limited
7.	15533	Maxwell Health Care Limited
8.	34660	Grapine Technologies Private Limited
9.	20185	R.V. Comfort Wears Private Limited
10.	27293	Pahul Impex Private Limited
11.	23162	East Wing Travels Private Limited
12.	22744	M Lal Steels Private Limited
13.	17794	Sukhmani Recording Studio Private Limited
14.	34045	SGS Gaskets Private Limited
15.	35946	SNS Industries Private Limited
16.	25967	R.A. Mansions India Private Limited
17.	32891	Anika Builders Private Limited

1	2	3
18.	32908	Bhuvaneshwari Buildmart Private Limited
19.	32929	Harini Land Developers Private Limited
20.	32927	Padmamukhi Buildmart Private Limited
21.	32935	Varalakshmi Buildcon Private Limited
22.	37582	B B Educational Services Private Limited
23.	33945	RDA Creative Solutions Private Limited
24.	32909	Chandrapura Buildwell Private Limited
25.	32893	Deveshi Buildwell Private Limited
26.	32892	Nandana Landpro Private Limited
27.	32906	Satviki Land Developers Private Limited
28.	32907	Tvarita Buildcon Private Limited
29.	32208	Oasis Caterers Private Limited
30.	39285	Dreamland Abroad Study Private Limited
31.	36006	Sonu Forex Private Limited
32.	24531	Punjab Polymers Products Private Limited
33.	32281	Innovative Metering Solutions Private Limited
34.	19503	Medisearch Diagnostics India Private Limited
35.	14474	Karnal Rubber Private Limited
36.	37702	Dawn Industries Private Limited
37.	33576	Techno Financial Trade Junction Limited
38.	35221	Silver Stone Sports Zone Private Limited
39.	30504	Northern India Tubing Private Limited
40.	12026	Nine Star Microfilters Private Limited
41.	32658	Open IT Methods Private Limited
42.	23267	Amcare Resorts Limited
43.	22311	Madhusudan Financial Services Private Limited
44.	32066	Edge Traxim Private Limited
45.	32057	Visage Trading Private Limited
46.	32053	Pagoda Trading Private Limited
47.	35566	Sukhmani Holdings & Trading Private Limited
48.	35569	Loremate Solutions Private Limited
49.	34165	Excel Medilife Private Limited
50.	25244	Numeric Overseas Private Limited
51.	35416	Ausnat Education Private Limited
52.	34198	Quality Veg Produce Private Limited
53.	28350	Bathinda Promoters Private Limited

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 27th May 2016

No. ROC/WB/LLP-75/2016—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 13 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved :—

Sl. No.	LLPIN	Name of the LLP
1.	AAB-0399	PLAYFUL CHAMPS LEARNING SOLUTIONS LLP
2.	AAC-7471	BUTTERCUP TOWERS LLP
3.	AAC-7488	GALUNITE INFRASTRUCTURES LLP
4.	AAC-7513	CELESTINE BUILDCON LLP
5.	AAC-7527	STRIBOG PLAZZA LLP
6.	AAC-7493	OROSHI HEIGHTS LLP
7.	AAC-7491	RADOLENT MANSIONS LLP
8.	AAC-7518	GREENJASPER PROPERTIES LLP
9.	AAC-7514	COPAL CONCLAVE LLP
10.	AAC-515	CYANITE BUILDWELL LLP
11.	AAC-7526	SONAPANI HOUSING LLP
12.	AAC-7489	PUSHPDHAM NIRMAN LLP
13.	AAA-7585	FLEETING KARMA MEDIA LLP

PRANAY CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in